



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1293]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्टूबर 27, 2006/कार्तिक 5, 1928

No. 1293]

NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 27, 2006/KARTIKA 5, 1928

पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

(सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2006

का.आ. 1852(अ).—केन्द्रीय सरकार ने, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई भारत सरकार के पोत परिवहन, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (सड़क परिवहन और राजमार्ग विभाग) की अधिसूचना संख्या का.आ. 957(अ), तारीख 28 जून, 2006, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित की गई थी, द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 11 के 17.756 कि.मी. से 42.525 कि.मी. (आगरा-भरतपुर सेक्शन) तक के भूखण्ड का निर्माण (चार लेन का बनाने/चौड़ा करने आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा (3) के अधीन तारीख 20 जुलाई, 2006 को “दैनिक जागरण” और तारीख 20 जुलाई, 2006 को “अमर उजाला” में प्रकाशित किया गया था;

और, आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और, सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट के प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगों से मुक्त होकर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11

के 17.756 कि०मी० से 42.525 कि०मी० तक (आगरा भरतपुर - सेवशन) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिले का नाम	तालुक का नाम	गाँव का नाम	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में)	भू स्वामियों / हितवद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	आगरा	किरावली	1. बरीदा सदर	34/1	निजी	कृषि	0.030	लाल सिंह, कोमल सिंह, सतेन्द्र सिंह, भगवान सिंह, पुत्रगण रामस्वरूप निवासी ग्राम
				35/1	निजी	कृषि	0.050	गिराज सिंह, दुरजनसिंह पुत्रगण राम सिंह निवासी ग्राम
				38/1	निजी	कृषि	0.054	गिराज सिंह, दुरजनसिंह पुत्रगण राम सिंह निवासी ग्राम
						योग	0.134	हेमदेवर
			2. महुर	421	निजी	कृषि	0.340	नौरतन, रमेशचन्द, धनेशचन्द देवीराम, भगवती प्रसाद पुत्रगण किरौरी लाल निवासी ग्राम
				323	निजी	कृषि	0.192	नौरतन, रमेशचन्द, भगवती प्रसाद पुत्रगण किरौरी लाल निवासी ग्राम
				322	निजी	कृषि	0.180	नौरतन, रमेशचन्द, भगवती प्रसाद पुत्रगण किरौरी लाल एवं राशि विल्डकोन प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर श्री मुकेशकुमार अग्रवाल पुत्र कामताप्रसाद अग्रवाल निवासी 15 कमला नगर आगरा
				320	निजी	कृषि	0.020	राशि विल्डकोन प्रा० लि० द्वारा डायरेक्टर श्री मुकेशकुमार अग्रवाल पुत्र कामताप्रसाद अग्रवाल निवासी 15 कमला नगर आगरा
				426/1	निजी	कृषि	0.850	शिव कुमार, बालकिशन, मोनू पुत्रगण केशवदेव निवासी ग्राम, कुशमा देवी पत्नी स्वर्गीय केशव देव, गोविन्द प्रसाद, भगवान दास, राकेश कुमार पुत्रगण देवी सिंह निवासी ग्राम, लमेश, नरेश, मानसिंह, राजकुमार, योगेश पुत्रगण भरत सिंह निवासी ग्राम
				427	चिकित्सालय गोशाला, सन्त आश्रम	अकृषक	0.360	चिकित्सालय, गऊशाला, सन्त आश्रम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				428/1	निजी	कृषि	0.189	हरी सिंह पुत्र कहैया, लालसिंह पुत्र चतुरी एवं श्रीमती सोमोती पत्नी हरी सिंह निवासी ग्राम
				430	निजी	कृषि	0.126	राम प्रसाद, शिवराम पुत्रगण रामस्वरूप निवासी ग्राम
				443	निजी	कृषि	0.019	कालीचरण, रंगप्रसाद पुत्रगण डूंगर सिंह निवासी ग्राम
								डोरीलाल पुत्र गोपीचन्द, रघुवीर सिंह, कहैया पुत्रगण सुखना निवासी ग्राम
				444	निजी	कृषि	0.180	सुरेश चन्द्र पुत्र भवानी सिंह निवासी ग्राम
				448	निजी	कृषि	0.180	जीवाराम पुत्र बहोरा निवासी ग्राम
				451	निजी	कृषि	0.342	मिर्हीलाल पुत्र डूंगरसिंह निवासी अमुआपुरा
				456	निजी	कृषि	0.090	नवलसिंह, रज्जो, पुत्रगण सोनिया श्रीमती विस्सा देवी पत्नी सोनिया निवासी अमुआपुरा
				459	निजी	कृषि	0.300	रामप्रकाश, विजेन्द्र सिंह, ओमप्रकाश रामदत्त, श्री प्रकाश पुत्रगण भगवान सिंह निवासी नगला कुरा मजरा ग्राम
			3. गोपऊ			योग	3.368	हेन्टेअर
				1139	निजी	कृषि	0.240	रामप्रकाश, विजेन्द्र, ओमप्रकाश रामदत्त एवं श्री प्रकाश पुत्रगण भगवानसिंह निवासी नगला कुरा मजरा महुआर
				1137	निजी	कृषि	0.080	साहूकार, भगवानदास, हरिनारायण, पुत्रगण डालचंद निवासी अमुआपुरा, जगन फयूजस प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड आफिस 10 सी 106 लाल कोठी स्कीम जयपुर, द्वारा डाइरेक्टर रीतेश शर्मा पुत्र मुरारीलाल शर्मा निवासी जगन भवन, धौलपुर
				1136	निजी	कृषि	0.100	प्रमोद कुमार पुत्र भगवानदास, जगन फयूजस प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड आफिस सी 106 लाल कोठी स्कीम जयपुर, द्वारा डाइरेक्टर रीतेश शर्मा पुत्र मुरारी लाल शर्मा निवासी जगन भवन, धौलपुर
				1132	निजी	कृषि	0.084	नरथसिंह, सियाराम पुत्रगण राजाराम निवासी अमुआपुरा
				1131	निजी	कृषि/आबादी	0.440	नरथसिंह, सियाराम पुत्रगण राजाराम निवासी अमुआपुरा
				1169	निजी	कृषि	0.129	रयामलाल, रमेश, महेश पुत्रगण बहादुर, श्रीमती पुनिया पत्नी स्वर्गीय बहादुर निवासी ग्राम
				1171	निजी	कृषि	0.800	खेमसिंह, दरबसिंह पुत्रगण देवीसिंह सुरेन्द्रसिंह, प्रवेन्द्रसिंह, भूपेन्द्रसिंह, देवेन्द्रसिंह पुत्रगण सोहनसिंह श्रीमती ओमवती पत्नी स्वर्गीय सोहनसिंह जगदीशसिंह पुत्र देवीसिंह निवासी अमुआपुरा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								खेमसिंह पुत्र देवीसिंह निवासी अमुआपुरा
								जगदीश पुत्र देवी सिंह निवासी अमुआपुरा
								सुरेन्द्रसिंह, प्रवेन्द्रसिंह, मृणेंद्रसिंह, देवेन्द्रसिंह पुत्रगण सोहनसिंह व ओमवती पत्नी स्वर्गीय सोहनसिंह
								दरबसिंह पुत्र देवीसिंह निवासी अमुआपुरा
				1168	निजी	कृषि	0.075	महेश पुत्र निरंजनसिंह, रतनसिंह, अमरपालसिंह, चरनसिंह पुत्रगण टोडरसिंह, नरेन्द्रसिंह पुत्र अमरपालसिंह, योगेन्द्रसिंह पुत्र हाकिमसिंह निवासी अमुआपुरा
				1043	निजी	कृषि	0.300	नौहवतसिंह पुत्र मैंगला निवासी अमुआपुरा
								वीरनरायण पुत्र फौरनसिंह निवासी अमुआपुरा
								दामोदर पुत्र फौरनसिंह निवासी अमुआपुरा
								सौदानसिंह पुत्र मैंगला निवासी अमुआपुरा
				1045	निजी	कृषि/आबादी	0.079	सौदानसिंह पुत्र मैंगला निवासी अमुआपुरा
				1046	निजी	कृषि	0.024	खजानसिंह, सुजानसिंह पुत्रगण नाहरसिंह, श्रीमती जनकश्री पत्नी स्वर्गीय नाहरसिंह निवासी गल्लामंडी किरावली
						योग	2.351	हेमदेवर
			4. अमुआपुरा	222	निजी	कृषि/आबादी	0.218	श्री ठाकुर राधाकिशन जी महाराज अहलाम आनंद बिहारीलाल पुत्र गङ्गमल, ब्रजभूषण पुत्र श्यामलाल निवासी ग्राम
				224	निजी	कृषि	0.086	रामेश्वर दयाल पुत्र भोगीराम रामखिलाडी पुत्र बिहारीलाल, दीवान सिंह पुत्र विद्विषाख दिवासी ग्राम
								वासवती पत्नी सरवनलाल निवासी खेड़िया जिला मथुरा
				227	निजी	कृषि/आबादी	0.144	विजन्दर पुत्र भीमा निवासी ग्राम
				238	निजी	कृषि, कोल्ड स्टोरेज	0.066	भगवान सिंह पुत्र मोहनसिंह मैसर्स किरावली कोल्ड स्टोरेज प्रा० लि० किरावली निवासी ग्राम, अखलेश राना पुत्र केशवसिंह राना निवासी किरावली
				240	निजी	कृषि/आबादी	0.060	रामखिलाडी, फूलसिंह पुत्रगण रामजीलाल, बच्चूसिंह, विजयसिंह पुत्रगण फूलसिंह निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				268	निजी	कृषि, बख्खाना	0.120	राजेंद्रसिंह, भरतसिंह, धानसिंह पुत्रगण दुकनसिंह, समुद्रसिंह पुत्र सीतालाम निवासी रेलवे कॉलोनी करवा किरावली, बाबूलाल पुत्र शिवराम भैरवसिंह किसान आइरन फेक्ट्री ग्रांपराहट्टर भरतसिंह पुत्र दुकनसिंह, भगवानसिंह पुत्र निरंजनसिंह, श्रीमती प्रेमवती देवा रामकिशन निवासी ग्राम
				270	निजी	कृषि/आबादी	0.027	अंजुम प्रकाश, पतिराम, विजयसिंह पुत्रगण ननिगा निवासी ग्राम
								किशन, प्रमू, वीरी पुत्रगण मोहनलाल निवासी ग्राम श्री पत्नी सितारो निवासी ग्राम रमेश पुत्र दर्शन निवासी ग्राम, भूपेन्द्र बालिग सुनील, अनिल नाबालिग उम्र क्रमशः 11 व 8 वर्ष पुत्रगण जगदीश सरसिका मुंजीदेवी माँ स्वयं व मुंजीदेवी पत्नी जगदीश निवासी ग्राम कालीचरण, रामवीर पुत्रगण तहोरे निवासी ग्राम छोतो पुत्र फैली निवासी ग्राम
				271	निजी	आबादी	0.027	बनकरी सिंह पुत्र रूपसिंह, करानसिंह पुत्र गिराजसिंह, दुर्गासिंह पुत्र आरामी निवासी ग्राम
								उदरवीरसिंह, प्रतापसिंह, गीतवासिंह, पुत्रगण साहबसिंह शिवसिंह पुत्र जोतीराम निवासी सकरपुर
				279	निजी	कृषि/आबादी	0.045	विद्यावती पत्नी लालसिंह निवासी ग्राम
				477	निजी	कृषि	0.720	रूपेश दीक्षित पुत्र रामदेव दीक्षित निवासी पाली सदर, महेशचन्द पुत्र ताराचन्द निवासी मोहल्ला गल्ला मण्डी किरावली, शिवसिंह, अशोक कुमार पुत्रगण रघुवीर सिंह निवासी ग्राम बलवीरसिंह पुत्र रघुचन्दन निवासी ग्राम
				476	निजी	कृषि	0.040	लाखनसिंह, धानसिंह, नरेशचन्द पुत्रगण भूपसिंह, श्रीमती भगवती देवी पत्नी स्वर्गीय भूपसिंह निवासी ग्राम सुरेशचन्द, महेशचन्द पुत्रगण हीराताल, श्रीमती वासमती पत्नी स्वर्गीय हीराताल निवासी स्टेशन रोड, किरावली समुद्रसिंह पुत्र सीतालाम निवासी ग्राम
				475	निजी	कृषि/आबादी	0.454	लाखनसिंह, धानसिंह, नरेशचन्द पुत्रगण भूपसिंह व श्रीमती भगवती देवी पत्नी स्वर्गीय भूपसिंह निवासी ग्राम धर्मसिंह पुत्र गिराजसिंह निवासी ग्राम अकुआपुरा
				458	निजी	कृषि	0.210	संजय पुत्र भगवान सिंह निवासी कबूलपुर तहसील व जिला आगरा रामप्रसाद, विशम्बर रामेश्वर पुत्रगण ननिगा निवासी ग्राम पीतमसिंह, बलवीरसिंह, विशम्बरसिंह पुत्रगण फूसिया निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								रामसिंह, मोहनसिंह पुत्रगण रघुवी निवासी ग्राम रज्जो पुत्र सोनी, नरेश पुत्र नैमी निवासी ग्राम संजय पुत्र भावान सिंह निवासी कबूलपुर तहसील व जिला आगरा बहादुरसिंह, बदले पुत्रगण मुन्नीलाल निवासी ग्राम
				457	निजी	कृषि	0.006	रामसिंह पुत्र बस्तीराम निवासी ग्राम
				459	निजी	कृषि	0.360	रामसिंह पुत्र रामसिंह, चन्द्रपाल, जगनसिंह पुत्रगण हिममतसिंह, हिममतसिंह पुत्र बस्तीराम निवासी ग्राम
				456	निजी	कृषि	0.016	बहादुरसिंह, बदले पुत्रगण मुन्नीलाल निवासी ग्राम
				455	निजी	कृषि	0.087	लेखराज, जसस्य पुत्रगण बूवा मुन्नीसिंह, अकधेश, राजकुमार पुत्रगण मुन्नीसिंह निवासी ग्राम
				454	निजी	कृषि	0.004	अशोक कुमार पुत्र बदलीसिंह निवासी अमृतापुरा, श्रीमती तारावती पत्नी देशराजसिंह निवासी मलिकपुर तहसील किरावती
				451	निजी	कृषि	0.192	बहादुरसिंह, बदले पुत्रगण मुन्नीलाल निवासी ग्राम
				441	निजी	कृषि/आबादी	0.240	दरबसिंह, खेमसिंह, जगदीशसिंह पुत्रगण देवीसिंह सुरेन्द्रसिंह, प्रवेन्द्रसिंह, भूपेन्द्रसिंह, देवेन्द्रसिंह पुत्रगण सोहनसिंह, ओमवती पत्नी स्वर्गीय सोहनसिंह निवासी ग्राम
								खेम सिंह पुत्र देवीसिंह निवासी ग्राम जगदीश सिंह पुत्र देवीसिंह निवासी ग्राम दरबसिंह पुत्र देवीसिंह निवासी ग्राम सोहनसिंह पुत्र देवीसिंह निवासी ग्राम
				439	निजी	कृषि	0.035	अमरसिंह, सतीशचन्द, बृजकिशोर पुत्रगण रामखिलाडी निवासी ग्राम
				473	निजी	कृषि	0.029	छिदीलाल, नारायणसिंह पुत्रगण श्यामा निवासी ग्राम
				306	निजी	टाउन एरिया	0.035	बजर
				307	निजी	टाउन एरिया	0.072	बजर
				308	निजी	आबादी, टाउन एरिया	0.201	नौवतसिंह पुत्र रतनीसिंह निवासी ग्राम
				309	निजी	आबादी, टाउन एरिया	0.156	निराती, भजना पुत्रगण रामखिलाडी निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				318	निजी	आबादी, टाउन एरिया	0.119	राजेंद्र सिंह, भक्तसिंह पुत्रगण दुर्गासिंह, हेन्दुसिंह पुत्र थानसिंह मु० हरदेवी पत्नी स्वर्गीय थानसिंह, निरंजनसिंह, महेंद्रसिंह, पुत्रगण लालाराम, खजानसिंह, रनवीरसिंह पुत्रगण रतनसिंह निवासी ग्राम लालसिंह पुत्र भगवानसिंह निवासी ग्राम
				324	निजी	आबादी, टाउन एरिया	0.030	मु० जलदेवी पुत्री बहोरी श्रीमती गुलकंदी बेवा केंचन निवासी ग्राम
				325	निजी	आबादी, टाउन एरिया	0.015	शिवचरण पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम सुलका पुत्र लदूर निवासी ग्राम
				328	निजी	आबादी, टाउन एरिया	0.120	श्रीकर्मसिंह उर्फ जगदीशप्रसाद पुत्र रामनारायण निवासी ग्राम हरनारायणसिंह, रामदेवसिंह पुत्रगण हिरासिंह निवासी नगला मैया मजरा गोपक, विजयसिंह पुत्र दुद्धा निवासी ग्राम
				329	निजी	आबादी, टाउन एरिया	0.033	लाखनसिंह, मानसिंह, नरेशचन्द पुत्रगण भूपसिंह, श्रीमती भगवती देवी पत्नी स्वर्गीय भूपसिंह सुरेशचन्द, महेशचन्द पुत्रगण हीरालाल, श्रीमती वासमती पत्नी स्वर्गीय हीरालाल निवासी स्टेशन रोड कस्बा किगावली समुन्द्र सिंह, किशनसिंह पुत्रगण सीताराम निवासी ग्राम
				305	निजी	टाउन एरिया	0.023	दलवीरसिंह पुत्र बहादुरसिंह, श्रीमती शीलादेवी पत्नी स्वर्गीय बहादुरसिंह, शिवचरण पुत्र भगवान सिंह, महावीर सिंह, जलसिंह, लीलाधर पुत्रगण रामजीलाल बिजैन पुत्र भीमा, दुर्गसिंह, दामोदरसिंह, सुखवीरसिंह पुत्रगण इन्दरसिंह निवासी ग्राम
				304	निजी	निजी अर्न्तगत टाउन एरिया	0.023	दलवीरसिंह पुत्र बहादुरसिंह, श्रीमती शीलादेवी पत्नी स्वर्गीय बहादुरसिंह, शिवचरण पुत्र भगवान सिंह, महावीर सिंह, जलसिंह, लीलाधर पुत्रगण रामजीलाल बिजैन पुत्र भीमा, दुर्गसिंह, दामोदरसिंह, सुखवीरसिंह पुत्रगण इन्दरसिंह निवासी ग्राम
				303	निजी	टाउन एरिया	0.041	दलवीरसिंह पुत्र बहादुरसिंह, श्रीमती शीलादेवी पत्नी स्वर्गीय बहादुरसिंह, शिवचरण पुत्र भगवान सिंह, महावीर सिंह, जलसिंह, लीलाधर पुत्रगण रामजीलाल बिजैन पुत्र भीमा, दुर्गसिंह, दामोदरसिंह, सुखवीरसिंह पुत्रगण इन्दरसिंह निवासी ग्राम
				302	निजी	टाउन एरिया	0.006	नौवतसिंह पुत्र रतन सिंह निरोती, भजना पुत्रगण रामखिलाडी निवासी ग्राम
				301	निजी	टाउन एरिया	0.006	रामखिलाडी, फूलसिंह पुत्रगण रामजीलाल, बच्चूसिंह, विजयसिंह पुत्रगण फूलसिंह निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				300	निजी	आबादी, टाउन एरिया	0.058	सुरेन्द्र कुमार, नागेन्द्रसिंह पुत्रगण मुंशीराम, गोपाल प्रसाद पुत्र मकलसाम सोमेश्वरसुन्दर पुत्र मीलचन्द, समस्ती देवी मंती शीलचन्द, देवेन्द्रसिंह पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम
				298	निजी	आबादी, टाउन एरिया	0.041	नैकमसिंह पुत्र रत्न सिंह, निरोत्ती भजन्त पुत्रगण रामखिलाडी निवासी ग्राम
				297	निजी	टाउन एरिया	0.046	भगवान सिंह पुत्र मोहन स्वामीसरन पुत्र निनुआ मैसर्स किरावली कोल्ड स्टोरेज प्रा० लि० किरावली निवासी ग्राम
				296	निजी	टाउन एरिया	0.023	रामखिलाडी, फूलसिंह पुत्रगण रामजीलाल, बच्चूसिंह, विजयसिंह पुत्रगण फूलसिंह निवासी ग्राम
				295	निजी	निजी अर्न्तगत टाउन एरिया	0.035	पदमसिंह, अमरपालसिंह, चरनसिंह, रतनसिंह पुत्रगण टोडरसिंह, अजीतसिंह, धाराजीत, दिनेशचन्द, सुरेशचन्द पुत्रगण राजनसिंह उर्फ निरंजनसिंह, हाकिमसिंह पुत्र राधेश्याम, मु० रूमाली देवी पत्नी राधेश्याम, हिममत्तसिंह पुत्र बस्तीराम घनश्यामसिंह, रनवीरसिंह, वीरीसिंह कमलसिंह, मोहनसिंह पुत्रगण बाबूलाल अरवेन्द्रसिंह, डालेन्द्रसिंह पुत्रगण हरदमसिंह, योगेन्द्रसिंह, धमेन्द्रसिंह, भूपेन्द्रसिंह नाबालिग उम्र क्रमशः 15, 12, 10 वर्ष पुत्रगण हरदमसिंह संरक्षिका फूलवती माता स्वयं व फूलवती पत्नी हरदमसिंह निवासी ग्राम
				294	निजी	टाउन एरिया	0.015	रामखिलाडी, फूलसिंह पुत्रगण रामजीलाल, बच्चूसिंह, विजयसिंह पुत्रगण फूलसिंह निवासी ग्राम
				293	निजी	टाउन एरिया	0.046	मु० बर्फी, विद्यादेवी पुत्रियाँ मंगधर गिराजसिंह, चोवसिंह पुत्रगण अतरसिंह, महावीरसिंह पुत्र लालसिंह राजवती पत्नी अर्जुनसिंह पुत्री विजयसिंह, अंगूरी पत्नी श्याम बाबू पुत्री विजयसिंह, चावली तहसील आगरा, हरीओजम नाबालिग उम्र 13 वर्ष पुत्र सुखराम संरक्षिका सोनदेवी माता स्वयं खजानसिंह, महेन्द्रसिंह पुत्रगण रामजीलाल, नौहवतसिंह, सोदानसिंह पुत्रगण मंगल वीनू, दम्पती पुत्रगण फौरनसिंह, गिरवरसिंह पुत्र रघुराजसिंह, पूरनसिंह नाबालिग उम्र 17 वर्ष पुत्र रघुराजसिंह संरक्षिका रामवीरी माता स्वयं, सुजानसिंह, नेत्रपाल पुत्रगण टीकाराम, हरिभान, कप्तान, साहूकार पुत्रगण किरौरी निवासी ग्राम
				292	निजी	आबादी, टाउन एरिया	0.057	हाकिमसिंह पुत्र लालाराम, मु० गूजरी पत्नी साहबसिंह निवासी ग्राम
				289	निजी	आबादी, टाउन एरिया	0.051	मु० प्रकाशी पुत्री श्रीलाल पत्नी महेन्द्रसिंह निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				288	निजी	आबादी, टाउन एरिया	0.092	दरबसिंह, खेमसिंह जगदीशसिंह पुत्रगण देवीसिंह, सुरेन्द्रसिंह, प्रवेन्द्रसिंह, भूपेन्द्रसिंह, देवेन्द्रसिंह पुत्रगण सोहनसिंह, ओजमवती पत्नी स्वर्गीय सोहनसिंह रोशनलाल पुत्र बूटी, फौरन पुत्र थाना, ऊधमसिंह, मातसिंह बालिग व विष्णु, सत्यवीर नाबालिग उम्र क्रमशः 15 व 13 वर्ष पुत्रगण श्यामलाल उर्फ लोटन बली मु० श्यामवती माँ, श्यामवती पत्नी श्यामलाल उर्फ लोटन, मूरीसिंह, समुन्द्रसिंह पुत्रगण परमसुख, मु० कर्मा, मु० विद्यादेवी पुत्रिया गंगाधर, गिराजसिंह, चोबसिंह पुत्रगण अतरसिंह, महावीरसिंह पुत्र लालसिंह हरिओम नाबालिग उम्र 13 वर्ष पुत्र सुखराम सरक्षिका रमनदेवी माता, सुजानसिंह, नेत्रपाल पुत्रगण टीकाराम, कपतान, हरिमान, साहूकार पुत्रगण किरोरी, खजानसिंह, महेन्द्रसिंह पुत्रगण रामजीलाल, गिरवरसिंह पुत्र रघुराजसिंह, पूरनसिंह नाबालिग उम्र 17 वर्ष पुत्र रघुराजसिंह सरक्षिका रामवीरी माता, नौहवतसिंह, सौदानसिंह पुत्रगण मंगल वीनू, दम्नो पुत्रगण फौरनसिंह निवासी ग्राम राजवती पत्नी अर्जुनसिंह पुत्री विजयसिंह, अंगूरी पत्नी श्यामबाबू पुत्री विजयसिंह निवासी चावली तहसील आगरा
				286	निजी	आबादी, टाउन एरिया	0.082	साहूकारसिंह, मलखानसिंह, गुलाबसिंह पुत्रगण फूलसिंह, देवीसिंह पुत्र मोहनसिंह, बनबारी करनसिंह पुत्रगण रूपसिंह बाबू दीपा पुत्रगण जुगला निवासी ग्राम
				221	निजी	कृषि	0.029	मथुराप्रसाद बोंके बिहारी पुत्रगण प्रमूदयाल, जगदीश प्रसाद, त्रिलोकीनाथ, नारद कुमार पुत्रगण बाबूलाल निवासी ग्राम
				474	निजी	कृषि	0.010	दुर्जन, फौरन, रघुनाथ पुत्रगण लोटन निवासी ग्राम
				284	निजी	आबादी, टाउन एरिया	0.002	भीकमसिंह उर्फ जगदीशप्रसाद पुत्र रामनारायन निवासी ग्राम
				283	निजी	आबादी, टाउन एरिया	0.052	हरीसिंह, जगदीश पुत्रगण ल्होरे उर्फ छिदा, राजवीरसिंह, उदयवीरसिंह, हजारीलाल पुत्रगण नेकसिया निवासी ग्राम
						योग	4.715	हेक्टअर
			5. वाग कलां	51/1	निजी	आबादी	0.001	नेत्रपालसिंह पुत्र चारेलाल अनेकसिंह, नरेश कुमार, दिनेश कुमार वीरेन्द्रसिंह पुत्रगण तोरनसिंह, रामवती देवी पत्नी तोरनसिंह गोविन्दसिंह पुत्र भैरवसिंह निवासी ग्राम अमुआपुरा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				52/1	निजी	आबादी	0.023	नेत्रपालसिंह पुत्र प्यारेलाल अनेकसिंह, नरेश कुमार, दिनेश कुमार वीरेन्द्रसिंह पुत्रगण तोरनसिंह, रामवती देवी पत्नी तोरनसिंह गोविन्दसिंह पुत्र भैरवसिंह निवासी ग्राम अम्बुआपुरा
				53/1	निजी	आबादी	0.166	नेत्रपालसिंह पुत्र प्यारेलाल अनेकसिंह, नरेश कुमार, दिनेश कुमार वीरेन्द्रसिंह पुत्रगण तोरनसिंह, रामवती देवी पत्नी तोरनसिंह गोविन्दसिंह पुत्र भैरवसिंह निवासी ग्राम अम्बुआपुरा
				53/3	निजी	आबादी	0.067	नेत्रपालसिंह पुत्र प्यारेलाल अनेकसिंह, नरेश कुमार, दिनेश कुमार वीरेन्द्रसिंह पुत्रगण तोरनसिंह, रामवती देवी पत्नी तोरनसिंह गोविन्दसिंह पुत्र भैरवसिंह निवासी ग्राम अम्बुआपुरा
				58	निजी	आबादी	0.286	उसमान अहमद पुत्र इमाम, रसीद अहमद पुत्र डाबू, कदीर, रईस व फरीद उर्फ मुन्ना पुत्रगण बकरीदा निवासी किरावली श्यामादेवी पुत्री बदरसिंह निवासी किरावली राजेन्द्रसिंह, धानसिंह, भरतसिंह पुत्रगण हुक्मसिंह निवासी अम्बुआपुरा, बाबूलाल पुत्र शिवलाल, अजीत, अलीमुद्दीन पुत्रगण अमीर वक्श, भूदेवी पत्नी भोजराज, शरीफ पुत्र मुंशी, निवासी किरावली योगेन्द्रसिंह पुत्र विजेन्द्रसिंह निवासी नगला श्योराम मजरा बरौली, हरिमानसिंह पुत्र हुक्मसिंह निवासी नगला श्योराम मजरा बरौली
				39	निजी	आबादी	0.250	द्वारिका प्रसाद, धर्मवीर, लखनसिंह, राजू पुत्रगण गोर्धनसिंह, राकेश नाबालिग उम्र 17 साल, पुत्र गोर्धनसिंह संरक्षिका शान्तीदेवी निवासी ग्राम विमलादेवी पत्नी रमेशचन्द्र, निवासी रायगा मु० भूदेवी पत्नी भोजराज निवासी किरावली
				73/1	निजी	आबादी	0.012	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामेश्वर प्रसाद, रफीकुल पुत्र मुंशी, हरीकिशन, तरुणकुमार पुत्रगण रमेशचन्द्र उर्मिला देवी पत्नी रमेशचन्द्र निवासी किरावली
				74/1	निजी	आबादी	0.035	विनोद कुमार पुत्र किशनप्रसाद, अम्बा प्रसाद व महेशचन्द्र पुत्रगण श्यामलाल निवासी किरावली, जोहरी पुत्र गुलजारी, सतीशचन्द्र, राजकुमार पुत्रगण जवाहरलाल शीलादेवी पत्नी जवाहरलाल निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				71	निजी	आबादी	0.014	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामेश्वर प्रसाद, रफीकुल पुत्र मुंशी, हरीकिशन, तरुणकुमार पुत्रगण रमेशचन्द्र उर्मिला देवी पत्नी रमेशचन्द्र निवासी किरावली सामलिया चेताराम पुत्रगण भिक्की निवासी ग्राम, तोरनसिंह, रसाल सिंह पुत्रगण मोहर सिंह निवासी कराहरा
				72	निजी	आबादी	0.049	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र रामेश्वर प्रसाद, रफीकुल पुत्र मुंशी, हरीकिशन, तरुणकुमार पुत्रगण रमेशचन्द्र उर्मिला देवी पत्नी रमेशचन्द्र निवासी किरावली रमेशचन्द्र, निरोत्तम चन्द, सुभाषचन्द्र, महेशचन्द्र, मोहनमुरारी, लक्ष्मीनारायण पुत्रगण बैजनाथ निवासी किरावली, लक्ष्मण प्रसाद दत्तक पुत्र हरिप्रसाद निवासी किरावली
				92	निजी	आबादी	0.131	रिषी कुमार उर्फ परबोत्तम, बृजकिशोर पुत्र भूपसिंह, हरिविलास, अमर चन्द पुत्रगण अच्छनलाल निवासी किरावली
				76	निजी	आबादी	0.137	हरेन्द्रसिंह, जगदीरसिंह पुत्रगण गोपालसिंह निवासी अमैदपुरा, वीरपालसिंह बालिग, धर्मवीर सिंह नाबालिग उम्र 16 वर्ष सरक्षिका मंजू देवी माँ पुत्रगण चन्द्रवीरसिंह व मंजू देवी पत्नी स्वर्गीय चन्द्रवीरसिंह निवासी अमैदपुरा, राजवीर सिंह, महेंद्र सिंह पुत्रगण सोबरन सिंह, मोहनसिंह पुत्र हीरासिंह, सुरेश चन्द पुत्र डूंगरसिंह, फतेहसिंह पुत्र सोहन सिंह निवासी अमैदपुरा
				90	निजी	आबादी	0.046	गोपाल प्रसाद पुत्र सोनी निवासी अमैदपुरा
						योग	1.217	हेक्टयर
			6. पुरामना	392/1	निजी	टाउन एरिया/ आबादी	0.139	मोहनलाल, गिरिश चन्द्र पुत्रगण बाबूलाल, हरीनारायण, चरनसिंह, परबोत्तम, पुत्रगण विजेन्द्र सिंह, व वरफीदेवी पत्नी स्वर्गीय विजेन्द्रसिंह, पूरनचन्द, खूबचन्द, कंचनसिंह पुत्रगण अंगद निवासी भवनपुरा
				393/1	निजी	टाउन एरिया/ आबादी	0.048	विजेन्द्र पुत्र गोरधना निवासी भवनपुरा मजरा ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				394/1	निजी	टाउन एरिया/ आबादी	0.068	हरीलाल, राकेश कुमार, दिनेश कुमार पुत्रगण उदयसिंह, मुकेश कुमार पुत्र रामबाबू, महादेवी पत्नी स्वर्गीय रामबाबू, निवासी भवनपुरा, प्रेमचन्द, आमप्रकाश पुत्रगण श्री चन्द निवासी वमनपुरा मजरा ग्राम
				376	निजी	टाउन एरिया/ आबादी	0.008	गोपाल प्रसाद, कैलाशी, लक्ष्मन, विजय कुमार पुत्रगण बसन्तलाल, विनोदकुमार, सतीशचन्द, राजेश कुमार, अजयकुमार पुत्रगण सूरजमान निवासी किरावली
				375/1	निजी	टाउन एरिया/ आबादी	0.162	गोपाल प्रसाद, कैलाशी, लक्ष्मन, विजय कुमार पुत्रगण बसन्तलाल, विनोदकुमार, सतीशचन्द, राजेश कुमार, अजयकुमार पुत्रगण सूरजमान निवासी किरावली
				367	निजी	टाउन एरिया	0.051	आबादी
				377	निजी	टाउन एरिया/ आबादी	0.011	गोपाल प्रसाद, कैलाशी, लक्ष्मन व विजय कुमार पुत्रगण बसन्तलाल, विनोदकुमार, सतीशचन्द, राजेश कुमार, अजय कुमार पुत्रगण सूरजमान निवासी किरावली
				390	निजी	टाउन एरिया/ आबादी	0.080	गुलाबसिंह, केशवचन्द, मुरारीलाल पुत्रगण जोतीराम, फूलसिंह पुत्र हेमराज निवासी भवनपुरा मजरा ग्राम
				406	निजी	टाउन एरिया/ आबादी	0.030	गोपाल पुत्र सोनीराम निवासी अभैदोपुरा
				379/1	निजी	टाउन एरिया/ आबादी	0.132	गुलाबसिंह, केशवचन्द, मुरारीलाल पुत्रगण जोतीराम, फूलसिंह पुत्र हेमराज निवासी भवनपुरा मजरा ग्राम
				391/1	निजी	टाउन एरिया/ आबादी	0.148	गुलाबसिंह, केशवचन्द, मुरारीलाल पुत्रगण जोतीराम, फूलसिंह पुत्र हेमराज निवासी भवनपुरा मजरा ग्राम
						योग	0.877	हेक्टेअर
			7. अभैदोपुरा	260	निजी	कृषि	0.984	पुरुषोत्तम उर्फ, त्रिषी, बृजकिशोर पुत्रगण भूपसिंह, हरविलास, अमरचंद पुत्रगण अछन ताल निवासी किसानजी
				310	निजी	कृषि	0.240	अशोक कुमार पुत्र नन्द किशोर निवासी ट्रांसपोर्ट नगर, आगरा, विजेन्द्रसिंह पुत्र गोर्धनसिंह निवासी वमनपुरा मजरा पुरामना
				314	निजी	आबादी	0.192	गुलाबसिंह, केशवदेव, मुरारीलाल पुत्रगण जोतीराम निवासी वमनपुरा मजरा पुरामना फूलसिंह पुत्र हेमलाल निवासी वमनपुरा मजरा पुरामना

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								मुलाबसिंह, केशवदेव, मुरारीलाल पुत्रगण जोतराम फूलसिंह पुत्र हेमलाल निवासी वमनपुरा मजरा पुरामना
				316	निजी	कृषि	0.488	सोना नाबालिग आशीष नाबालिग उम्र क्रमशः 17 व 13 वर्ष पुत्रगण भगवानसिंह सरसिका बेबी मों स्वयं, श्रीमती बेबी पत्नी भगवानसिंह, महेशचन्द, नरेशचन्द पुत्रगण भोगीराम निवासी वमनपुरा मजरा पुरामना, सतराम, परमानन्द पुत्रगण मुरली निवासी ग्राम, वमनपुरा मजरा पुरामना, मोहनसिंह पुत्र रामसरन निवासी वमनपुरा, विशम्बर दयाल पुत्रगण कुन्जीलाल निवासी 16 A प्रभूनगर, आगरा
				317	निजी	कृषि	0.088	भगवानसिंह, बदरसिंह पुत्रगण हरचंद, पूरन सिंह, मेव सिंह, राजवीर सिंह, रामवीर सिंह पुत्रगण फौरनसिंह फूल सिंह पुत्र मंगल सिंह निवासी ग्राम
				319	निजी	कृषि	0.146	श्रीमती त्रिवेणी पत्नी फौरनसिंह, फूरनसिंह पुत्र रामसिंह निवासी ग्राम विजेन्द्रसिंह पुत्र गोर्धनसिंह निवासी वमनपुरा मजरा पुरामना सकटुआ पुत्र हुबलाल, रामप्रकाश, देवेन्द्र, राजवीर पुत्रगण जगदीश, निवासी वमनपुरा, श्रीमती त्रिवेणी देवी पत्नी फूलसिंह, निवासी अश्वेदपुरा, किशनसिंह पुत्र युद्धा निवासी वमनपुरा द्वारिकाप्रसाद पुत्र सरवनलाल निवासी वमनपुरा बद्रीप्रसाद, लीलाधर, केदारनाथ पुत्रगण बाबूलाल अमित कुमार पुत्र, लाखनसिंह निवासी वमनपुरा
				324	निजी	कृषि	0.057	रनधीरसिंह, महेंद्रसिंह व राजेन्द्रसिंह पुत्रगण मनीराम उर्फ पदमसिंह मुं० अंतरकोरि देवा भगवानसिंह निवासी ग्राम
				329	निजी	कृषि	0.123	जगवीरसिंह धर्मचंदसिंह पुत्रगण हुकमसिंह, ओमप्रकाश पुत्रगण भेड़ निवासी रेपुरा जाट जिला मथुरा, रघुनाथ सिंह पुत्र गुलाबसिंह निवासी उन्धेरा तहसील किरावली, श्री चन्द्र वर्मा पुत्र बाबूलाल निवासी अलबतिया तहसील व जिला आगरा, भूदेवसिंह पुत्र रामजीलाल निवासी ग्राम, सूर्येदार शिवसिंह पुत्र रामसिंह निवासी अश्वेदपुरा हाल निवासी किरावली, व श्रीमती सरोज देवी पत्नी मोहनसिंह निवासी विधानगर नगला पदी आगरा
				333	निजी	कृषि	0.082	राजाराम, कन्हैया पुत्रगण भोलू, खेमा पुत्र तीर्था निवासी ग्राम, श्रीमती देवी पत्नी तोताराम निवासी पुरामना, भूपसिंह पुत्र धर्मसिंह निवासी बसेया जोतराम, श्रीमती सरोज देवी पत्नी मोहनसिंह निवासी विधानगर नगला पदी, आगरा, श्रीमती ललित कुमारी पत्नी रवीन्द्र कुमार निवासी पुरामना, हाल निवासी कखा किरावली
				334	निजी	कृषि	0.200	श्रीमती सरोजदेवी पत्नी मोहनसिंह निवासी विधानगर नगला पदी, आगरा, राजाराम, कन्हैया पुत्रगण भोलू, भूदेवसिंह पुत्र रामजीलाल निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				335	निजी	कृषि	0.094	रमेशचन्द्र, सुरेशचन्द्र, बलदेवसिंह, भूदेवसिंह पुत्रगण रामजीलाल महेशचन्द्र, गम्भीरसिंह, कमलसिंह पुत्रगण महावीरसिंह निवासी ग्राम
				247	निजी	कृषि/आबादी	0.011	ठाकुर जी रामचन्द्र जी महाराज एहतमाम ललितनारायण, उमाशंकर पुत्रगण ओमप्रकाश, अरविंद, अरूण, अखिल, राजीव, विवेक पुत्रगण भूदेव, रमेश कुमार पुत्र सीताराम निवासी ग्राम
				258	निजी	कृषि	0.034	ठाकुर जी रामचन्द्र जी महाराज एहतमाम ललितनारायण, उमाशंकर पुत्रगण ओमप्रकाश, अरविंद, अरूण, अखिल, राजीव व विवेक पुत्रगण भूदेव, रमेश कुमार पुत्र सीताराम निवासी ग्राम
				259	निजी	कृषि	0.017	श्री बाँकोबिहारी जी महाराज अहतमाम राजेन्द्र प्रसाद पुत्र गिर्राजकिशोर, कमलो पुत्र गिर्राजकिशोर निवासी किरावली
			8. विद्यापुर	134	निजी	योग कृषि	2.756 1.163	हरप्रसाद पुत्र नथीलाल, लता विधवा सुभाषचन्द्र, उमिलादेवी पत्नी जगन्नाथ, शीलादेवी पत्नी बच्चूसिंह, कमलेशकुमार पुत्र रामजीलाल, सुभाष दत्तकपुत्र बाबूलाल, रामजीलाल पुत्र ग्याप्रसाद, सुनीतादेवी पत्नी अनिल कुमार, गिस्तादेवी पत्नी केदारनाथ, हाजी रहीष, नर पुत्रगण चौद खों, उजेर पुत्र जहीद हुसेन हनीफ पुत्र कलुआ, समीर उर्फ गतीब खों पुत्र नत्थी, मुफ्तीजा बेगम पत्नी गबरू खों, अफसद पुत्र उसमान सफीक अहमद पुत्र मोती खों, साविर पुत्र शब्बीर, बल्लो पुत्र श्यामलाल, गबरू पुत्र मुन्ने खों, ताहिर हुसेन पुत्र मेहदी हुसेन रसीद उर्फ राजा पुत्र मब्बू, असलम पुत्र अलीम खों, जावेद उर्फ पन्ना पुत्र अली हुसेन, नईम बेग पुत्र वाकर राजा, मुहम्मद हाऊन पुत्र शब्बीर खों, रहीषा खातून पत्नी कमरूल हुसेन, नवागुदीन पुत्र विशगुदीन, लव कुमार नाबालिग उम्र 12 वर्ष पुत्र सुभाषचन्द्र सरक्षिका माता स्वयं निवासी किरावली, शिवराम पुत्र मोतीराम निवासी नगला ब्राह्मण मजरा डाबली, श्रीमती अनारदेवी पत्नी घनश्याम निवासी गल्लामंडी किरावली, रेनु पत्नी शिव कुमार निवासी किरावली, इन्द्रप्रभा पत्नी योगेश चन्द्र, धिरागुदीन, इसलाम, उसमान, पुत्रगण सामलिया जावेद उर्फ पन्ना पुत्र अली हुसेन निवासी किरावली
				137	निजी	कृषि	0.004	बनवारीलाल पुत्र रमेश चंद निवासी दुबे कॉलोनी किरावली, रफीकुल पुत्र मुशी, जब्बार अहमद, सुल्तान अहमद पुत्र अमरुदीन निवासी मोहल्ला शरवान किरावली
				138	निजी	कृषि	0.240	शिवसिंह पुत्र दुर्गा निवासी ग्राम
				139	निजी	कृषि	0.645	शहीद, फरीद, रसीद पुत्रगण मुन्नी अस्सो बेबा मुन्नी, महताप पुत्र नजर, पवनकुमार, संजयकुमार, अमितकुमार पुत्रगण लक्ष्मणप्रसाद निवासी किरावली, सीताराम पुत्र भगवानसिंह निवासी दहतोरा आगरा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				140	निजी	कृषि	0.080	बनवारीलाल पुत्र रमेश चंद निवासी दुबे कॉलोनी किरावली, रफीकुल पुत्र मुंशी, जब्बार अहमद, सुल्तान अहमद पुत्रगण अमरुद्दीन निवासी मौहल्ला शेवान किरावली
				129	निजी	कृषि	0.392	लेखनसिंह, घूरलाल, भूरीसिंह सुख्खीराम, ऐदलसिंह पुत्रगण घमन्डीसिंह निवासी अभैदापुरा लालाराम, ठन्डीराम, तोरनसिंह पुत्रगण रमजी उर्फ रामजीलाल निवासी अभैदापुरा
				144	निजी	कृषि	0.023	रेह
				145	निजी	कृषि	0.611	शहीद, शरीफ, रसीद, फरीद पुत्रगण मुन्ही, अस्तो पत्नी स्वर्गीय मुन्ही महताप पुत्र नजर निवासी किरावली
				146	निजी	कृषि	0.562	चरनसिंह पुत्र बलि निवासी भरंगपुर मजरा ग्राम भगवानदास पुत्र रामकिशन निवासी नगला भरंगपुर मजरा ग्राम अर्जुन, कीरीसिंह, यानसिंह पुत्रगण दुर्गसिंह निवासी ग्राम ओमप्रकाश, श्यामलाल, देवीसिंह, रतनलाल पुत्रगण सुख्खी कोमल, लक्ष्मण पुत्रगण भोला राम भूदेवी पत्नी स्वर्गीय भोला राम निवासी भरंगपुर मजरा ग्राम नरयनसिंह, रामकिशन पुत्रगण वेदरिया निवासी भरंगपुर मजरा ग्राम दीपचंद, धर्मा, भीमा, बहादुर पुत्रगण कन्हैया निवासी भरंगपुर मजरा ग्राम भगवानदास पुत्र रामकिशन निवासी नगला भरंगपुर मजरा ग्राम
				147	निजी	कृषि	0.561	शहीद, शरीफ, रसीद, फरीद पुत्रगण मुन्ही, अस्तो बेबा पत्नी स्वर्गीय मुन्ही महताप पुत्र नजर, रामस्वरूप पुत्र दुर्गलसिंह, श्रीमती रामेश्वरी पत्नी शंकरलाल, मोहनलाल अग्रवाल पुत्र छिदी अग्रवाल निवासी किरावली
				148	निजी	कृषि	0.115	अशोक कुमार पुत्र रामजीलाल निवासी 53/1A किशनगढ़ ईदगाह कॉलोनी, आगरा
				149	निजी	कृषि	0.032	चतुर्गुज पुत्र परसादीलाल निवासी ग्राम
				154	निजी	कृषि	0.196	अशोक कुमार पुत्र रामजीलाल निवासी 53/1A किशनगढ़ ईदगाह कॉलोनी, आगरा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				153	निजी	कृषि	0.060	रामबाबू, दीनदयाल पुत्रमाम समलाल ओमप्रकाश, प्रेमप्रकाश, गोरीशंकर राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण सरदारसिंह निवासी डाबली
				155	निजी	कृषि	0.096	रामबाबू, दीनदयाल पुत्रगण रामलाल ओमप्रकाश, प्रेमप्रकाश, गोरीशंकर राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण सरदारसिंह निवासी डाबली
				159	निजी	कृषि	0.480	रामबाबू, दीनदयाल पुत्रगण रामलाल ओमप्रकाश, प्रेमप्रकाश, गोरीशंकर राजेन्द्र प्रसाद पुत्रगण सरदारसिंह निवासी डाबली
				160	निजी	कृषि	0.173	चतुर्भुज पुत्र परसादीलाल निवासी ग्राम
				166	निजी	कृषि	0.240	श्रीमती प्रकाशवती पत्नी स्वर्गीय रमेशचन्द्र, मुकेश, राकेश, योगेश, नरेश पुत्रगण रमेशचन्द्र निवासी ग्राम, मधु अग्रवाल पत्नी विनोद अग्रवाल निवासी ए-55 शहीद नगर, आगरा ।
				167	निजी	कृषि	0.048	चतुर्भुज पुत्र परसादीलाल निवासी ग्राम
				171	निजी	कृषि	0.012	रामप्रकाशगोयल पुत्र मोतीलालगोयल निवासी 68 मकनचन्द प्लाट 104 बिहार महाराष्ट्र
				170	निजी	कृषि	0.013	विजेन्द्रसिंह पुत्र रामशरण निवासी ग्राम
				172	निजी	कृषि	0.004	रामप्रकाशगोयल पुत्र मोतीलालगोयल निवासी 68 मकनचन्द प्लाट 104 बिहार महाराष्ट्र
				169	निजी	कृषि	0.461	अनिलकुमार अग्रवाल पुत्र सुरेशचन्द्रअग्रवाल निवासी कमला नगर, आगरा रामनरेशगोयल पुत्र देवीचरणगोयल बिल्डर जामानी स्टेशन तहसील व जिला महाराष्ट्र
				179	निजी	कृषि	0.051	दुर्गाप्रसाद पुत्र पातीराम निवासी ग्राम
				180	निजी	कृषि	0.231	असतोष चौधरी पुत्र इन्द्रभानसिंह चौधरी निवासी स्टेशन रोड, दयालबाग आगरा, श्रीमती मुकेशकुमारी पत्नी मोरखज निवासी पुरामना
				181	निजी	कृषि	0.216	मौनीलाल अग्रवाल पुत्र शिवचरणलाल अग्रवाल निवासी कस्बा व तहसील किरावली व राहुल मितल पुत्र दीनदयाल मितल निवासी 37 ए / 119 सी मधुनगर आगरा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				186	निजी	कृषि	0.671	अमितकुमार पुत्र लाखनसिंह निवासी भवनपुरा मजरा पुरामना, मोहदीन, सदीक पुत्रगण छुट्टी निवासी किरावली, संजयकुमार, अजयकुमार पुत्रगण मोतीलाल निवासी 72 जयपुर हाउस आगरा अमितकुमार पुत्र लाखनसिंह निवासी भवनपुरा, मजरा पुरामना श्रीमती रामकटोरी पत्नी पन्नालाल निवासी सिकन्दरपुर, जितेन्द्रनाथ बाजपेयी पुत्र जगदीशनाथ बाजपेयी निवासी प्रोफेसर कॉलोनी 1/141-ए, देहली गेट आगरा, संजय कुमार, अजय कुमार, पुत्रगण मोतीलाल निवासी 72, जयपुर हाउस आगरा
				190	निजी	कृषि	0.184	बहीद पुत्र छुट्टी निवासी किरावली अमितकुमार पुत्र लाखनसिंह निवासी भवनपुरा मजरा पुरामना, श्रीमती रामकटोरी पत्नी, पन्नालाल निवासी सिकन्दरपुर, जितेन्द्रनाथ बाजपेयी पुत्र जगदीशनाथ बाजपेयी निवासी प्रोफेसर कॉलोनी 1/141A देहली गेट, आगरा अमितकुमार पुत्र लाखनसिंह निवासी भवनपुरा मजरा पुरामना, मोहदीन, सदीक, बहीद पुत्रगण छुट्टी निवासी किरावली,
				192	निजी	कृषि	0.300	बहीद पुत्र छुट्टी निवासी किरावली अमितकुमार पुत्र लाखनसिंह निवासी भवनपुरा मजरा पुरामना, श्रीमती रामकटोरी पत्नी, पन्नालाल निवासी सिकन्दरपुर, जितेन्द्रनाथ बाजपेयी पुत्र जगदीशनाथ बाजपेयी निवासी प्रोफेसर कॉलोनी 1/141A देहली गेट, आगरा
				191	निजी	कृषि	0.230	अमरसिंह पुत्र दुर्गा निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				189	निजी	कृषि	0.144	बहीद पुत्र छुट्टी निवासी किरावली अमितकुमार पुत्र लाखनसिंह निवासी भवनपुरा मजरा पुरामना, श्रीमती रामकटोरी पत्नी पन्नालाल निवासी सिकन्दरपुर, जितेन्द्रनाथ वाजपेयी पुत्र जगदीशनाथ वाजपेयी निवासी प्रोफेसर कॉलोनी 1/141A देहली गेट, आगरा
				193	निजी	कृषि	0.053	बहीद पुत्र छुट्टी निवासी किरावली अमितकुमार पुत्र लाखनसिंह निवासी भवनपुरा मजरा पुरामना, श्रीमती रामकटोरी पत्नी पन्नालाल निवासी सिकन्दरपुर, जितेन्द्रनाथ वाजपेयी पुत्र जगदीशनाथ वाजपेयी निवासी प्रोफेसर कॉलोनी 1/141A देहली गेट, आगरा
						योग	8.291	हेक्टेअर
			9. सिंगारपुर	330	निजी	कृषि	0.104	सुनीलकुमार व दीवानसिंह नाबालिग उम्र क्रमशः 16 व 14 वर्ष पुत्रगण तेजसिंह सरक्षिका मु० सूरजवती माँ निवासी ग्राम
				331	निजी	कृषि	0.563	श्यामलाल उर्फ वेदरिया पुत्र बुंदी निवासी ग्राम
				334	निजी	कृषि	0.222	शंकर पुत्र गगाराम निवासी ग्राम
				335	निजी	कृषि	0.178	जसवन्तसिंह पुत्र सोनीराम निवासी मलिकपुर
				339	निजी	कृषि	0.503	श्रीमती सोमती पत्नी सोरनसिंह श्रीमती पत्नी तेजसिंह निवासी ग्राम ननिगा पुत्र सुखदेव निवासी नगला तुर्सा खण्ड ग्राम रामबाबू, महेन्द्रसिंह, विजयसिंह, मोहनसिंह पुत्रगण पाती, धर्मपाल, चेत सिंह पुत्रगण सूखीराम निवासी नगला तुर्सा खण्ड ग्राम हरीसिंह व तेजसिंह पुत्रगण पत्नी अशोक-नाबालिग उम्र 9 वर्ष पुत्र पत्नी सरक्षिका मु० रामवती माँ व श्रीमती रामवती पत्नी पत्नी निवासी ग्राम
				340	निजी	कृषि	0.182	हरीसिंह व तेजसिंह पुत्रगण पत्नी अशोक नाबालिग उम्र 9 वर्ष पुत्र पत्नी सरक्षिका मु० रामवती माँ व श्रीमती रामवती पत्नी पत्नी निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				341	निजी	कृषि	0.168	शिवचरन, नवलसिंह, सोहनलाल व मुरारीलाल पुत्रगण गोपी निवासी ग्राम
				343	निजी	कृषि	0.048	करनसिंह पुत्र गोधनसिंह निवासी ग्राम
				344	निजी	कृषि	0.148	नरायनसिंह, सौनीराम, मानसिंह, छतरसिंह, रामकिशन, बनवारी, दीवानसिंह पुत्रगण पूरन झु0 बुद्धन देवी विधवा पूरन निवासी ग्राम
				347	निजी	कृषि	1.066	मोहनसिंह पुत्र लालाराम, खेमराज पुत्र निनुआ निवासी ग्राम
						योग	3.182	हेक्टैअर
			10. कोरई	585	निजी	कृषि	0.740	जलसिंह, लोकमन पुत्र ओमप्रकाश, मनोज कुमार, भमरसिंह, रामकिशोर पुत्रगण गोपी श्रीमती अगूरी, पत्नी गोपी रामजी लाल, तौरन, अमरसिंह पुत्रगण कल्याणसिंह निवासी नगला उमराव खण्ड ग्राम अचल सिंह, गुलाब सिंह पुत्रगण हरीचन्द निवासी ग्राम साहकारी सैध समिति, किरावली रामस्वरूप पुत्र हन्डू निवासी खेडा खण्ड ग्राम चन्द्रवती पत्नी कन्हैया निवासी ग्राम रघुवीर पुत्र शोभाशाम न0 लोधा उपग्राम
				584	निजी	कृषि	0.004	मोहनसिंह, नत्थीलाल, राममरोसी उपनाम टुण्डा पुत्रगण नत्थी उपनाम छीतरिया निवासी ग्राम ओमप्रकाश, लक्ष्मीनारायण पुत्रगण रैपूराम निवासी ग्राम
				579	निजी	कृषि	0.185	मोहनसिंह, नत्थीलाल, राममरोसी उपनाम टुण्डा पुत्रगण नत्थी उपनाम छीतरिया निवासी ग्राम
				578	निजी	कृषि	0.644	मोहनसिंह, नत्थीलाल, राममरोसी उपनाम टुण्डा पुत्रगण नत्थी उपनाम छीतरिया निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								लक्ष्मीनारायण पुत्र रैपूराम निवासी ग्राम, प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र राममूर्तिलाल गुप्ता निवासी मंडूगेट, हाथरस, श्रीकृष्ण कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय सूरज प्रसाद गुप्ता निवासी बी-5 कमलानगर आगरा, राजकुमार अग्रवाल पुत्र करोडीलाल अग्रवाल निवासी चामड गेट, हाथरस
				577	निजी	कृषि	0.318	लक्ष्मीनारायण पुत्र रैपूराम निवासी ग्राम, प्रमोद कुमार गुप्ता पुत्र राममूर्तिलाल गुप्ता निवासी मंडूगेट, हाथरस, श्रीकृष्ण कुमार गुप्ता पुत्र स्वर्गीय सूरज प्रसाद गुप्ता निवासी बी-5 कमलानगर आगरा, राजकुमार अग्रवाल पुत्र करोडीलाल अग्रवाल निवासी चामड गेट, हाथरस
				572	निजी	कृषि	0.357	श्रीमती विम्बोदेवी पत्नी जीवतराम निवासी 46 जयपुर हाउस, आगरा
				573	निजी	कृषि	0.080	आजाद ग्रामीण सहकारी आवास समिति द्वारा सचिव मकसूद हुसैन पुत्र गुलाम हुसैन निवासी 76, साकेत कॉलोनी शाहगंज आगरा
								श्रीमती विम्बोदेवी पत्नी जीवतराम निवासी 46 जयपुर हाउस, आगरा
				571	निजी	कृषि	0.518	विनय नगर सहकारी गृह निर्माण समिति आगरा द्वारा अध्यक्ष दिनेश कुमार सक्सेना पुत्र मदन लाल सक्सेना निवासी 15/139 सोरो कटरा शाहगंज आगरा
								आजाद ग्रामीण सहकारी समिति द्वारा सचिव मकसूद हुसैन पुत्र गुलाम हुसैन निवासी 76, साकेत कॉलोनी शाहगंज आगरा
				566	निजी	कृषि	0.088	राममरोसी पुत्र शिवलाल निवासी ग्राम
								राममरोसी पुत्र शिवलाल, बाबूलाल, सुन्दर पुत्रगण सप्ततिया निवासी ग्राम
				565	निजी	कृषि	0.300	किरणदेवी पत्नी रोशन लाल बंसल निवासी किरावली
				564	निजी	कृषि	0.726	अतरसिंह, पुत्र विशम्बर सिंह निवासी मालोनी तहसील रूपवास जिला धौलपुर मुन्नी बेगम पत्नी कल्लू खाँ निवासी सीकरी 2 हिस्सा
				563	निजी	कृषि	0.249	बाबूलाल पुत्र गोविन्द प्रसाद निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				562	निजी	कृषि	0.012	पवन कुमार पुत्र श्री निवास ताराचन्द्र पुत्र राममरोसी बाबूलाल पुत्र गोविन्द प्रसाद निवासी ग्राम
				560	निजी	कृषि	0.051	सन्तोष कुमार पुत्र फूलसिंह श्रीमती मधु विधवा वारिस पत्नी रूपेन्द्र कुमार, श्रीमती रामदुलारी विधवा वारिस पत्नी फूलसिंह निवासी ग्राम
				553	निजी	आबादी	0.192	सन्तोष कुमार पुत्र फूलसिंह श्रीमती मधु विधवा वारिस पत्नी रूपेन्द्र कुमार, श्रीमती रामदुलारी विधवा वारिस पत्नी फूलसिंह निवासी ग्राम
				552	ग्राम सभा	हरिजन आबादी	0.123	हरिजन आबादी हेतु सुरक्षित (नवीन आबादी), पट्टेदार
				548	निजी	आबादी/कृषि	0.040	ओमप्रकाश, लक्ष्मीनारायण पुत्रगण रैपूराम, जगन्नाथ प्रसाद, रघुवीरप्रसाद पुत्रगण गिर्राजसिंह निवासी ग्राम
				540	निजी	कृषि	0.480	विवेक सिंह, सन्दीपसिंह पुत्रगण धमेन्द्रसिंह सारदादेवी पत्नी जितेन्द्रसिंह, निवासी ग्राम, सत्य प्रकाश पुत्र दुर्गा प्रसाद निवासी साँथा
				536	निजी	कृषि	0.218	नरेन्द्र सिंह, रूपेन्द्रसिंह, मोरखज पुत्रगण शिशुपाल सिंह मु० भगवान देवी पत्नी स्वर्गीय शिशुपालसिंह, नेत्रपालसिंह राजेन्द्रसिंह, रामेन्द्रसिंह, कृष्णदत्त दुध्यालसिंह, राजकुमार सिंह पुत्रगण फतेहसिंह निवासी ग्राम
				538	निजी	कृषि	0.029	रामप्रकाश पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी ग्राम
				537	निजी	मन्दिर	0.029	रामप्रकाश पुत्र रघुनाथ सिंह निवासी ग्राम
				523	निजी	आबादी/कृषि	0.455	शशीकान्त, उमाकान्त पुत्रगण स्वर्गीय नानिगा निवासी नगला कोरई खण्ड ग्राम निरंजन सिंह पुत्र राधेश्याम निवासी हसेला, लाखन सिंह पुत्र शिवराम निवासी जाजऊ
				524	निजी	कृषि	0.006	लवकुश पुत्र गंगाप्रसाद निवासी ग्राम
				522	निजी	कृषि	0.196	गोपाली पुत्र निनुआ निवासी खेडा खण्ड ग्राम
				519	निजी	कृषि	0.035	लाखनसिंह पुत्र शिवसिंह निवासी जाजऊ हाल निवासी ग्राम
				518	निजी	कृषि	0.104	लाखनसिंह पुत्र शिवसिंह निवासी जाजऊ हाल निवासी ग्राम
				516	निजी	कृषि	0.144	रोशनलाल, रामेश्वर, सजू पुत्रगण पीतमसिंह मु० भगवान देवी पत्नी पीतमसिंह निवासी ग्राम लालसिंह पुत्र पीतमसिंह, उदयसिंह पुत्र वेदसिंह निवासी साँथा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				513	निजी	कृषि	0.081	प्रदीप कुमार पुत्र स्वर्गीय मुरलीधर निवासी, 5ए-6ए-1, बोदला रोड, आगरा
				514	निजी	कृषि	0.083	प्रदीप कुमार पुत्र स्वर्गीय मुरलीधर निवासी, 5ए-6ए-1, बोदला रोड, आगरा
				511	निजी	कृषि	0.029	राजीव कुमार चौहान पुत्र रामवरनसिंह निवासी 6/6 बी, शास्त्री नगर, खन्दारी रोड, आगरा
				510	निजी	कृषि	0.198	राम प्रकाश पुत्र बनवारी निवासी खेड़ा खण्ड ग्राम, राजीव कुमार चौहान पुत्र रामवरनसिंह निवासी 6/6 बी, शास्त्री नगर खन्दारी रोड, आगरा
				509	निजी	कृषि	0.233	राम प्रकाश पुत्र बनवारी निवासी खेड़ा खण्ड ग्राम राजीव कुमार चौहान पुत्र रामवरनसिंह निवासी 6/6 बी, शास्त्री नगर खन्दारी रोड, आगरा
				508	निजी	कृषि	0.032	राम प्रकाश पुत्र बनवारी निवासी खेड़ा खण्ड ग्राम राजीव कुमार चौहान पुत्र रामवरनसिंह निवासी 6/6 बी, शास्त्री नगर खन्दारी रोड, आगरा
				507	निजी	कृषि	0.498	रामप्रकाश शुक्ला पुत्र मुन्नीराम निवासी खेड़ा खण्ड ग्राम रामफूल पुत्र जमुनी निवासी खेड़ा खण्ड ग्राम देवेन्द्र, रमेश चन्द्र पुत्रगण शिवलाल, सुरेशचन्द्र, महेश चन्द्र पुत्रगण नन्दलाल निवासी खेड़ा खण्ड ग्राम
				506	निजी	कृषि	0.064	ऊदल, हरिओम पुत्रगण बुल्लाराम निवासी खेड़ा खण्ड ग्राम
				501	निजी	कृषि	0.032	प्रमोद कुमार अग्रवाल पुत्र राधावल्लभ निवासी ए-1 न्यू आगरा
				499	निजी	कृषि	0.314	श्रीमती रामवती देवी पत्नी नित्यकिशोर पुत्री मानसिंह निवासी खेड़ा खण्ड ग्राम, प्रमोद कुमार अग्रवाल पुत्र राधावल्लभ निवासी ए-1 न्यू आगरा
				497	निजी	कृषि	0.181	मन्दीलाल पुत्र सोभास, रामकिशन, पुत्र तुलसीराम, निवासिंह पुत्र दाताराम, रामप्रकाश पुत्र मुन्नी, जवाहरलाल, निरोत्तम व मोतीराम पुत्रगण देवीराम निवासी खेड़ा खण्ड ग्राम
				496	निजी	कृषि	0.104	श्रीमती रामवती देवी पत्नी नित्यकिशोर पुत्री मानसिंह निवासी खेड़ा खण्ड ग्राम
				495	निजी	कृषि	0.288	मुस्लिम पुत्र शकूर निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				494	निजी	कृषि	0.200	नित्य किशोर पुत्र सुन्दर लाल निवासी खेड़ा खण्ड ग्राम
				492	निजी	कृषि	0.015	गौरीशंकर, रामप्रकाश, सत्यप्रकाश पुत्रगण बहोरन- लाल, बृजलाल पुत्र वस्तीराम, मेडूराम पुत्र ज्वाला प्रसाद निवासी खेड़ा खण्ड ग्राम
								श्री ठाकुरजी सालिगराम जी महाराज विराजमान मन्दिर खेड़ा खण्ड ग्राम अहत्तमाम श्याम लाल पुत्र नत्थीलाल निवासी ग्राम
				449	निजी	कृषि	0.185	बुल्लाराम पुत्र दोलतराम निवासी खेड़ा खण्ड ग्राम
				451	निजी	कृषि	0.432	विवेक सिंह, सन्दीपसिंह उर्फ छोटू पुत्रगण धमेन्द्र सिंह निवासी ग्राम
				472	निजी	कृषि	0.461	श्यामबाबू, रामबाबू पुत्रगण रामसरन अविलास, नीरज पुत्रगण रमेशचन्द निवासी ग्राम
				452/1	निजी	कृषि	0.391	बुल्लाराम पुत्र दोलतराम निवासी खेड़ा खण्ड ग्राम
				581	निजी	कृषि	0.005	सहकारी सैध समिति, किरावली
				473	निजी	कृषि	0.008	धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्यामबाबू निवासी ग्राम
				474	निजी	कृषि	0.276	अनेक सिंह पुत्र भगवान सिंह निवासी सौथा
				475	निजी	कृषि	0.207	श्यामबाबू, रामबाबू पुत्रगण रामसरन, अविलास, नीरज पुत्रगण रमेशचन्द निवासी ग्राम
				477	निजी	कृषि	0.048	धर्मेन्द्र सिंह, प्रवेन्द्र सिंह पुत्रगण श्याम बाबू निवासी ग्राम
				479	निजी	कृषि	0.198	धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्यामबाबू निवासी ग्राम
								रमेश चन्द्र, पुत्र नत्थी श्रीमती रामवेदी पत्नी रमेश निवासी ग्राम
				480	निजी	कृषि	0.186	धर्मेन्द्र सिंह पुत्र श्यामबाबू निवासी ग्राम
				482	निजी	कृषि	0.529	विवेक सिंह, सन्दीप सिंह उर्फ छोटू पुत्रगण धर्मेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सन्तोष पुत्र मदनलाल निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				567	निजी	कृषि	0.128	योगेन्द्र कुमार, मुकेश कुमार पुत्रगण जगदीश प्रसाद व अमित, सुमित नाबालिग उम्र क्रमशः 15 व 12 वर्ष संरक्षिका श्रीमती सुधा माता स्वयं पुत्रगण अशोक कुमार व श्रीमती सुधा पत्नी अशोक कुमार
				251	निजी	कृषि/आबादी	0.055	श्रीमती रतनकुमार उपनाम गोमती विधवा कारिस नत्थासिंह निवासी ग्राम
				254	निजी	कृषि	0.046	विनोद पुत्र मथुरा निवासी मलिकपुर देवीप्रसाद, मुरारी लाल, विनोद कुमार पुत्रगण मथुरा प्रसाद निवासी मलिकपुर
				258	निजी	कृषि	0.081	विनोद पुत्र मथुरा निवासी मलिकपुर देवीप्रसाद, मुरारी लाल, विनोद कुमार पुत्रगण मथुरा प्रसाद निवासी मलिकपुर
				260	निजी	कृषि	0.016	विनोद पुत्र मथुरा निवासी मलिकपुर रथामबाबू, रामबाबू पुत्रगण रामसरन, अविनास, नीरज पुत्रगण रमेशचन्द्र निवासी ग्राम
				503	निजी	कृषि	0.340	नत्थीलाल पुत्र शोभाराम, रामकिशन, पुत्र तुलसीराम, निहालसिंह पुत्र दाताराम, रामप्रकाश पुत्र मुनो, जवाहरलाल, निरंजन, मोतीराम पुत्रगण देवीराम निवासी खेडा खण्ड ग्राम
				253	निजी	कृषि	0.067	विजयसिंह पुत्र मानसिंह निवासी नगला गूजरा मजरा मिठाकुर तहसील आगरा, मनोज कुमार पुत्र जनकसिंह निवासी सौधा, रतन कुमार उपनाम गोमती विधवा कारिस नत्थासिंह, जगदीश सिंह दत्तक पुत्र नारायण सिंह, नरेन्द्रसिंह, रूपेन्द्र सिंह, मोरखज पुत्रगण शिशुपाल सिंह मु 0 भगवान देई पत्नी शिशुपाल सिंह, नेत्रपालसिंह, राजेन्द्र सिंह, रामेन्द्र सिंह, कृष्ण दत्त, दुष्यन्त सिंह, राजकुमार सिंह पुत्रगण फतेह सिंह निवासी ग्राम
						योग	12.334	हक्तेजर
			11. भड़कोल	343	निजी	कृषि	0.320	गंगा देवी पत्नी, कुवर सिंह, कुवर सिंह पुत्र नारायण सिंह, राजेन्द्र सिंह, कपूर सिंह पुत्रगण नथोलाराम निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				345	निजी	कृषि	0.320	नरेन्द्र कुमार पुत्र हरनारायनसिंह निवासी ग्राम
								मुकेश वर्मा पुत्र हरनारायनसिंह निवासी ग्राम
								कमल चौधरी पुत्र हर नारायन सिंह निवासी ग्राम
				366	निजी	कृषि	0.160	बीरीसिंह पुत्र गुडीराम निवासी ग्राममुतबलियान कस्बा फतेहपुर सीकरी
				367	निजी	कृषि	0.173	बीरीसिंह पुत्र गुडीराम निवासी ग्राम मुतबलियान कस्बा फतेहपुर सीकरी
				368	निजी	कृषि	0.173	नारायण पुत्र रूपचन्द्र निवासी ग्राम
				365	निजी	कृषि	0.115	राजपाल पुत्र विशम्भरनाथ संजयराज, कृष्णराज पुत्रगण अशोक कुमार व मु० विशनदेई पत्नी स्वर्गीय अशोक कुमार निवासी फतेहपुर सीकरी, सौदान सिंह पुत्र महाराज सिंह निवासी भड़कौल
				363	निजी	कृषि	0.088	ईश्वरी, नेमीचन्द्र पुत्रगण भगवान सिंह, चन्दन सिंह पुत्र ठकुरी, नारायण सिंह, देवीचरण पुत्रगण रामखिलाड़ी निवासी कछपुरा मजरा ग्राम
				370	निजी	कृषि	0.086	ईश्वरी, नेमीचन्द्र पुत्रगण भगवान सिंह, चन्दन सिंह पुत्र ठकुरी नारायण सिंह, देवीचरण पुत्रगण रामखिलाड़ी निवासी कछपुरा मजरा ग्राम
				371	निजी	कृषि	0.146	भीमसैन पुत्र मनहोता, मूलचन्द, खिल्लीसिंह पुत्रगण हेमराज निवासी ग्राम कछपुरा मजराग्राम
				369	निजी	कृषि	0.553	संजयराज, कृष्णराज पुत्रगण अशोक कुमार व मु० विशनदेई पत्नी स्वर्गीय अशोक कुमार, राजमल पुत्र विशम्भरनाथ निवासी मुतबलियान कस्बा फतेहपुर सीकरी
				380	निजी	कृषि	0.656	तेजेंद्रपाल सिंह पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम, पुष्पेन्द्रसिंह सोलकी पुत्र रघुपतिसिंह निवासी गोपालगढ़, भरतपुर श्रीमती कमलेश पत्नी राजपालसिंह व श्रीमती सुनीता पत्नी रामपाल सिंह निवासी कछपुरा मोजा भड़कौल
								यशेन्द्रपाल सिंह पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								हरेन्द्रपालसिंह पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम, पुष्पेन्द्र सिंह सोलंकी पुत्र रघुपति सिंह निवासी गोपालगढ़ भरतपुर, श्रीमती बीना छोंकर पत्नी सुवीर छोंकर निवासी कटरा भरतपुर राजस्थान
								हीरेन्द्रपालसिंह पुत्र बाबूलाल निवासी ग्राम नौनिहाल सिंह पुत्र प्यारलाल, रंजीत सिंह पुत्र गोकुल सिंह निवासी टीवर्स कॉलोनी फतेहपुर सीकरी गिरधारीलाल पुत्र निरंजनलाल, विष्णु कुमार पुत्र सूरजमान निवासी फतेहपुर सीकरी
				531	निजी	कृषि	0.291	जसवन्त सिंह पुत्र तुरसीराम निवासी भड़कोल, गोर्धन सिंह पुत्र परसादी निवासी जाजऊ तहसील किरावली, विजय कुमार पुत्र छीतरियालाल निवासी स्टेशन रोड फतेहपुर सीकरी, सुबोध कुमार पुत्र बुद्धाराम निवासी अरहरा तहसील किरावली, सीताराम पुत्र डूंगरसिंह नवल सिंह पुत्र किशनसिंह निवासी उन्देरा तहसील किरावली, माधवसिंह पुत्र अमरसिंह निवासी चौमा शाहपुर तहसील किरावली, पीतमसिंह, लुभीत कुमार, रोशन, भूरीसिंह पुत्रगण दयाराम निवासी कछपुरा, मौजा भड़कोल ओमप्रकाश, मानसिंह, दीपचन्द, वीरेन्द्र, मुनेश कुमार नाबालिग उम्र 16 साल संरक्षक व बली पिता गिरिजसिंह, पीतमसिंह पुत्र थाना, मु० गोमा वेवा थाना श्रीमती सफेदी पत्नी होरीलाल निवासी कछपुरा, मौजा भड़कोल किरावली, खिलेन्द्र (मूक बधिर) पुत्र किशनसिंह, सुरेन्द्रसिंह, रवेन्द्रसिंह, इन्द्रजीतसिंह, ऐसेन्द्रकुमार पुत्रगण श्री महेन्द्रसिंह निवासी भड़कोल तहसील किरावली, ललता पत्नी माधवसिंह निवासी फतेहपुर सीकरी, नवाबसिंह पुत्र शिवधरण निवासी गढ़मुख्या तहसील खेड़ागढ़
				533	निजी	कृषि	0.127	खिलेन्द्र (मूक व बधिर) पुत्र किशनसिंह ईश्वरी प्रसाद, नैमीचन्द्र पुत्रगण भगवान सिंह निवासी कछपुरा मजरा ग्राम, इकबाल हुसैन, जाकिर हुसैन, अनवर खॉ पुत्रगण फरमान हुसैन निवासी फतेहपुर सीकरी भारती गली
				529	निजी	कृषि	0.274	पुष्पेन्द्रसिंह इमरेन्द्रसिंह पुत्रगण सरनाम सिंह जयपाल सिंह, जगवीर सिंह नाबालिग उम्र क्रमशः 16 व 10 साल पुत्रगण सरनाम सिंह संरक्षक पिता स्वयं सरनामसिंह पुत्र तेजपालसिंह निवासी ग्राम, ईश्वरी, नैमीचन्द्र पुत्रगण भगवानसिंह, चन्दनसिंह पुत्र ठकुरी, मूलचन्द्र, खिल्लिसिंह पुत्रगण हेमराज निवासी कछपुरा मजरा ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				364	निजी	कृषि	0.077	संजयराज, कृष्णराज पुत्रगण अशोक कुमार व विशनदेई पत्नी स्वर्गीय अशोक कुमार, राजमल अग्रवाल पुत्रगण विशम्भरनाथ निवासी मोहल्ला मुतबलियान कस्बा फतेहपुर सीकरी
				532	निजी	कृषि	0.104	जसवन्तसिंह पुत्र तुरसी निवासी ग्राम
						योग	3.663	हेक्टयर
			12. मण्डीगुड	564	निजी	कृषि	0.259	बनवारी लाल, गंगा प्रसाद बालिग राजवीर सिंह नाबालिग उम्र 14 वर्ष पुत्रगण हुकम सिंह सरंक्षिका श्रीमती कंचन देवी माँ स्वयं, कंचन देवी पत्नी स्वर्गीय हुकम सिंह, अमर सिंह, दुर्ग सिंह पुत्रगण सूखी उर्फ सुक्खी निवासी ग्राम
				563	निजी	कृषि	0.148	अमर सिंह पुत्र सूखीराम दुर्ग सिंह पुत्र सूखेराम निवासी ग्राम
				562	निजी	कृषि	0.222	बनवारी लाल, गंगा प्रसाद बालिग राजवीर सिंह नाबालिग उम्र 14 वर्ष पुत्रगण हुकम सिंह सरंक्षिका श्रीमती कंचन देवी माँ स्वयं, कंचन देवी पत्नी स्वर्गीय हुकम सिंह निवासी ग्राम
				557	निजी	आबादी	0.218	श्रीमती सुषमा पत्नी पुरुषोत्तम दास निवासी गती हाफ जान फतेहपुर सीकरी
				556	निजी	आबादी	0.046	श्रीमती ममता पत्नी सुभाष चन्द, श्रीमती निशा पत्नी सुरेश चन्द निवासी M. G. रोड सुभाष पार्क आगरा
				555	निजी	कृषि	0.178	निहालसिंह पुत्र तेजा, घूरे पुत्र कलुआ निवासी ग्राम कुशल सिंह, उज्जवल सिंह, पुत्रगण सबल सिंह निवासी उन्देरा, जगदीशसिंह, रघुवीरसिंह पुत्रगण शिवलाल निवासी ग्राम
				552	निजी	कृषि	0.067	राजीव पुत्र ओमप्रकाश निवासी ग्राम
				553	निजी	कृषि	0.040	प्रणवीरसिंह, रामवीरसिंह पुत्रगण जगदीशप्रसाद श्रीमती हरदेवी बेबा वारिस पत्नी रामबाबू, सुशीलकुमार, गिरीशकुमार, प्रमोदकुमार पुत्रगण रामबाबू निवासी ग्राम
				551	निजी	कृषि	0.370	श्रीमती अनीता पत्नी अशोक खेतसपाल निवासी 16 गोपाल कुंज बाईपास रोड, आगरा, पूतम पत्नी राविन निवासी सिद्धार्थ कॉम्प्लेक्स आगरा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				546	निजी	कृषि / आबादी	0.275	राजेश अग्रवाल, गोविन्द अग्रवाल पुत्रगण मुरारीलाल निवासी काजी गली फतेहपुर सीकरी, जमींदारसिंह पृथ्वीराज, लक्ष्मनसिंह, पुत्रगण दीपा निवासी ग्राम, राजकुमार पुत्र दीवानसिंह निवासी सीकरी
				547	निजी	कृषि	0.166	श्रीठाकुर सालिगराम जी महाराज अहत्तमाम शम्भूनाथ पुत्र श्रीनाथ निवासी ग्राम सुबील कुमार, गिरीश कुमार, प्रमोद कुमार पुत्रगण रामबाबू निवासी मौहल्ला संतपाड़ा, मथुरा
				548	निजी	अकृषक	0.133	गिराजसिंह पुत्र छतरसिंह, निरंजन पुत्र जोरावर निवासी भडकोल, चन्द्रसिंह, हुकमसिंह, विजेन्द्रसिंह, यादवसिंह पुत्रगण कमलसिंह कलावती बेबा कमलसिंह निवासी सूरौली राजस्थान
				134	निजी	आबादी	0.154	बहादुरसिंह पुत्र मान सिंह निवासी ग्राम
				133	निजी	कृषि	0.206	जगदीशसिंह रघुवीरसिंह पुत्रगण शिवलाल निवासी ग्राम
				132	निजी	आबादी	0.100	श्रीमती ललिता देवी पत्नी वीरी सिंह निवासी जाजऊ फौरनसिंह पुत्र रामशरण निवासी ग्राम
				127	निजी	आबादी	0.172	रवीन्द्र सिंह पुत्र वीरी सिंह निवासी मौ. मुत बलियान फतेहपुर सीकरी
				125	निजी	कृषि	0.023	मिहीलाल पुत्र शोभाराम निवासी सीकरी दो हिस्सा
				126	निजी	आबादी	0.854	महेश चन्द पुत्र भगवत प्रसाद, राजीव कुमार पुत्र महेशचन्द राजकुमार पुत्र दाऊदयाल निवासी फतेहपुर सीकरी
				93	निजी	कृषि	0.008	महेश चन्द पुत्र भगवत प्रसाद, राजीव कुमार पुत्र महेशचन्द राजकुमार पुत्र दाऊदयाल निवासी फतेहपुर सीकरी
				123	निजी	आबादी	0.182	गुल्ला, हन्डू पुत्रगण छिदा, बाबूलाल पुत्र पौचिया अध्यक्ष पथर ट्रक ट्रान्सपोर्ट ट्रक एसोसियेशन बोर्ड फतेहपुर सीकरी निवासी गोरपाड़ा फतेहपुर सीकरी
				118	निजी	कृषि	0.008	गुल्ला, हन्डू पुत्रगण छिदा निवासी ग्राम
				115	निजी	आबादी	0.140	केदारनाथ पुत्र तूहीराम, श्रीमती सामन्ती पत्नी नथी निवासी ग्राम, कोमलसिंह, सुरेशसिंह उर्फ बनिया, शंकरलाल पुत्रगण बाबूराम, श्रीमती प्रेमवती पत्नी स्वर्गीय बाबूराम निवासी चोराहा गुड की मण्डी
				114	निजी	कृषि	0.152	मु0 असफौ बेबा सुखी निवासी ग्राम श्रीमती शीला देवी पत्नी रमेशचन्द, निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				45/1	निजी	कृषि	0.208	भगवत प्रसाद, दाऊदयाल पुत्रगण बदीप्रसाद, मुकेश कुमार पुत्र नत्थीलाल, बृजकिशोर पुत्र किशन लाल, मुरारी लाल पुत्र रोशनलाल, सुनील कुमार पुत्र रामकिशन निवासी फतेहपुर सीकरी मानिकचन्द, खेम चन्द पुत्रगण द्वारिका प्रसाद निवासी जाजऊ विजय कुमार पुत्र रामचरन लाल बृज मोहन पुत्र विपती राम, अशोक कुमार पुत्र गोविन्द राम निवासी मुख्य बाजार फतेहपुर सीकरी
				37/1	निजी	आबादी	0.060	गुपाल, सल्लो व रमेश पुत्रगण भोलेराम, वीरी पुत्र मटोली निवासी सीकरी दो हिस्सा
				36	निजी	आबादी	0.128	रामदास पुत्र वस्तीराम, सरनलाल पुत्र द्वारिका प्रसाद, ओमप्रकाश पुत्र मूलचन्द, शिवशंकर, मनीष कुमार पुत्रगण विजय कुमार निवासी फतेहपुर सीकरी
				33	निजी	आबादी	0.029	रघुनाथ पुत्र महरचन्द निवासी सीकरी दो हिस्सा
				34	निजी	आबादी	0.018	बनवारी लाल, देवप्रकाश पुत्रगण अगूरी श्रीमती भवानी पुत्री स्वर्गीय अगूरी दौजी, देवका, सुन्दर, रामकिशन पुत्रगण दुन्डा निवासी सीकरी दो हिस्सा
				35	निजी	आबादी	0.029	रघुनाथ पुत्र महरचन्द निवासी सीकरी दो हिस्सा
				25	निजी	कृषि/आबादी	0.521	धनश्याम शर्मा, पुत्र खूबचन्द, गोविन्द प्रसाद पुत्र मांगेलाल निवासी वार्डपास रोड, फतेहपुर सीकरी
				7	निजी	आबादी	0.092	देवका, शिवचरन, भोपाली पुत्रगण द्वारसी, चन्दन, पप्पू, गीतम पुत्रगण सुखराम, पूरनसिंह, प्रेमसिंह पुत्रगण परमोली भगो बैबा परमोली ससुआ, मुन्नीलाल, हनुमानसिंह, बनिया, होतीलाल, लाखनसिंह पुत्रगण बौला अगूरीदेवी पत्नी स्वर्गीय बौला निवासी सीकरी दो हिस्सा
				6	निजी	आबादी	0.298	राजेश कुमार, जीवन कुमार पुत्रगण विजेन्द्र प्रसाद, अमित कुमार पुत्र अजीत कुमार, सुमन बैबा अजीत कुमार निवासी ग्राम
				131	निजी	कृषि	0.048	जगदीशसिंह, रघुवीरसिंह पुत्रगण शिवलाल निवासी ग्राम
				140	निजी	कृषि	0.223	पवन नाबालिग उम्र 16 वर्ष पुत्र सूरजमान सरक्षिका श्रीमती विज्जो मौं, जयप्रकाश, संजयकुमार पुत्रगण मिह्मनलाल निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								अशोक, मुकेश, राजाबाबू, दशरथ, बबलू, राजेन्द्र पुत्रगण मोगी निवासी ग्राम
								ब्रह्मलाल पुत्र वेदरिया निवासी ग्राम
								रामसिंह पुत्र भवानी निवासी उन्देरा हाल निवासी मंडी गुड़ तहसील किरावली
				141	निजी	कृषि	0.023	वीधा पुत्र सुनका निवासी ग्राम
				143	निजी	आबादी / कृषि	0.210	हरी सिंह पुत्र हीरा लाल निवासी सीकरी दो हिस्सा
				144	निजी	आबादी	0.173	लोकन सिंह नाबालिग 13 वर्ष, नवल किशोर नाबालिग उम्र 11 वर्ष, राजेश कुमार नाबालिग उम्र 10 वर्ष वृजेश कुमार नाबालिग उम्र 6 वर्ष पुत्रगण हुकमसिंह संरक्षिका चन्द्रवती मों निवासी ग्राम
				145	निजी	आबादी	0.170	बदनसिंह पुत्र बीरबल निवासी जाजऊ, मुरारी लाल पुत्र दाताराम निवासी फतेहपुर सीकरी
				148	निजी	आबादी	0.360	मवासी पुत्र रामप्रसाद निवासी सीकरी दो हिस्सा, श्याम सुन्दर, राकेश कुमार पुत्रगण दाऊदयाल निवासी मुख्य बाजार फतेहपुर सीकरी
				151	निजी	आबादी	0.029	रमाकान्त, उमाकान्त, नरेश कुमार व यादवेन्द्र पुत्रगण महावीर निवासी सीकरी दो हिस्सा
				157	निजी	आबादी	0.120	कैलाशचन्द, हीरालाल पुत्रगण बाबूलाल, श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी देवीप्रसाद, मोहनसिंह, प्रेमलाल पुत्रगण नत्थी, हीरालाल पुत्र बुद्धा श्रीमती चमेली पत्नी बुद्धा निवासी दोलताबाद
								मु० हुसैन पुत्र हाजी विलायत हुसैन निवासी 22/29, काजी गली, छत्ता बाजार, आगरा
				158	निजी	आबादी	0.124	मु० हुसैन पुत्र हाजी विलायत हुसैन निवासी 22/29, काजी गली, छत्ता बाजार अमरस, उवलसिंह पुत्र निर्मल सिंह पत्नी किसानबी
				161	निजी	आबादी	0.064	राजेश कुमार, जीवन कुमार पुत्रगण विजेन्द्र प्रसाद, अमित कुमार पुत्र अजीत कुमार, सुमन बैबा अजीत कुमार निवासी ग्राम
				94	निजी	गर्ल्स इंटर कॉलेज	0.032	वनखन्डी महादेव गर्ल्स कॉलेज प्रबन्ध समिति
				130	निजी	कृषि	0.048	जगदीश सिंह, रघुवीरसिंह पुत्रगण शिवलाल निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				9	निजी	कृषि/आबादी	0.287	वाजिद अली शाह पुत्र जुम्मा, मुहम्मद शरीफ, मोहम्मद असलम, अशरफ अली, मोहम्मद अली, आजाद खॉ पुत्रगण खलील खॉ, रमेशचन्द पुत्र मनोहर लाल श्रीमती हेमलता पत्नी रमेशचन्द निवासी किरावली, शिवप्रसाद पुत्र रामप्रसाद निवासी मन्डी मिर्जा खॉ प्रमोद कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार, लाखनसिंह पुत्र विशम्बर निवासी सीकरी चार हिस्सा व लक्ष्मन प्रसाद पुत्र कन्हैया लाल निवासी जाजऊ
				23	निजी	कृषि	0.102	वाजिद अली शाह पुत्र जुम्मा, मुहम्मद शरीफ, मोहम्मद असलम, अशरफ अली, मोहम्मद अली, आजाद खॉ पुत्रगण खलील खॉ, रमेशचन्द पुत्र मनोहर लाल श्रीमती हेमलता पत्नी रमेशचन्द निवासी किरावली, शिवप्रसाद पुत्र रामप्रसाद निवासी मन्डी मिर्जा खॉ प्रमोद कुमार पुत्र राजेन्द्र कुमार, लाखनसिंह पुत्र विशम्बर निवासी सीकरी चार हिस्सा व लक्ष्मन प्रसाद पुत्र कन्हैया लाल निवासी जाजऊ
				31	निजी	कृषि	0.010	कालिका प्रसाद, कैलाशी पुत्रगण सुखी हेतराम नाबालिग उम्र 9 साल पुत्र नैमीचन्द संरक्षिका मोहर श्री निवासी सीकरी दो हिस्सा
				32	निजी	आबादी	0.045	रघुनाथ खरबंदा पुत्र भरचन्द निवासी वाईपास मोड फतेहपुर सीकरी
				4	निजी	आबादी	0.012	केहरी पुत्र भिक्कू निवासी सीकरी दो हिस्सा
						योग	7.584	हैक्टैअर
			13. सीकरी -2 हिस्सा	569	निजी	कृषि	0.109	बनवारीलाल, वेदप्रकाश पुत्रगण रामसिंह, मु० भवानीदेवी पत्नी रामसिंह श्रीमती कलावती पत्नी बाबूलाल श्रीमती नत्थोदेवी पत्नी सीताराम निवासी ग्राम, गोपालसिंह पुत्र कमलसिंह निवासी बसैरी काजी
				566	निजी	कृषि	0.090	बनवारीलाल, वेदप्रकाश पुत्रगण रामसिंह, मु० भवानीदेवी पत्नी रामसिंह श्रीमती कलावती पत्नी बाबूलाल श्रीमती नत्थोदेवी पत्नी सीताराम निवासी ग्राम, गोपालसिंह पुत्र कमलसिंह निवासी बसैरी काजी
				564	निजी	कृषि	0.012	बाल कृष्ण पुत्र बृजबिहारी निवासी सीकरी चार हिस्सा
				563	निजी	कृषि	0.012	बाल कृष्ण पुत्र बृजबिहारी निवासी सीकरी चार हिस्सा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				561	निजी	कृषि	0.371	किशनस्वरूप पुत्र बस्तीराम निवासी सरायपुछा, अजयकुमार पुत्र शिवराम निवासी सन्तोषनगर, दिनेशकुमार पुत्र कैलाशचन्द, हिममत्तसिंह पुत्र शिवसिंह निवासी अगरगोट, देवेन्द्रसिंह, धर्मेन्द्रसिंह पुत्रगण रामकुंदर निवासी बसरीकाजी, बालकृष्ण पुत्र बृजबिहारी, रहमतखाँ पुत्र जुम्माखाँ निवासी सीकरी चार हिस्सा
				698	ग्राम सभा	आबादी	0.054	आबादी
				660	निजी	आबादी	0.060	शब्बीरहुसैन, हामिदहुसैन, शकीलअहमद, कामिलहुसैन जाहिदखाँ, आबिदअली पुत्रगण हाजीबुन्दूखाँ निवासी सीकरी चार हिस्सा, भरतसिंह, पतिराम, नवलसिंह पुत्रगण दौजी निवासी ग्राम
				672	निजी	कृषि	0.016	शब्बीरहुसैन, हामिदहुसैन, शकीलअहमद, कामिलहुसैन जाहिदखाँ, आबिदअली पुत्रगण हाजीबुन्दूखाँ निवासी सीकरी चार हिस्सा, पतिराम, नवलसिंह पुत्रगण दौजी निवासी ग्राम
				673	निजी	कृषि	0.030	शब्बीरहुसैन, हामिद हुसैन, शकील अहमद, कामिल हुसैन जाहिद खाँ, आबिद अली पुत्रगण हाजी बुन्दू खाँ निवासी सीकरी चार हिस्सा, तेजसिंह, जवाली पुत्रगण सुम्मेरा निवासी ग्राम
						योग	0.754	हेक्टेअर
			14. सीकरी —4 हिस्सा	885	निजी	कृषि	0.032	मोहनसिंह पुत्र भंवर सिंह निवासी ग्राम
				884	निजी	कृषि	0.035	श्रीमती विरमा देवी पत्नी नेकराम निवासी ग्राम, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र हरीशंकर निवासी फतेहपुर सीकरी, श्रीमती रेशम देवी पत्नी श्यामलाल निवासी ग्राम
				882	निजी	कृषि	0.016	श्रीमती विरमा देवी पत्नी नेकराम निवासी ग्राम
				880	निजी	कृषि/आबादी	0.002	नेकराम पुत्र सुखवी निवासी ग्राम
				714	निजी	कृषि	0.136	श्रीमती भगवानदेवी पत्नी नरायनसिंह निवासी ग्राम सियाराम पुत्र साहब सिंह, उत्कत पुत्र मोहन सिंह, अमरुददीन पुत्र इस्माइल, दरब सिंह पुत्र लेखराज, बीरीसिंह पुत्र ताराचन्द, साबरनसिंह पुत्र साबरलसिंह, अतर सिंह पुत्र गंगाराम निवासी ग्राम
				754/2	निजी	कृषि	0.115	भंवर सिंह पुत्र केसरिया निवासी ग्राम, मोहन सिंह पुत्र वाला निवासी सीकरी चार हिस्सा

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				722	निजी	कृषि	0.320	लहारे पुत्र खूबी, श्रीमचंद पुत्र हीरालाल, उर्मिलादेवी पत्नी गोविन्द सिंह निवासी ग्राम, राजेन्द्र सिंह, मल्ल सिंह पुत्रगण तेज सिंह निवासी नाजिरपुरा, लोचन पुत्र चरन सिंह चंदन सिंह पुत्र परमाती, मुहम्मद इलियास पुत्र रहमत तुल्लाह, मुन्बर हुसैन पुत्र अनवर खां भूप सिंह पुत्र दयाचंद, गुलाराम पुत्र हीरालाल निवासी ग्राम
				752	निजी	कृषि	0.088	रामजीलाल पुत्र मोदर निवासी ग्राम
				724	निजी	कृषि	0.240	बाबू पुत्र मेधा निवासी ग्राम
								लच्छो पुत्र मेधा निवासी ग्राम
								श्याम पुत्र मेधा निवासी ग्राम
				732	निजी	कृषि	0.040	मुहम्मद मुवीन, मजार मखदूम शाह पुत्र मुहम्मद सददीक निवासी ग्राम
				733	निजी	कृषि	0.215	मो रमीजा बेवा सलीम निवासी ग्राम
				694	निजी	बुनकर केन्द्र (अकृषक) / अम्बेडकर पार्क	0.320	बुनकर केन्द्र
								डा० भीमराव अम्बेडकर पार्क
				1011	निजी	कृषि	0.369	जुगेन्द्र सिंह पुत्र विपरीराम निवासी ग्राम
				1001	निजी	कृषि	0.501	प्रेमसिंह, हुकमसिंह, सोबरन, केशव सिंह, धारा सिंह पुत्रगण रामजीलाल निवासी ग्राम
								मोहन सिंह पुत्र भंवरसिंह निवासी ग्राम
						योग	2.429	हेक्टेयर
	15. रसूलपुर किरावली			128	निजी	कृषि	0.150	भगवान सिंह, किशुनसिंह पुत्रगण गनपति, विद्याराम, कलुआ, नानिगचन्द, चन्द्रभान, लहारे पुत्रगण नत्थी निवासी कुकावर तहसील खेरागढ़ जिला आगरा, श्रीगोपाल, रामसिंह पुत्रगण धनपाल, रामचरन, नाहरसिंह पुत्रगण रामस्वरूप व विरौजा पत्नी रामस्वरूप पिंदू नाबालिग, बलवीर नाबालिग उम्र क्रमशः 4 व 1 वर्ष सरक्षिका श्रीमती देवी माता स्वयं पुत्रगण गुलाबसिंह, श्रीमती देवी पत्नी गुलाबसिंह निवासी ग्राम
				106	निजी	कृषि	0.310	नत्थी पुत्र जंगली निवासी ग्राम
				100	निजी	कृषि	0.176	श्रीगोपाल, रामसिंह पुत्रगण धनपाल, रामचरन, नाहरसिंह पुत्रगण रामस्वरूप, पिंदू नाबालिग, बलवीर नाबालिग उम्र क्रमशः 4 व 1 वर्ष सरक्षिका श्रीमती देवी माता स्वयं, पुत्रगण गुलाबसिंह, श्रीमती देवी पत्नी गुलाब सिंह निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				101	निजी	मन्दिर	0.012	मन्दिर
				99	निजी	कृषि	0.115	रामसिंह पुत्र धनपाल निवासी ग्राम
				85	निजी	कृषि	0.357	गुलाबसिंह, साहबसिंह, कमल सिंह, पूरनसिंह पुत्रगण पातीराम निवासी ग्राम
				84	निजी	कृषि	0.432	नाहरसिंह पुत्र बैशी निवासी ग्राम
				83	निजी	कृषि/आबादी	0.490	गोपाल सिंह, नेकराम पुत्रगण करना, बहादुर सिंह, मुरा नाबालिग उम्र क्रमशः 17 व 15 वर्ष पुत्रगण मानसिंह संरक्षिका बत्तो देवी माता स्वयं, प्रताप सिंह, लाखन सिंह, दीवान सिंह पुत्रगण बच्चू, वासदेव बालिग, भूदेव नाबालिग उम्र 10 वर्ष संरक्षिका श्रीमती वीरमती नौ स्वयं पुत्रगण भजनलाल, व वीरमती पत्नी भजनलाल, रामजीलाल पुत्र घूरे निवासी ग्राम
				45	निजी	कृषि	0.046	मदनलाल, मोहनसिंह पुत्रगण रामसिंह निवासी ग्राम
				47	निजी	कृषि	0.035	विजय पाठक, मुकेश शर्मा पुत्रगण संतराम शर्मा निवासी भवनपुरा मौजा पुरामना देवेश पाल सिंह पुत्र नौनिहालसिंह निवासी टीचर्स कालौनी फतेहपुर सीकरी, वेदप्रकाश पुत्र चन्दभान निवासी कीलीखाना फतेहपुर सीकरी, तहसील किरावली विजय पाठक, मुकेश शर्मा पुत्रगण संतराम शर्मा निवासी वमनपुरा मौजा पुरामना
				44	निजी	कृषि	0.448	यादराम, बच्चूसिंह, पुत्रगण टीकम सिंह निवासी ग्राम तोता पुत्र धनीराम निवासी ग्राम, कैलाशचन्द दिनेशचन्द पुत्रगण दूरीलाल, श्रीमती शान्तीदेवी पत्नी दूरीलाल, क्षत्रपति सिंह, मुकेश कुमार, भूपेन्द्रसिंह, राजेश कुमार पुत्रगण तेजसिंह व श्रीमती सावन्ती बेवा तेजसिंह निवासी मण्डी मिर्जा खौ
				28	निजी	कृषि	0.420	विजय पाठक, मुकेश शर्मा पुत्रगण संतराम शर्मा निवासी वमनपुरा, धनीराम पुत्र दुर्गपाल मोतीराम, बैनीराम पुत्रगण स्वर्गीय कुन्दना, सावित्री पत्नी स्वर्गीय कुन्दना निवासी ग्राम
				27	निजी	कृषि	0.576	शिवराम पुत्र रतना निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				131	निजी	कृषि	0.092	नाहरसिंह, लक्ष्मण सिंह, रामवीर, जगमोहन पुत्रगण वैशी, जुगेन्द्र सिंह पुत्रगण फौदा निवासी ग्राम
				145	निजी	कृषि	0.238	बृज किशोर शर्मा पुत्र युत्तनलाल निवासी वाई पास रोड, कोसी कलाँ, राजवीरसिंह पुत्र भगवानसिंह निवासी सन्तोष नगर, हरेन्द्र सिंह गोयल उर्फ भारत गोयल पुत्र मुरारी लाल निवासी मुडिया खेड़ा, मुहम्मद शरीफ पुत्र खलील खॉं निवासी सीकरी दो हिस्सा, अमरुद्दीन पुत्र स्माइल निवासी सीकरी चार हिस्सा, अजय कुमार, मोहित कुमार, नितिन कुमार पुत्रगण जगदीश प्रसाद नि० नौ० मसाया, फतेहपुर सीकरी,
				113	निजी	कृषि	0.074	साविर उर्फ खुनलिया पुत्र शैकत, अमरुद्दीन, शहजादा, नथुआ पुत्रगण इस्माइल निवासी सीकरी चार हिस्सा
				134	निजी	कृषि	0.024	नाहर सिंह, लक्ष्मण, जगमोहन, रामवीर पुत्रगण बैशी निवासी ग्राम लीला पुत्र बुद्धा निवासी ग्राम रामसिंह पुत्र धनपाल निवासी ग्राम
				107	निजी	कृषि	0.137	कृष्ण मुरारी पुत्र रतना निवासी ग्राम
						योग	4.132	हेक्टैअर
			16. नाजिरपुरा	208/1	निजी	कृषि	0.127	मुरारीलाल पुत्र डालू, महेन्द्रसिंह, खरगसिंह, हरीचन्द, रामेश्वरप्रसाद नाबालिग उम्र 12 वर्ष पुत्रगण मुरारीलाल बली व संरक्षक पिता स्वयं निवासी रसूलपुर किरावली
						योग	0.127	हेक्टैअर
			17. कराही	71	निजी	कृषि	0.200	रमोल सिंह, अतर सिंह, दीनदयाल पुत्रगण जवाहर सिंह सोहन लाल विनोद कुमार, गोपाल प्रसाद पुत्र जमुना प्रसाद निवासी ग्राम
				44	निजी	कृषि	0.026	मौगे लाल, ओमपाल, रामकरन, बासदेव पुत्रगण मौहरसिंह भगवान देवी विधवा मौहर सिंह निवासी ग्राम
				66	निजी	कृषि	0.179	सामान्ता पुत्र पन्ना निवासी ग्राम तारा पुत्र लक्ष्मण निवासी ग्राम रंजीत पुत्र नल्ही निवासी ग्राम वच्चूसिंह पुत्र किशनसिंह निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
								गिरसंज पुत्र पन्ना निवासी ग्राम
								भगवानसिंह पुत्र जोहरी निवासी ग्राम
								फूलसिंह पुत्र पन्ना निवासी ग्राम
								छीतरिया पुत्र रामप्रसाद निवासी ग्राम
				40	निजी	कृषि	0.160	नवला, दुलीचन्द, झबू, तारा, नृपाल पुत्रगण लक्ष्मण निवासी ग्राम
				36	निजी	कृषि	0.150	सिरदार सिंह पुत्र मदनलाल निवासी ग्राम
				37	निजी	कृषि	0.120	किशनसिंह पुत्र गिरसिंह निवासी ग्राम
				14	निजी	कृषि	0.560	महेश चन्द्र पुत्र रमन लाल निवासी ग्राम हरेश चन्द्र पुत्र रमनलाल निवासी बहरी नाला, आगरा, सत्यम नायालिंग उम्र 14 साल पुत्र श्रीमंगवान सरक्षिका सुलेखा माँ स्वयं देवी प्रसाद पुत्र हरिशकर निवासी मोड मंडी गुड, फतेहपुर सीकरी, पवन गर्ग, हरिओम गर्ग पुत्रगण बालमुकुन्द गर्ग निवासी मोहल्ला सन्तोष नगर, फतेहपुर सीकरी
				96	निजी	कृषि	0.040	चन्द्रहस, ओमप्रकाश, धान सिंह, मान सिंह, रघुनाथ सिंह पुत्रगण मंगल सिंह, साहब सिंह पुत्र निरंजित सिंह निवासी ग्राम
				94	निजी	कृषि	0.040	भगवानसिंह, अशोक कुमार पुत्रगण जौहरी निवासी ग्राम
								महेश चन्द्र पुत्र रमनलाल निवासी ग्राम हरेशचन्द्र पुत्र रमनलाल, सत्यम नायालिंग उम्र 14 वर्ष पुत्र श्री भगवान सरक्षिका माँ सुलेखा निवासी बहरीनाला आगरा, मोहनलाल, सोहनलाल, गोपालप्रसाद, विनोद कुमार पुत्रगण जमुना प्रसाद निवासी ग्राम
				81	निजी	कृषि	0.380	रामस्वरूप, मोतीराम, पुत्रगण श्यामू निवासी धिलोय, रतनलाल, रमेशचन्द्र पुत्रगण श्यामू निवासी ग्राम
						योग	1.555	हेक्टोर
			18. चौमा शाहपुर	355	निजी	कृषि	0.024	ताताराम, जय प्रकाश, राम प्रकाश, पुत्रगण किशोरी निवासी ग्राम
				356	निजी	कृषि	0.029	वदनसिंह पुत्र किशन लाल निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				357	निजी	कृषि	0.025	देवीराम, धन पाल पुत्रगण छोटे निवासी ग्राम
				358	निजी	कृषि	0.020	देवीचरण पुत्ररामखिलाडी, अतर सिंह पुत्र डरोली, जितेन्द्र सिंह, धर्मेन्द्र सिंह, भूपेद्र, गंगा सिंह नाबालिग उम्र क्रमशः 16, 13, 11 व 9 साल पुत्रगण राममरोसी, संरक्षिका मु० जलधारा माता स्वयं, विष्णू, नबाब नाबालिग उम्र क्रमशः 5 व 3 साल पुत्रगण स्वर्गीय राममरोसी संरक्षिका जलधारा, माता स्वयं मु० जलधारा पत्नी स्वर्गीय राममरोसी, जयपाल, सत्यपाल, विनोद कुमार पुत्रगण पदम सिंह, गंगा देवी पत्नी स्वर्गीय पदम सिंह निवासी ग्राम
				360	निजी	कृषि	0.128	मो० अली पुत्र कल्लू खों निवासी, सीकरी दो हिस्सा
				365	निजी	कृषि	0.180	देवीदास पुत्र दोदल्ली निवासी ग्राम जयदेवी पत्नी भगवत पुत्री नानिगदास निवासी बयाना व शान्ती पत्नी बिहारी पुत्री नानिगदास निवासी भरतपुर, श्रीमती पुनिया पत्नी शिवचरण लाल मो० पटवर बाई न० 2 भरतपुर राजस्थान, देवी दास पुत्र दोदल्ली बदन सिंह पुत्र किशन, देवीचरण पुत्र रामखिलाडी, अतर सिंह पुत्र डेरीलाल निवासी ग्राम, धर्मेन्द्र नाबालिग, भूपेद्र, गंगा सिंह, विष्णू, जितेन्द्र, नबाब नाबालिग उम्र क्रमशः 16, 13, 11, 9, 5 व 3 साल पुत्रगण स्वर्गीय राममरोसी संरक्षिका जलधारा माता स्वयं, जलधारा पत्नी स्वर्गीय राममरोसी, जयपाल, सत्यपाल, विनोद कुमार, पुत्रगण पदम सिंह, गंगा देवी पत्नी पदम सिंह, देवीराम, धनपाल पुत्रगण छोटे निवासी ग्राम
				368	निजी	कृषि	0.222	गिराज सिंह, रोशन सिंह, पुत्रगण रेती, बदरसिंह पुत्र नदम सिंह मु० हरिच्यारी वेवा सूखा निवासी ग्राम, भीम सिंह, राजन सिंह, अशोक कुमार निवासी ग्राम
				383	निजी	कृषि	0.422	ओमप्रकाश, सीताराम, नन्द किशोर, पुत्रगण जीवाराम निवासी ग्राम
				393	निजी	कृषि	0.096	किशन सिंह, रामवीर सिंह पुत्रगण किरोरी निवासी ग्राम
				404	निजी	कृषि	0.014	रामकिशन पुत्र चिरंजी निवासी ग्राम
				403	निजी	कृषि	0.252	मोजपाल, नेत्रपाल सिंह, कप्तानसिंह, रामनिवास, परशुराम, चंद्रसेन पुत्रगण दर्याबसिंह निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				405	निजी	कृषि	0.046	रवीन्द्र कुमार पुत्र हरवंशलाल निवासी चीतगढ आगरा
				406	निजी	कृषि	0.048	रामप्रसाद, रामकिशन पुत्रायण सिरौली, फूल सिंह, शिवमनेश पुत्रगण रामदेव निवासी ग्राम
				411	निजी	कृषि	0.023	ओमप्रकाश, सीताराम, नन्द किशोर, पुत्रगण जीवाराम निवासी ग्राम
				412	निजी	कृषि	0.012	ओमप्रकाश, सीताराम, नन्द किशोर, पुत्रगण जीवाराम निवासी ग्राम
				426	निजी	आबादी	0.022	गोविन्दा, शंकर, नेको पुत्रगण सुमेरा, पूरन पुत्र सेवा, राम दयाल पुत्र रामवल निवासी ग्राम
				430	निजी	आबादी	0.080	धूप सिंह, बहादुर सिंह, बुद्धाराम, रामबाबू पुत्रगण मंगाराम, राधेश्याम, रमेश चन्द, लाल सिंह, मुकेश चन्द पुत्रगण हरहेली, कल्यान सिंह, जगन सिंह, पप्पू पुत्रगण रेवती नाहर सिंह पुत्र गुटटा, गोविन्दा, शंकर, नेको पुत्रगण सुमेरा हरी सिंह पुत्र दौजी, खेम सिंह पुत्र सामरे, शिववरन, कमल सिंह, कल्यान सिंह पुत्रगण कन्ही निवासी ग्राम
				437	निजी	कृषि	0.083	खेम सिंह पुत्र सामरे निवासी ग्राम
				439	निजी	कृषि	0.097	गोविन्दा, शंकर, नेको पुत्रगण सुमेरा निवासी ग्राम रघुवर पुत्र फगुनी निवासी ग्राम खेम सिंह पुत्र सामरे निवासी ग्राम रघुवर पुत्र फगुनी निवासी ग्राम हरीसिंह पुत्र दयौजी निवासी ग्राम
				440	निजी	कृषि	0.048	भोजपाल, नेत्रपाल सिंह, कप्तानसिंह, रामनिवास, परशुराम, चंद्रसेन पुत्रगण दर्याबसिंह निवासी ग्राम
				441	निजी	कृषि	0.109	भोजपाल, नेत्रपाल सिंह, कप्तानसिंह, रामनिवास, परशुराम, चंद्रसेन पुत्रगण दर्याबसिंह निवासी ग्राम
				442	निजी	कृषि	0.026	भोजपाल, नेत्रपाल सिंह, कप्तानसिंह, रामनिवास, परशुराम, चंद्रसेन पुत्रगण दर्याबसिंह निवासी ग्राम
				446	निजी	कृषि	0.023	भोजपाल, नेत्रपाल सिंह, कप्तानसिंह, रामनिवास, परशुराम, चंद्रसेन पुत्रगण दर्याबसिंह निवासी ग्राम
				448	निजी	कृषि	0.035	गोविन्दा, शंकर, नेको पुत्रगण सुमेरा निवासी ग्राम
				201	निजी	कृषि	0.242	श्रीमती गयादेवी पत्नी सूरज मल निवासी ग्राम

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				174	निजी	कृषि	0.125	श्रीमती प्रेमवती पत्नी देवी सिंह निवासी ग्राम
								छोतर दत्तक पुत्र भूम सिंह निवासी ग्राम
								हुब्बलाल पुत्र जलसिंह, करनसिंह, किशनसिंह, परतापसिंह पुत्रगण भगवानसिंह निवासी ग्राम
								गोपालसिंह पुत्र सूरजमल निवासी ग्राम
								श्रीमती श्यामवती पत्नी रामरज निवासी ग्राम
								श्रीमती शारदा पत्नी पूरनसिंह निवासी ग्राम
								हरिनारायण पुत्र गुलाबसिंह निवासी ग्राम
								परताप सिंह पुत्र भगवानसिंह निवासी चौमा शाहपुर
								सुशील कुमार पुत्र पीतमसिंह निवासी चौमा शाहपुर
				176	निजी	कृषि	0.080	राजवीर सिंह दत्तक पुत्र जवाहर सिंह, कोमल सिंह, गोपाल सिंह पुत्रगण सूरजमल, किशोरी पुत्र हुक्मा निवासी ग्राम
				190	निजी	कृषि	0.240	भोजपाल, नेत्रपाल सिंह, कप्तानसिंह, रामनिवास, परशुराम, चंद्रसेन पुत्रगण दर्याबसिंह निवासी ग्राम
				191	निजी	कृषि, पेट्रोल पम्प, आबादी	0.330	छोरेलाल पुत्र टीकमसिंह निवासी किरावली
				196	निजी	कृषि	0.023	छोरेलाल पुत्र टीकमसिंह निवासी किरावली
				197	निजी	कृषि	0.231	छोरेलाल पुत्र टीकमसिंह निवासी किरावली
				198	निजी	कृषि	0.035	छोरेलाल पुत्र टीकमसिंह निवासी किरावली
				199	निजी	कृषि	0.035	रामनिवास, चन्द्रसेन पुत्रगण दर्याबसिंह, निवासी ग्राम
						योग	3.405	हेक्टेअर
						महायोग	62.874	हेक्टेअर

[फा. सं. भाराप्र/बीओटी/11013/13/05/भू.अ.]

प्रभाकर, उप-सचिव

MINISTRY OF SHIPPING, ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
(Department of Road Transport and Highways)
NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2006

S.O. 1852(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Shipping, Road Transport and Highways, (Department of Road Transport and Highways), number S.O. 957(E) dated the 28th June, 2006, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii) and issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening / four – laning, etc.), maintenance , management and operation of National Highway No 11 on the stretch of land from Km 17.756 to Km 42.525(Agra - Bharatpur Section) in District Agra, in the State of Uttar Pradesh;

And whereas the substance of the said notification has been published in “Dainik Jagran” dated the 20th July, 2006 and “ Amar Ujala ” dated the 20th July, 2006, under sub - section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 3D of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further , in pursuance of sub- section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette , the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government , free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the stretch of land from
Km. 17.756 to Km. 42.525 (Agra- Bharatpur Section) of the National Highway No. 11
in the State of Uttar Pradesh

Serial number	Name of the district	Name of the taluk	Name of the village	Survey number	Type of land	Nature of land	Area (in hactares)	Name of the land owner / Interested persons
1	2 Agra	3 Kiraoli	4 1. Baroda Sadar	5 34/1	6 Private	7 Agricultural	8 0.030	9 Lal singh, Komal singh, Satendra singh, Bhagwan singh, S/o Ramswoop resident of village itself
				35/1	Private	Agricultural	0.050	Girraj singh, Durjan singh S/o Ram singh resident of village itself
				38/1	Private	Agricultural	0.054	Girraj singh, Durjan singh S/o Ram singh resident of village itself
						Total	0.134	Hactares
			2. Mahuar	421	Private	Agricultural	0.340	Nauratan, Rameshchand, Dhaneshchand, Deviram, Bhagwati-Prasad S/o Kirorilal resident of village itself
				323	Private	Agricultural	0.192	Nauratan, Rameshchand, Bhagwati Prasad S/o Kirorilal resident of village itself
				322	Private	Agricultural	0.180	Nauratan, Rameshchand, Bhagwati Prasad S/o Kirorilal and Rashi Vildcon Pvt. Ltd. C/o Director Shri Mukesh kumar Agarwal S/o Kamta Prasad Agarwal resident of 15 Kamla Nagar Agra
				320	Private	Agricultural	0.020	Rashi Vildcon Pvt. Ltd. C/o Director Mukesh Kumar Agarwal S/o Kamta prasad Agarwal resident of 15 Kamla Nagar Agra

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				426/1	Private	Agricultural	0.850	Shiv Kumar, Balkishan, Monu S/o Keshavdev resident of village itself, Kushma Devi W/o Late Keshavdev, Govind Prasad, Bhagwan Dass, Rakesh Kumar S/o Devi Singh resident of village itself, Umesh, Naresh, Mansingh, Rajkumar, Yougesh S/o Bharat Singh resident of village itself
				427	Hospital, Goshala, Sant Ashram	Non Agricultural	0.360	Hospital, Goshala, Sant Ashram
				428/1	Private	Agricultural	0.189	Hari Singh S/o Kanihya, Lal Singh S/o Chaturi & Smt. Somoti W/o Hari Singh resident of village itself
				430	Private	Agricultural	0.126	Ram Prasad, Shivram S/o Ramsawroop resident of village itself
				443	Private	Agricultural	0.019	Kalicharan, Gangaprasad S/o Doongar Singh resident of village itself Dorilal, S/o Gopichand, Raghuveer Singh, Kanihya, S/o Sukhna resident of village itself
				444	Private	Agricultural	0.180	Suresh Chand S/o Bhawani Singh resident of village itself
				448	Private	Agricultural	0.180	Jevaram S/o Bahora resident of village itself
				451	Private	Agricultural	0.342	Mihilal S/o Doongarsingh resident of Abhuapura
				456	Private	Agricultural	0.090	Nawalsingh, Rajjo S/o Sonia Smt Vissa Devi W/o Sonia resident of Abhuapura
				459	Private	Agricultural	0.300	Ramprakash, Vijendra Singh, Omprakash, Ramdutt, Shripakash, S/o Bhagwan Singh resident of Nagla Kurra, Mazra of Village itself
						Total	3.368	Hactares
			3. Gopau	1139	Private	Agricultural	0.240	Ramprakash, Vijendra, Omprakash, Ramdutt, Shri Prakash S/o Bhagwansingh, resident of Nagla Kurra, Mazra of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1137	Private	Agricultural	0.080	Sahukar, Bhagwandas, Harinarayan, S/o Dalchand resident of Abhuapura Jagan Fugas Pvt. Ltd. Registered. Office C 106 Lal Kothi Scheme Jaipur, C/o Director Ritesh Sharma S/o Muralilal Sharma resident of Jagan Bhawan, Dholpur
				1136	Private	Agricultural	0.100	Promod Kumar S/o Bhagwandass, Jagan Fugas Pvt. Ltd. Registered Office C 106 Lal Kothi Scheme Jaipur, C/o Director Ritesh Sharma S/o Muralilal Sharma resident of Jagan Bhawan, Dholpur
				1132	Private	Agricultural	0.084	Natthisingh, Siayaram, S/o Rajaram resident of Abhuapura
				1131	Private	Agricultural / Abadi	0.440	Natthisingh, Siayaram, S/o Rajaram resident of Abhuapura
				1169	Private	Agricultural	0.129	Shyam Lal, Ramesh, Mahesh, S/o Bahadur, Smt Puniya W/o Late Bahadur resident of village itself
				1171	Private	Agricultural	0.800	Khemsingh, Darabsingh, S/o Devisingh, Surendrasingh, Pravendrasingh, Bhupendrasingh, Devendrasingh, S/o Sohansingh, Smt. Omwati W/o Late Sohansingh, Jagdishsingh S/o Devisingh resident of Abhuapura Khemsingh S/o Devisingh resident of Abhuapura Jagdish S/o Devisingh resident of Abhuapura Surendrasingh, Pravendrasingh, Bhupendrasingh, Devendrasingh, S/o Sohansingh, Smt. Omwati W/o Late Sohansingh Darabsingh S/o Devisingh resident of Abhuapura
				1168	Private	Agricultural	0.075	Mahesh S/o Niranjansingh, Ratansingh, Amarpalsingh, Charansingh, S/o Todarsingh, Narendrasingh, S/o Amarpalsingh, Yogendrasingh S/o Hakimsingh, resident of Abhuapura

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1043	Private	Agricultural	0.300	Nohvalsingh, S/o Mangla resident of Abhuapura
								Veeranarayan S/o Fauransingh resident of Abhuapura
								Damodar S/o Fauransingh resident of Abhuapura
								Saudansingh S/o Mangla resident of Abhuapura
				1045	Private	Agricultural / Abadi	0.079	Saudansingh S/o Mangla resident of Abhuapura
				1046	Private	Agricultural	0.024	Khajansingh, Sujansingh, S/o Naharsingh, Smt. Janakshri W/o Late Naharsingh resident of Galla Mandi Kiraoli
						Total	2.351	Hactares
			4 Abhuapura	222	Private	Agricultural / Abadi	0.218	Shri Thakur Radhakishan Ji Maharaj Care taker, Anand Bihari Lal S/o Gaddarmal, Brijbhushan S/o Shyamal resident of village itself
				224	Private	Agricultural	0.086	Rameshwar Dayal S/o Bhogiram, Ramkhiladi, S/o Bihari Lal, Diwansingh S/o Mihilal resident of village itself, Waswati W/o Sarwanilal resident of Khedia District, Mathura
				227	Private	Agricultural / Abadi	0.144	Vijender S/o Bhima resident of village itself
				238	Private	Agricultural Cold Storage	0.066	Bhagwan Singh S/o Mohansingh M/s Kiraoli Cold Storage Private Limited, Kiraoli resident of village itself, Akhilesh Rana S/o Keshavsingh Rana resident of Kiraoli
				240	Private	Agricultural / Abadi	0.060	Ramkhiladi, Phoolisinh S/o Ramjilal, Bachuhsingh, Vijaysingh S/o Phoolisinh resident of village itself
				266	Private	Agricultural Barafkhana	0.120	Rajendrasingh, Bharatsingh, Thansingh S/o Hukumsingh, Samundrasingh S/o Sitaram resident of Railway Colony Kiraoli town, Baboolal S/o Shivram M/s Kishan Iron Factory Proprietor Bharatsingh S/o Hukumsingh, Bhagwansingh S/o Niranjansingh, Smt Premwati Widow of Ramkishan resident of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				270	Private	Agricultural / Abadi	0.027	Om Prakash, Patiram, Vijaysingh S/o Naniga resident of village itself Kishan, Prabhu, Veeri, S/o Mohanlal resident of village itself Bhoori W/o Sitavo resident of village itself Ramesh S/o Darshan resident of village itself, Bhupendra (Adult) Sunil, Anil (Minor) age 11 & 8 years respectively S/o Jagdish guardian Smt. Munnidevi mother herself & Munnidevi W/o Jagdish resident of village itself Kalicharan, Ramveer S/o Lohore resident of village itself Cheto S/o Phailee resident of village itself
				271	Private	Abadi	0.027	Banwari Singh S/o Roopsingh, Kaptansingh S/o Girrajsingh, Durgsingh S/o Aarami resident of village itself Udaiveersingh, Pratapsingh, Geetamsingh, S/o Sahabsingh, Shivsingh, S/o Jotiram resident of Sakatpur Vidhyawati W/o Lalsingh resident of village itself
				279	Private	Agricultural / Abadi	0.045	Rupesh Dixit S/o Ramdev Dixit resident of Pali Sadar, Maheshchand S/o Tarachand resident of Mohalla Galla Mandi Kiraoli, Shivsingh, Ashok Kumar, S/o Raghuvveersingh resident of village itself
				477	Private	Agricultural	0.720	Balveersingh S/o Raghunandan resident of village itself
				476	Private	Agricultural	0.040	Lakhansingh, Mansingh, Nareshchand S/o Bhupsingh, Smt. Bhagwati Devi W/o Late Bhupsingh resident of village itself Sureshchand, Maheshchand, S/o Hiralal, Smt. Wasmati W/o Late Hiralal resident of Station Road Kiraoli Samundersingh S/o Sitaram resident of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				475	Private	Agricultural / Abadi	0.454	Lakhansingh, Mansingh, Nareshchand S/o Bhupsingh, and Smt Bhagwati Devi W/o Late Bhupsingh resident of village itself, Dharamsingh, S/o Girrajsingh resident of village Abhuapura
				458	Private	Agricultural	0.210	Sanjay S/o Bhagwansingh resident of Kabulpur Tehsil & District Agra Ramprasad, Vishamber, Rameshwer S/o Naniga resident of village itself Pitamsingh, Balveersingh, Vishambarsingh S/o Fhusiya resident of village itself Gangaram, Soransingh, S/o Raghuni resident of village itself Rajjo S/o Soni, Naresh S/o Nemi resident of village itself Sanjay S/o Bhagwan singh resident of Kabulpur Tehsil & District. Agra
				457	Private	Agricultural	0.006	Bahadursingh, Badle S/o Munnilal resident of village itself
				459	Private	Agricultural	0.360	Ramsingh S/o Bastiram resident of village itself Shyamsingh S/o Ramsingh, Chandrapal, Jagansingh S/o Himmatsingh, Himmatsingh S/o Bastiram resident of village itself
				456	Private	Agricultural	0.016	Bahadursingh, Badle S/o Munnilal resident of village itself
				455	Private	Agricultural	0.087	Lekhraj, Jasrath S/o Boocha, Munnasingh, Avdesh, Rajkumar S/o Budheesingh resident of village itself
				454	Private	Agricultural	0.004	Ashok Kumar S/o Badlesingh resident of Abhuapura, Smt Tarawati W/o Deshraj Singh resident of Malikpur Tehsil Kiraoli
				451	Private	Agricultural	0.192	Bahadursingh, Badle S/o Munnilal resident of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				441	Private	Agricultural / Abadi	0.240	Darabsingh, Khemsingh, Jagdishsingh S/o Devisingh, Surendrasingh, Pravendrasingh, Bhupendrasingh, Devendrasingh S/o Sohansingh, Omwati W/o Late Sohansingh resident of village itself
								Khemsingh S/o Devisingh resident of village itself
								Jagdish Singh S/o Devisingh resident of village itself
								Darabsingh S/o Devisingh resident of village itself
				439	Private	Agricultural	0.035	Sohansingh S/o Devisingh resident of village itself
				473	Private	Agricultural	0.029	Amarsingh, Satishchand, Brijkishore S/o Ramkhiladi resident of village itself
				306	Private	Town Area	0.035	Chiddhailal, Narayansingh S/o Shayama resident of village itself
				307	Private	Town Area	0.072	Banjar
				308	Private	Abadi Town Area	0.201	Banjar
				309	Private	Abadi Town Area	0.156	Nauvatsingh S/o Ratnisingh resident of village
				318	Private	Abadi Town Area	0.119	Niroti, Bhajna S/o Ramkhiladi resident of village itself
								Rajendrasingh, Bharatsingh S/o Hukumsingh, Harendrasingh S/o Thansingh Smt Hardevi W/o late Thansingh, Niranjansingh, Mahendrasingh S/o Lalaram, Khajansingh, Ranveersingh S/o Ratansingh resident of village itself
								Lalsingh S/o Bhagwansingh resident of village itself
				324	Private	Abadi Town Area	0.030	Smt. Jaldevi daughter of Bahori Smt. Gulkandi widow of Kanchan resident of village itself
				325	Private	Abadi Town Area	0.015	Shivcharan S/o Hiralal resident of village itself
								Sunka S/o Latoor resident of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				328	Private	Abadi Town Area	0.120	Bhikamsingh Alias Jagdishprasad S/o Ramnarayan resident of village itself Harnarayansingh, Ramdevsingh S/o Hirasingsh resident of Nagla Mansa Mazra of Gopou Vijaysingh S/o Buddha resident of village itself
				329	Private	Abadi Town Area	0.033	Lakhansingh, Mansingh, Nareshchand S/o Bhupsingh, Smt Bhagwati Devi W/o Late Bhupsingh, Sureshchand, Maheshchand S/o Hiralal, Smt. Wasmati W/o Late Hiralal resident of Station Road Kiroati Town, Samundra Singh, Kishansingh S/o Sitaram resident of village itself
				305	Private	Town Area	0.023	Dalveersingh S/o Bahadursingh, Smt. Shiladevi W/o Late Bahadursingh, Shivcharan S/o Bhagwansingh, Mahaveersingh, Jalsingh, Liladhar S/o Ramjilal, Bijain S/o Bhima, Durgsingh, Damodarsingh, Sukhveersingh S/o Indersingh resident of village itself
				304	Private	Private Under Town Area	0.023	Dalveersingh S/o Bahadursingh, Smt. Shiladevi W/o Late Bahadursingh, Shivcharan S/o Bhagwansingh, Mahaveersingh, Jalsingh, Liladhar S/o Ramjilal, Bijain S/o Bhima, Durgsingh, Damodarsingh, Sukhveersingh S/o Indersingh resident of village itself
				303	Private	Town Area	0.041	Dalveersingh S/o Bahadursingh, Smt. Shiladevi W/o Late Bahadursingh, Shivcharan S/o Bhagwansingh, Mahaveersingh, Jalsingh, Liladhar S/o Ramjilal, Bijain S/o Bhima, Durgsingh, Damodarsingh, Sukhveersingh S/o Indersingh resident of village itself
				302	Private	Town Area	0.006	Nauvatsingh S/o Rantansingh, Niroti, Bhajna S/o Ramkhiladi resident of village itself
				301	Private	Town Area	0.006	Ramkhiladi, Phoolsingh S/o Ramjilal, Bachhuisingh, Vijaysingh S/o Phoolsingh resident of village itself
				300	Private	Abadi Town Area	0.058	Surendra Kumar, Nagendsingh S/o Munsiram, Gopal Prasad S/o Naktaram, Yogendrakumar S/o Sheelchand, Ramrati Devi W/o Sheelchand, Devendrasingh S/o Babulal resident of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				298	Private	Abadi Town Area	0.041	Nauvatsingh S/o Ratansingh, Niroti, Bhajna S/o Ramkhladi resident of village itself
				297	Private	Town Area	0.046	Bhagwan Singh S/o Mohan, Swamisaran S/o Ninua M/s Kiraoli Cold Storage Private Limited Kiraoli resident of village itself
				296	Private	Town Area	0.023	Ramkhladi, Phoolsingh S/o Ramjilal, Bachhuisingh, Vijaysingh S/o Phoolsingh resident of village itself
				295	Private	Private Under Town Area	0.035	Padamsingh, Amarpalsingh, Charansingh, Ratansingh S/o Todarsingh, Ajitsingh, Dharajeet, Dineshchand, Sureshchand S/o Rajansingh Alias Niransingh, Hakimsingh S/o Radheyshyam, Smt Rumaidevi W/o Radheyshyam, Himmatsingh S/o Bastiram Ghanshyamsingh, Ranveersingh, Veeresingh, Kamalsingh, Mohansingh S/o Babulal Arvindrasingh, Dalendrasingh S/o Hardamsingh, Yogendrasingh, Dharmendrasingh, Bhupendrasingh all Minors aged 15, 12 and 10 years respectively S/o Hardamsingh in the guardianship of Phoolwati Mother herself, Phoolwati W/o Hardamsingh resident of village itself
				294	Private	Town Area	0.015	Ramkhladi, Phoolsingh S/o Ramjilal, Bacchusingh, Vijaysingh S/o Phoolsingh resident of village itself
				293	Private	Town Area	0.046	Smt Barfi, Vidhyadevi daughter of Gangadhar, Girrajsingh, Chobsingh S/o Atarsingh, Mahaveersingh S/o Lalsingh, Rajwati W/o Arjunsingh daughter of Vijaysingh, Angoori W/o Shyambabu daughter of Vijaysingh resident of Chawali Tehsil Agra, Hariom Minor Age 13 years S/o Sukram in the guardianship of Sondevi mother herself, Khajansingh, Mahendrasingh S/o Ramjilal, Nauhvatsingh, Saudansingh S/o Mangal, Vinu, Dhammo S/o Fauransingh, Giversingh S/o Raghurajsingh, Pooransingh Minor Age 17 years S/o Raghurajsingh in the guardianship of Ramveeri mother herself, Sujansingh, Netrapal S/o Tikaram, Haribhan, Kaptan, Sahukar S/o Kirori resident of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				292	Private	Abadi Town Area	0.057	Hakimsingh S/o Lalaram, Smt Goojari W/o Sahabhsingh resident of village itself
				289	Private	Abadi Town Area	0.051	Smt. Prakashi daughter of Shrilal W/o Mahendrasingh resident of village itself
				288	Private	Abadi Town Area	0.092	Darabasingh, Khaimsingh, Jagdishsingh S/o Devisingh, Surendrasingh, Pravendrasingh, Bhupendrasingh, Devendrasingh S/o Sohansingh, Omwati W/o Late Sohansingh, Roshanlal S/o Butee, Fauran S/o Thana, Udhamsingh, Matsingh Adult and Vishnu, Satyaveer minor aged 15 and 13 years respectively S/o Shyamlal Alias Lotan in the guardianship of Smt Shyamwati Mother herself, Shyamwati W/o Shyamlal Alias Lotan, Bhursingh, Samundrasingh S/o Paramsukh, Smt Barfi, Smt Vidhyadevi daughters of Gangadhar, Girrajsingh, Chobsingh S/o Atarsingh, Mahaveersingh S/o Lalsingh, Hariom minor age 13 years S/o Sukhram in the guardianship of Ramandevi mother, Sujansingh, Netrapal S/o Tikaram, Kaptan, Haribhan, Sahukar S/o Kirori, Khajansingh, Mahendrasingh, S/o Ramjilal , Givarsingh S/o Raghurajsingh, Pooransingh minor age 17 years S/o Raghurajsingh in the guardianship of Ramveeri mother, Nauhvatsingh, Saudhansingh S/o Mangal, Venu, Dhammo S/o Fauransingh resident of village itself, Rajwati W/o Arjunsingh daughter of Vijaysingh, Angoori W/o Shyambabu daughter of Vijaysingh resident of Chawali Tehsil Agra
				286	Private	Abadi Town Area	0.092	Sahukarsingh, Malkhansingh, Gulabsingh S/o Poolsingh, Devisingh S/o Mohansingh Banwari, Karansingh S/o Roopsingh, Babu, Deepa S/o Juagla resident of village itself
				221	Private	Agricultural	0.029	Mathuraprasad, Bankey Bihari S/o Prabhoodayal, Jagdish Prasad, Trilokinath, Naradkumar S/o Baboolal resident of village itself
				474	Private	Agricultural	0.010	Durjan, Fauran, Raghunath, S/o Lotan resident of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				284	Private	Abadi Town Area	0.002	Bhekamsingh Alais Jagdishprasad S/o Ramnarayan resident of village of itself
				283	Private	Abadi Town Area	0.052	Harisingh, Jagdish S/o Lehore Alias Chiddha, Rajveersingh, Udayveersingh, Hazarilal S/o Neksia resident of village itself
						Total	4.715	Hactares
			5. Bag Kalan	51/1	Private	Abadi	0.001	Netrapalsingh S/o Pyarelal, Aneksingh, Naresh Kumar, Dinesh Kumar, Virendrasingh S/o Toransingh, Ramwati Devi W/o Toransingh, Govindsingh S/o Bhanwarsingh resident of village Abhuapura
				52/2	Private	Abadi	0.023	Netrapalsingh S/o Pyarelal, Aneksingh, Naresh Kumar, Dinesh Kumar, Virendrasingh S/o Toransingh, Ramwati Devi W/o Toransingh, Govindsingh S/o Bhanwarsingh resident of village Abhuapura
				53/1	Private	Abadi	0.166	Netrapalsingh S/o Pyarelal, Aneksingh, Naresh Kumar, Dinesh Kumar, Virendrasingh S/o Toransingh, Ramwati Devi W/o Toransingh, Govindsingh S/o Bhanwarsingh resident of village Abhuapura
				53/3	Private	Abadi	0.067	Netrapalsingh S/o Pyarelal, Aneksingh, Naresh Kumar, Dinesh Kumar, Virendrasingh S/o Toransingh, Ramwati Devi W/o Toransingh, Govindsingh S/o Bhanwarsingh resident of village Abhuapura
				58	Private	Abadi	0.286	Usman Ahamed S/o Jhamman, Rasid Aehmad S/o Jhaboo, Kadir, Raiesh, Farid Alias Munna S/o Bakrida resident of Kiraoli
								Shyamadevi daughter of Badansingh resident of Kiraoli
								Rajendrasingh, Thansingh, Bharatsingh S/o Hukumsingh resident of Abhuapura, Baboolal S/o Shivalal, Ajit, Alimudeen S/o Amir Bhaksh, Smt. Bhudevi W/o Bhojraj, Sarif S/o Munshi resident of Kiraoli, Yougendrasingh S/o Vijendrasingh resident of Nagla Sheyoram Majra of Barua, Haribhansingh S/o Hukumsingh resident of Nagla Sheyoram Mazra of Barua

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				39	Private	Abadi	0.250	Dwarika Prasad , Dharamveer, Lakhsansingh, Raju S/o Gordhansingh, Rakesh minor age 17 years S/o Gordhansingh in the guardianship of Shantidevi resident of village itself
								Vimladevi W/o Rameshchand, resident of Raibha, Smt. Bhudevi W/o Bhojraj resident of Kiraoli
				73/1	Private	Abadi	0.012	Rajendra Prasad S/o Rameshwar Prasad , Rafikul S/o Munshi, Harikishan, Tarunkumar S/o Rameshchandra Urmiladevi W/o Rameshchandra resident of Kiraoli
				74/1	Private	Abadi	0.035	Vinod Kumar S/o Kishanprasad , Ambaprasad , and Maheshchandra S/o Shyamal resident of Kiraoli, Johri S/o Guljari, Satishchand, Rajkumar S/o Jawharlal , Shiladevi W/o Jawharlal resident of village itself
				71	Private	Abadi	0.014	Rajendra Prasad S/o Rameshwar Prasad , Rafikul S/o Munshi Harikishan, Tarunkumar S/o Rameshchandra Urmiladevi W/o Rameshchandra resident of Kiraoli
								Samila Chetram S/o Bhikki resident of village itself, Toransingh, Rasalsingh S/o Moharsingh resident of Karahara
				72	Private	Abadi	0.049	Rajendra Prasad S/o Rameshwar Prasad , Rafikul S/o Munshi , Harikishan, Tarunkumar S/o Rameshchandra Urmiladevi W/o Rameshchandra resident of Kiraoli
								Rameshchand, Nirottam Chand, Subhashchand, Maheshchandra, Mohanmurari, Laxminarayan S/o Baijnath resident of Kiraoli, Laxmanprasad adopted son of Hariprasad resident of Kiraoli
				92	Private	Abadi	0.131	Rishi Kumar Alias Parsottam, Brijkishore S/o Bhoopsingh, Harvilas, Amarchand S/o Achannalal resident of Kiraoli
				76	Private	Abadi	0.137	Harendrasingh, Jagvirsingh S/o Gopalisingh-resident of Abhayodopura , Veerpalsingh adults , Dharamveer Singh minor age 16 years in the guardianship of Manjudevi mother herself S/o Chandraversingh, Smt Manjudevi W/o Late Chandraversingh resident of Abhayodopura, Rajveersingh, Mahendra Singh S/o Sovaransingh, Mohansingh S/o Hrasingh , Sureshchand S/o Doongarsingh, Fatehsingh S/o Sohansingh resident of Abhayodopura

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				90	Private	Abadi	0.046	Gopal Prasad S/o Soni resident of Abhayodopura
						Total	1.217	Hactares
			6. Puramana	392/1	Private	Town Area / Abadi	0.139	Mohanlal, Gireshchand S/o Babulal, Harinarayan, Charansingh, Parsottam, S/o Vijendrasingh and Barfidevi W/o Late Vijendrasingh, Pooranchand, Khoobchand, Kanchansingh S/o Angad Resident of Bhagwanpura
				393/1	Private	Town Area / Abadi	0.048	Vijendra S/o Gordhana resident of Bhawanpura, Mazra of village itself
				394/1	Private	Town Area / Abadi	0.068	Horilal, Rakesh Kumar, Dinesh Kumar S/o Udaisingh, Mukesh Kumar S/o Rambabu, Mahadevi W/o late Rambabu resident of Bhawanpura, Premchand, Omprakash S/o Shri Chand resident of Bamanpura, Mazra of village itself
				376	Private	Town Area / Abadi	0.008	Gopal Prasad, Kailashi, Laxman, Vijay Kumar S/o Basantlal, Vinodkumar, Satishchand, Rajesh Kumar, Ajaykumar S/o Surajbhan resident of Kiraoli
				375/1	Private	Town Area / Abadi	0.162	Gopal Prasad, Kailashi, Laxman, Vijay Kumar S/o Basantlal, Vinodkumar, Satishchand, Rajesh Kumar, Ajaykumar S/o Surajbhan resident of Kiraoli
				367	Private	Town Area	0.051	Abadi
				377	Private	Town Area / Abadi	0.011	Gopal Prasad, Kailashi, Laxman, Vijay Kumar S/o Basantlal, Vinodkumar, Satishchand, Rajesh Kumar, Ajaykumar S/o Surajbhan resident of Kiraoli
				390	Private	Town Area / Abadi	0.080	Gulabsingh, Keshavchand, Muralilal S/o Jotiram, Phoolsingh S/o Hemraj resident of Bhawanpura, Mazra of village itself
				406	Private	Town Area / Abadi	0.030	Gopal S/o Soniram resident of Abhayodopura
				379/1	Private	Town Area / Abadi	0.132	Gulabsingh, Keshavchand, Muralilal S/o Jotiram, Phoolsingh S/o Hemraj resident of Bhawanpura, Mazra of village of itself
				391/1	Private	Town Area / Abadi	0.148	Gulabsingh, Keshavchand, Muralilal S/o Jotiram, Phoolsingh S/o Hemraj resident of Bhawanpura, Mazra of village of itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						Total		Hectares
			7	260	Private	Agricultural	0.984	Pursottam Alias Rishi, Brijkishore S/o Bhupsingh, Handilas, Amarchand S/o Achhantal resident of Kiraoli
				310	Private	Agricultural	0.240	Ashok Kumar S/o Nand Kishore resident of Transport Nagar, Agra, Vijendrasingh S/o Gordhansingh resident of Vamanpura Mazra of Puramana
				314	Private	Abadi	0.192	Gulabsingh, Keshavdev, Muralilal S/o Jotram resident of Vamanpura Mazra of Puramana Phoolsingh S/o Hemlal resident of Vamanpura Mazra of Puramana Gulabsingh, Keshavdev, Muralilal S/o Jotram, Phoolsingh S/o Hemlal resident of Vamanpura Mazra of Puramana
				316	Private	Agricultural	0.488	Sonu minor, Ashish minor age 17 and 13 years respectively S/o Bhagwansingh in the guardianship of Bebi mother her self, Smt. Bebi W/o Bhagwansingh, Maheshchand, Nareshchand S/o Bhogiram resident of Vamanpura Mazra of Puramana Santram, Parmanand S/o Murlilal resident of village Vamanpura mazra of Puramana, Mohansingh S/o Ramsaran resident of Vamanpura, Vishamber Dayal S/o Kunjilal resident of 16, A Prabhunagar, Agra
				317	Private	Agricultural	0.088	Bhagwansingh, Badansingh S/o Harchand, Pooransingh Mevsingh, Rajveersingh, Ramveersingh S/o Fauransingh, Phoolsingh S/o Mangalsingh resident of village itself
				319	Private	Agricultural	0.146	Smt. Triveni W/o Fauransingh, Pooransingh S/o Ramsingh, resident of village Vijendrasingh S/o Goardhansingh resident of Vamanpura Mazra of Puramana Sakatua S/o Hubblal, Ramprakash, Devendra, Rajveer S/o Jagdish resident of Vamanpura, Smt. Triveni Devi W/o Phoolsingh resident of Abhayodopura, Kishansingh S/o Buddha resident of Vamampura Dwarikaprasad S/o Sarwanlal resident of Vamanpura Badriprasad, Liladhar, Kedarnath S/o Babulal, Amit Kumar S/o Lakhansingh resident of Vamanpura

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				324	Private	Agricultural	0.057	Randhirsingh, Mahendrasingh, and Rajendrasingh S/o Maniram alias Padamsingh Smt. Atarkauri widow of Bhagwansingh resident of village itself
				329	Private	Agricultural	0.123	Jagvirsingh, Dharmendrasingh S/o Hukamsingh Omprakash S/o Medu resident of Repura Jat District. Mathura, Raghunathsingh S/o Gulabsingh resident of Udera Tehsil Kiroli, Shri Chandra Verma S/o Babulal resident of Albatia Tehsil & District. Agra, Bhudevsingh S/o Ramjilal resident of village itself, Subedar Shivsingh S/o Ramsingh resident of Abhayodopura present resident of Kiroali Smt. Saroj Devi W/o Mohansingh resident of Vidyanagar Nagla Padi Agra
				333	Private	Agricultural	0.082	Rajaram, Khaniya S/o Bholu, Khema S/o Tirtha resident of village itself, Smt Devi W/o Totaram resident of Puramana, Bhupsingh S/o Dharamsingh resident of Basaiya Jotram Smt Saroj Devi W/o Mohansingh resident of Vidyanagar Nagla Padi, Agra, Smt Lalit Kumari W/o Ravindra Kumar resident of Puramana present residence Kiroali town
				334	Private	Agricultural	0.200	Smt. Saroj Devi W/o Mohansingh resident of Vidyanagar Nagla Padi, Agra, Rajaram, Khaniya S/o Bholu, Bhudevsingh S/o Ramjilal resident of village itself
				335	Private	Agricultural	0.094	Rameshchandra, Sureshchandra, Baldevsingh, Bhudevsingh S/o Ramjilal, Maheshchand, Gambhirsingh, Kamalsingh S/o Mahavirsingh resident of village itself
				247	Private	Agricultural / Abadi	0.011	Thakur Ji Ramchandra Ji Maharaj caretaker, Lalitharayan S/o Omprakash, Umashanker S/o Omprakash, Arvind, Arun, Akhil, Rajeev, Vivek S/o Bhudev, Ramesh Kumar S/o Sitaram resident of village itself
				258	Private	Agricultural	0.034	Thakur Ji Ramchandra Ji Maharaj caretaker, Lalitharayan S/o Omprakash, Umashanker S/o Omprakash, Arvind, Arun, Akhil, Rajeev, Vivek S/o Bhudev, Ramesh Kumar S/o Sitaram resident of village itself
				259	Private	Agricultural	0.017	Shri Bankey Bihari ji Maharaj caretaker Rajendra Prasad S/o Girrajkishore, Kamlo S/o Girrajkishore resident of Kiroali
						Total	2.756	Hactares

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			8. Vidyapur	134	Private	Agricultural	1.163	Herprasad S/o Nathilal, Late widow of Subashchnd, Urmiladevi W/o Jagannath, Shiladevi W/o Bachhusingh, Kamleshkumar S/o Ramjilal, Subhash adopted son of Babulal, Ramjilal S/o Gyaprasad, Sunitadevi W/o Anil kumar, Pistadevi W/o Kedarnath, Hazi Rahish, Nanne S/o Chaand Khan, Ujer S/o Jahid Husain, Hanif S/o Kalua, Samir alias Galib Khan S/o Natthi, Mufiza Begum W/o Gabru Khan, Afzad S/o Usman, Safik Ahemad S/o Moti Khan, Savir S/o Shabbir, Ballo S/o Shyamlal, Gabroo S/o Munee Khan, Tahir Husain S/o Mehendi Husain, Rasid alias Raja S/o Maboo, Aslam S/o Alim Khan, Jawid alias Panna S/o Ali Husain, Nalem Beg S/o Wakar Raja, Mohammad Haun S/o Shabbir Khan, Rahisa Khatun W/o Kamrul Husain, Nawabuddin S/o Chiraguddin, Love Kumar Minor age 12 years S/o Subashchand in the guardianship of mother herself resident of Kiraoli, Shivram S/o Motiram resident of Nagla Brahman mazra of Dawali, Smt Anardevi W/o Ghanshyam resident of Galla Mandi Kiraoli, Renu W/o Shiv Kumar resident of Kiraoli, Indraprabha W/o Yogesh Chand, Chiraguddin, Islam, Usman, S/o Samalia Jawed alias Panna S/o Ali Husain resident of Kiraoli
				137	Private	Agricultural	0.004	Banwarilal S/o Ramesh Chand resident of Dubey colony Kiraoli, Rafikul S/o Munshi, Jabbar Ahmad, Sultan Ahmad S/o Amrudeen resident of Mohalla Sherwan Kiraoli
				138	Private	Agricultural	0.240	Shivsingh S/o Duggo resident of village itself
				139	Private	Agricultural	0.645	Saheed, Farid, Rashid S/o Munshi Asso widow of Munshi, Mehtap S/o Nazar, Pawankumar, Sanjaykumar, Amitkumar S/o Laxmanprasad resident of Kiraoli, Sitaram S/o Bhagwansingh resident of Dehtora, Agra
				140	Private	Agricultural	0.080	Banwarilal S/o Ramesh Chand resident of Dubey colony Kiraoli, Rafikul S/o Munshi, Jabbar Ahmad, Sultan Ahmad S/o Amrudeen resident of Mohalla Sherwan Kiraoli

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				129	Private	Agricultural	0.392	Lekhansingh, Ghurelal, Bhurisingh, Sukheeram, Adalsingh S/o Ghamandisingh resident of Abhayodopura
				144	Private	Agricultural	0.023	Lalaram, Thandiram, Toransingh S/o Ramji Alias Ramjilal resident of Abhayodopura
				145	Private	Agricultural	0.611	Reh
				146	Private	Agricultural	0.562	Saheed, Sarif, Rashid, Farid S/o Munshi, Asso W/o late Munshi Mehtap S/o Nazar resident of Kiraoli
								Charansingh S/o Bali resident of Bharangpur Mazra of village itself
								Bhagwandass S/o Ramkishan resident of Nagla Bharangpur Mazra of village
								Arjun, Veerisingh, Gyansingh S/o Durgsingh resident of village itself
								Omprakash, Shyamlal, Devisingh, Ratanlal S/o Sukhee, Komal, Laxman S/o Bholaram Bhudevi W/o Late Bholaram resident of Bharangpur Mazra of village
								Narayansingh, Ramkishore S/o Vedria resident of Bharangpur Mazra of village
								Deepchand, Dharma, Bhima, Bahadur S/o Kaniya resident of Bharangpur Mazra of village
								Bhagwandass S/o Ramkishan resident of Nagla Bharangpur Mazra of village
				147	Private	Agricultural	0.561	Saheed, Sarif, Rashid, Farid, S/o Munshi, Asso widow of late Munshi Mehtap S/o Nazar, Ramswroop S/o Dangalsingh, Smt Rameshwari W/o Shankerlal, Mohan Agarwal S/o Chiddhi Agarwal resident of Kiraoli

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				148	Private	Agricultural	0.115	Ashok Kumar S/o Ramjilal resident of 53/1A Kishangarh Idgah colony, Agra
				149	Private	Agricultural	0.032	Chaturbhuj S/o Parsadilal resident of village itself
				154	Private	Agricultural	0.196	Ashok Kumar S/o Ramjilal resident of 53/1A Kishangarh Idgah colony, Agra
				153	Private	Agricultural	0.060	Rambabu, Deendayal S/o Ramlal, Omprakash, Premprakash, Gaurishanker, Rajendra Prasad S/o Sardarsingh resident of Dawli
				155	Private	Agricultural	0.096	Rambabu, Deendayal S/o Ramlal, Omprakash, Premprakash, Gaurishanker, Rajendra Prasad S/o Sardarsingh resident of Dawli
				159	Private	Agricultural	0.480	Rambabu, Deendayal S/o Ramlal, Omprakash, Premprakash, Gaurishanker, Rajendra Prasad S/o Sardarsingh resident of Dawli
				160	Private	Agricultural	0.173	Chaturbhuj S/o Parsadilal resident of village itself
				166	Private	Agricultural	0.240	Smt Prakashwati W/o Late Rameshchand, Mukesh, Rakesh, Yogesh, Naresh S/o Rameshchand resident of village itself, Madhu Agarwal W/o Vinod Agarwal resident of A-55 Saheed Nagar, Agra
				167	Private	Agricultural	0.048	Chaturbhuj S/o Parsadilal resident of village itself
				171	Private	Agricultural	0.012	Ramprakash Goyal S/o Motilal Goyal resident of House No. 68 Makanchand Plot 104, Bihar Maharastra
				170	Private	Agricultural	0.013	Vijendrasingh S/o Ramsharan resident of village itself
				172	Private	Agricultural	0.004	Ramprakash Goyal S/o Motilal Goyal resident of House No. 68 Makanchand Plot 104, Bihar Maharastra
				169	Private	Agricultural	0.461	Anil Kumar Agarwal S/o Sureshchand Agarwal resident of Kamla Nagar, Agra, Ramnaresh Goyal S/o Devicharan Goyal Builder Jamani Station Tehsil and Distt. Maharastra
				179	Private	Agricultural	0.051	Durgaprasad S/o Patiram resident of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				180	Private	Agricultural	0.231	Asantosh Chaudhry S/o Indrabhansingh Chaudhry resident of station road Dayalbagh, Agra, Smt. Mukeshkumari W/o Mordhwaj resident of Puramana
				181	Private	Agricultural	0.216	Mangli Agarwal S/o Shivcharanlal Agrawal resident of town and tehsil Kiraoli and Rahul Mittal S/o Dindayal Mittal resident of 37 A / 119 C Madhunagar Agra
				186	Private	Agricultural	0.671	Amitkumar S/o Lakhansingh resident of Bhawanpura Mazra of Puramana, Mohadeen, Saddek S/o Chutti resident of Kiraoli, Sanjaykumar, Ajaykumar S/o Motilal resident of 72 Jaipur House, Agra Amit Kumar S/o Lakhansingh resident of Bhawanpura mazra of Puramana Smt. Ramkatori W/o Pannalal resident of Sikandarpur, Jitendranath Bajpai S/o Jagdishnath Bajpai resident of Professor Colony 1/141-A Delhi gate Agra, Sanjay Kumar, Ajay Kumar S/o Motilal resident of 72 Jaipur House, Agra.
				190	Private	Agricultural	0.184	Wahid S/o Chutti resident of Kiraoli, Amitkumar S/o Lakhansingh resident of Bhawanpura mazra of Puramana, Smt Ramkatori W/o Pannalal resident of Sikandarpur, Jitendranath Bajpai S/o Jagdishnath Bajpai resident of Professor Colony 1/141A Delhi Gate, Agra Amit Kumar S/o Lakhansingh resident of Bhawanpura mazra of Puramana, Mohadeen, Sadeek Waheed S/o Chutti resident of Kiraoli
				192	Private	Agricultural	0.300	Wahid S/o Chutti resident of Kiraoli, Amitkumar S/o Lakhansingh resident of Bhawanpura mazra of Puramana, Smt Ramkatori W/o Pannalal resident of Sikandarpur, Jitendranath Bajpai S/o Jagdishnath Bajpai resident of Professor Colony 1/141A Delhi Gate, Agra
				191	Private	Agricultural	0.230	Amarsingh S/o Duggo resident of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				189	Private	Agricultural	0.144	Wahid S/o Chutti resident of Kiraoli, Amitkumar S/o Lakhansingh resident of Bhawanpura Mzara of Puramana, Smt Ramkatori W/o Pannalal resident of Sikandarpur, Jitendranath Bajpai S/o Jagdishnath Bajpai resident of Professor Colony 1/141A Delhi Gate, Agra
				193	Private	Agricultural	0.053	Wahid S/o Chutti resident of Kiraoli, Amitkumar S/o Lakhansingh resident of Bhawanpura Mzara of Puramana, Smt Ramkatori W/o Pannalal resident of Sikandarpur, Jitendranath Bajpai S/o Jagdishnath Bajpai resident of Professor Colony 1/141A Delhi Gate, Agra
						Total	8.291	Hectares
			9. Singarpur	330	Private	Agricultural	0.104	Sunil Kumar and Diwansingh Minor age 16 and 14 years respectively S/o Tejsingh in guardianship of Smt. Surajwati Mother herself resident of village itself
				331	Private	Agricultural	0.563	Shyamal alias Vedaria S/o Bundhi resident of village itself
				334	Private	Agricultural	0.222	Shanker S/o Gangaram resident of village itself
				335	Private	Agricultural	0.178	Jaswantsingh S/o Soniram resident of Malikpur
				339	Private	Agricultural	0.503	Smt. Somoti W/o Soransingh, Srimati W/o Tejsingh resident of village itself
								Naniga S/o Sukhdev resident of Nagla Tursa Khand of village
								Rambabu, Mahendrasingh, Vijaysingh, Mohansingh S/o Pati, Dharampal, Chetsingh S/o Sukhram resident of Nagla Tursa Khand of village
								Harisingh, Tejsingh S/o Patto, Ashok minor age 9 years S/o Patto in the guardianship of Smt. Ramwati mother, Smt Ramwati W/o Patto resident of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				340	Private	Agricultural	0.182	Harisingh, Tejsingh S/o Patto Ashok minor age 9 years S/o Patto in the guardianship of Smt. Ramwati mother, and Smt Ramwati W/o Patto resident of village itself
				341	Private	Agricultural	0.168	Shivcharan, Nawalsingh, Sohanlal, Muralial S/o Gopi resident of village itself
				343	Private	Agricultural	0.048	Karansingh S/o Godhansingh resident of village itself
				344	Private	Agricultural	0.148	Narayansingh, Soniram, Mansingh, Chattarsingh, Ramkishan, Banwari, Diwansingh S/o Puran Smt. Buddhan Devi widow of Puran resident of village itself
				347	Private	Agricultural	1.066	Mohansingh S/o Lalaram, Khemraj S/o Ninua resident of village itself
						Total	3.182	Hactares
			10. Korai	585	Private	Agricultural	0.740	Jalsingh, Lokman S/o Omprakash, Manoj Kumar, Bhamarsingh, Ramkishore S/o Gopi, Smt Anguri W/o Gopi, Ramjilal, Toran, Amarsingh S/o Kalayansingh resident of Nagla Umrav Khand of village itself
								Achalsingh, Gulabsingh S/o Harichand resident of village itself
								Sahkari Sangh Samiti, Kiraoli
								Ramswroop S/o Hindu resident of Kheda Khand of village
								Chandrawati W/o Khaniya resident of village itself
								Raghuveer S/o Shobharam Nagla Lodha part of village
				584	Private	Agricultural	0.004	Mohansingh, Natthilal, Rambharosi alias Tunda S/o Natthi alias Chitaria resident of village itself
								Omprakash, Laxminarayan S/o Raipuram resident of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				579	Private	Agricultural	0.185	Mohansingh, Natthilal, Rambharosi alias Tunda S/o Natthi alias Chitaria resident of village itself
				578	Private	Agricultural	0.644	Mohansingh, Natthilal, Rambharosi alias Tunda S/o Natthi alias Chitaria resident of village itself Laxminarayan S/o Raipuram resident of village itself, Promod Kumar Gupta S/o Rammurtilal Gupta resident of Mendugate, Hathras, Shrikishan Kumar Gupta S/o Late Suraj Prasad Gupta resident of B-5, Kamla Nagar Agra, Rajkumar Agarwal S/o Karorilal Agarwal resident of Chamad Gate, Hathras
				577	Private	Agricultural	0.318	Laxminarayan S/o Raipuram resident of village itself, Promod Kumar Gupta S/o Rammurtilal Gupta resident of Mendugate, Hathras, Shrikishan Kumar Gupta S/o Late Suraj Prasad Gupta resident of B-5 Kamla Nagar Agra, Rajkumar Agrawal S/o Karorilal Agarwal resident of Chamad Gate, Hathras
				572	Private	Agricultural	0.357	Smt. Vimbodevi W/o Jivatram resident of 46, Jaipur House, Agra
				573	Private	Agricultural	0.080	Azad Gramid Shakari Avas Samiti C/o Secretary Maksood Husain S/o Gulam Husain resident of 76, Saket Colony Shahganj, Agra Smt. Vimbodevi W/o Jivatram resident of 46, Jaipur House, Agra
				571	Private	Agricultural	0.518	Vinay Nagar Sahkari Griah Nirman Samiti Agra C/o chairmen Dinesh Kumar Saxena S/o Madan Lal Saxena resident of 15/139, Soron Katta Shahganj Agra Azad Gramid Shakari Avas Samiti C/o Secretary Maksood Husain S/o Gulam Husain resident of 76, Saket Colony Shahganj, Agra

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				566	Private	Agricultural	0.088	Rambharosi S/o Shivalal resident of village itself
				565	Private	Agricultural	0.300	Rambharosi S/o Shivalal, Babulal, Sunder S/o Sampatia resident of village itself Kirandevi W/o Roshanlal Bansal resident of Kiroali
				564	Private	Agricultural	0.726	Atarsingh S/o Vishamber Singh resident of Maloni Tahsil Rupwas district Dholpur, Munni Begum W/o Kallu Khan resident of Sikari-2 Hissa
				563	Private	Agricultural	0.249	Babulal S/o Govind Prasad resident of village itself
				562	Private	Agricultural	0.012	Pawan Kumar S/o Shri Niwas Tarachand S/o Rambharosi, Babulal S/o Govind Prasad resident of village itself
				560	Private	Agricultural	0.051	Santosh Kumar S/o Phulsingh, Smt Madhu widow successor W/o Rupendra Kumar, Smt Ramdulari widow successor W/o Phulsingh resident of village itself
				553	Private	Abadi	0.192	Santosh Kumar S/o Phulsingh, Smt Madhu widow successor W/o Rupendra Kumar, Smt Ramdulari widow successor W/o Phulsingh resident of village itself
				552	Gram Sabha	Harjan Abadi	0.123	Reserved for Harjan Abadi (Naveen Abadi) Pattedar
				548	Private	Abadi / Agricultural	0.040	Omprakash, Laxminarayan S/o Rainpuram, Jagannath Prasad, Raghuvirprasad S/o Girrajsingh resident of village itself
				540	Private	Agricultural	0.480	Vivek Singh, Sandeep Singh S/o Dharmendra Singh, Sharda Devi W/o Jitendrasingh, resident of village itself, Satyaprakash S/o Durgaprasad resident of Santha
				536	Private	Agricultural	0.218	Narendra Singh, Rupendrasingh, Mordhawaj S/o Shishupalsingh Smt. Bhagwan Devi W/o Late Shishupalsingh, Netrapalsingh, Rajendrasingh, Ramendrasingh, Krishandutt, Dusyantsingh, Rajkumarsingh S/o Fathesingh resident of village itself
				538	Private	Agricultural	0.029	Ramprakash S/o Raghunath singh resident of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				537	Private	Temple	0.029	Ramprakash S/o Raghunath singh resident of village itself
				523	Private	Abadi / Agricultural	0.455	Shashikant, Umakant S/o Late Naniga resident of Nagla Korai khand of village itself
				524	Private	Agricultural	0.006	Niranjansingh S/o Radheyshyam resident of Hasela, Lakhansingh S/o Shivram resident of Jajau Lovekush S/o Gangaprasad resident of village itself
				522	Private	Agricultural	0.196	Gopali S/o Ninua resident of Kheda Khand village
				519	Private	Agricultural	0.035	Lakhansingh S/o Shivsingh resident of Jajau, present resident of village itself
				518	Private	Agricultural	0.104	Lakhansingh S/o Shivsingh resident of Jajau, present resident of village itself
				516	Private	Agricultural	0.144	Roshanlal, Rameshwar, Sanju S/o Pitamsingh Smt. Bhagwan devi W/o Pitamsingh resident of village itself
				513	Private	Agricultural	0.081	Lalsingh S/o Pitamsingh, Udaysingh S/o Vedsingh resident of Santha
				514	Private	Agricultural	0.083	Pradeep Kumar S/o late Murlidhar resident of 5A-6A-1, Bodla road, Agra
				511	Private	Agricultural	0.029	Pradeep Kumar S/o late Murlidhar resident of 5A-6A-1, Bodla road, Agra
				510	Private	Agricultural	0.198	Rajeev Kumar Chauhan S/o Ramvaransingh resident of 6/6 B, Shastri Nagar, Khandri Road, Agra
				509	Private	Agricultural	0.233	Ramprakash S/o Banwari resident of Kheda Khand of village, Rajeev Kumar Chauhan S/o Ramvaransingh resident of 6/6 B, Shastri Nagar, Khandri Road, Agra

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				508	Private	Agricultural	0.032	Ramprakash S/o Banwari resident of Kheda Khand of village , Rajeev Kumar Chauhan S/o Ramvaransingh resident of 6/6 B, Shastri Nagar, Khandri Road , Agra
				507	Private	Agricultural	0.498	Ramprakash Shukla S/o Munnoram resident of Kheda Khand of village Ramphul S/o Jamuni resident of Kheda Khand of village Devendra , Ramesh Chand S/o Shival , Sureshchand, Maheshchand S/o Nandlal resident of Kheda Khand of village
				506	Private	Agricultural	0.064	Udal, Hariom S/o Bullaram resident of Kheda Khand of village
				501	Private	Agricultural	0.032	Pramod Kumar Agarwal S/o Radha Ballabh Agarwal resident of A-1 , New Agra
				499	Private	Agricultural	0.314	Smt. Ramwati Devi W/o Nityakishore daughter of Mansingh resident of Kheda Khand of village, Pramod Kumar Agrawal S/o Radhaballabh resident of A-1, New Agra.
				497	Private	Agricultural	0.181	Natthilal S/o Shobharam , Ramkishan S/o Tulsiram, Nihalsingh S/o Dataram, Ramprakash S/o Munno , Jawharlal , Nirottam, Motiram S/o Deviram resident of Kheda Khand village
				496	Private	Agricultural	0.104	Smt. Ramwati Devi W/o Nityakishore daughter of Mansingh resident of Kheda Khand of village.
				495	Private	Agricultural	0.288	Muslim S/o Shakur resident of village itself
				494	Private	Agricultural	0.200	Nitya Kishore S/o Sunderlal resident of Kheda Khand of village
				492	Private	Agricultural	0.015	Gaurishanker , Ramprakash, Satyaprakash S/o Bahoranlal , Brijlal S/o Bastiram, Menduram S/o Jawla Prasad resident of Kheda Khand of village Shri Thakurji Saligram Ji Maharaj established temple of Kheda Khand of village, Caretaker Shyamal S/o Natthilal resident of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				449	Private	Agricultural	0.185	Bullaram S/o Daulatram resident of Kheda Khand of village
				451	Private	Agricultural	0.432	Vivek Singh, Sandeep Singh alias Chotu S/o Dharmendra Singh resident of village itself
				472	Private	Agricultural	0.461	Shyambabu, Rambabu S/o Ramsharan, Avilash, Neeraj S/o Rameshchand resident of village itself
				452/1	Private	Agricultural	0.391	Bullaram S/o Daulatram resident of Kheda Khand of village
				581	Private	Agricultural	0.005	Sahkari Sangh Samiti, Kiraoli
				473	Private	Agricultural	0.008	Dharmendra Singh S/o Shayambabu resident of village itself
				474	Private	Agricultural	0.276	Anek Singh S/o Bhagwan Singh resident of Santha
				475	Private	Agricultural	0.207	Shyambabu, Rambabu S/o Ramsharan, Avilash, Neeraj S/o Rameshchand resident of village itself
				477	Private	Agricultural	0.048	Dharmendra Singh, Pravendra Singh S/o Shayambabu resident of village itself
				479	Private	Agricultural	0.198	Dharmendra Singh S/o Shayambabu resident of village itself
								Ramesh Chand, S/o Natthi, Smt Rambeti W/o Ramesh resident of village itself
				480	Private	Agricultural	0.186	Dharmendra Singh S/o Shyambabu resident of village itself
				482	Private	Agricultural	0.529	Vivek Singh, Sandeep Singh alias Chotu S/o Dharmendra Singh resident of village itself
								Santosh S/o Madanlal resident of village itself
				567	Private	Agricultural	0.128	Yogendra Kumar, Mukesh Kumar S/o Jagdish Prasad, Amit, Sumit minor age 15 and 12 years respectively in the guardianship of Smt. Sudha Mother herself S/o Ashok Kumar and Smt. Sudha W/o Ashok Kumar
				251	Private	Abadi / Agricultural	0.055	Smt Ratan Kumri alias Gombi widow successor W/o Nathnasingh resident of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				254	Private	Agricultural	0.046	Vinod S/o Mathura resident of Malikpur
				258	Private	Agricultural	0.081	Deviprasad, Murari Lal, Vinod Kumar S/o Mathura Prasad resident of Malikpur Vinod S/o Mathura resident of Malikpur
				260	Private	Agricultural	0.016	Deviprasad, Murari Lal, Vinod Kumar S/o Mathura Prasad resident of Malikpur Vinod S/o Mathura resident of Malikpur
								Shayambabu, Rambabu S/o Ramsharan, Avilash, Neeraj S/o Rameshchand resident of village itself
				503	Private	Agricultural	0.340	Natthilal S/o Shobharam, Ramkishan S/o Tulsiram, Nihalsingh S/o Dataram, Ramprakash S/o Munno, Jawharlal, Nirottam, Motiram S/o Deviram resident of Kheda Khand of village
				253	Private	Agricultural	0.067	Vijaysingh S/o Mansingh resident of Nagla Gujra mazra of Midakur tehsil, Agra, Manoj Kumar S/o Janaksingh resident of Santha, Ratankumri alias Gomti Widow successor of Natthasingh, Jagdish Singh Adopted son of Narayan Singh, Narendra Singh, Rupendra Singh, Mordwaj S/o Shishupal Singh Smt. Bhagwan Dai W/o Shishupal Singh, Netrapalsingh, Rajendra Singh, Ramendra Singh, Kirshan Dutt, Dusyant-Singh, Rajkumar Singh S/o Fateh Singh resident of village itself
						Total	12.334	Hactares
			11. Bharkaul	343	Private	Agricultural	0.320	Ganga Devi W/o Kunwar Singh, Kunwar Singh S/o Narayan Singh, Rajendra Singh, Kapoor Singh S/o Natholiram resident of village itself
				345	Private	Agricultural	0.320	Narendra Kumar S/o Hamarayansingh resident of village itself Mukesh Verma S/o Hamarayansingh resident of village itself Kamal Chaudhary S/o Har Narayansingh resident of village itself
				366	Private	Agricultural	0.160	Veenisingh S/o Gutiram resident of Mutbaliyan town Fathepur Sikari

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				367	Private	Agricultural	0.173	Veerisingh S/o Guttiram resident of Mutbaliyan town Fatehpur Sikari
				368	Private	Agricultural	0.173	Narayan S/o Roopchandra resident of village itself
				365	Private	Agricultural	0.115	Rajpal S/o Vishambamath, Sanjayraj, Krishnaraj S/o Ashok Kumar, Smt Vishandai W/o late Ashok Kumar resident of Fatehpur Sikari, Saudansingh S/o Maharajsingh resident of Bharkaul
				363	Private	Agricultural	0.088	Ishwari, Nemichandra S/o Bhagwan Singh, Chandan Singh S/o Thakuri, Narayan Singh, Devicharan S/o Ramkhilari resident of Kachpura mazra of village itself
				370	Private	Agricultural	0.086	Ishwari, Nemichandra S/o Bhagwan Singh, Chandan Singh S/o Thakuri, Narayan Singh, Devicharan S/o Ramkhilari resident of Kachpura mazra of village itself
				371	Private	Agricultural	0.146	Bhimsen S/o Manhota, Moolchand, Khilisingh S/o Hemraj resident of village Kachpura mazra of village itself
				369	Private	Agricultural	0.553	Sanjayraj, Krishnaraj S/o Ashok Kumar, Smt. Vishandae W/o late Ashok Kumar, Rajmal S/o Vishambarnath resident of Mutbaliyan town Fatehpur Sikari
				380	Private	Agricultural	0.656	Tejendrapal Singh S/o Babulal resident of village itself, Puspendrasingh Solanki S/o Raghupatisingh resident of Gopalgarh, Bharatpur Smt Kamlesh W/o Rajpalsingh and Smt Sunita W/o Rampalsingh resident of Kachpura mauza of Bharkaul
								Yashendrapal Singh S/o Babulal resident of village itself
								Harendrapal Singh S/o Babulal resident of village itself, Puspendra Singh Solanki S/o Raghupati Singh resident of Gopalgarh, Bharatpur, Smt Veena Chonker W/o Suvir Chonker resident of Katra Bharatpur, Rajasthan
								Herendrapalsingh S/o Babulal resident of village itself, Naunihal Singh S/o Pyeralal Ranjeetsingh S/o Gokulsingh resident of teachers colony, Fatehpur Sikari, Girdharilal S/o Niranjani, Vishnu Kumar S/o Surajbhan resident of Fatehpur Sikari

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				531	Private	Agricultural	0.291	Jaswant Singh S/o Tursiram resident of Bharkaul, Gordhan Singh S/o Parsadi resident of Jajau, tehsil Kiraoli, Vijaykumar S/o Chetari Lal resident of Station Road Fathepur Sikari, Subodh Kumar S/o Buddharam resident of Aerhera tehsil Kiraoli, Sitaram S/o Dungarsingh, Nawal Singh S/o Kishansingh resident of Udera tehsil Kiraoli, Madharsingh S/o Amarsingh resident of Chauma Shahpur tehsil Kiraoli, Pitamsingh, Lubhit Kumar, Roshan, Bhurisingh S/o Dayaram resident of Kachpura mauza of Bharkaul, Omparakash, Mansingh, Deepchand, Virendra, Munesh Kumar minor age 16 years guardian father himself S/o Girrajsingh, Pitamsingh S/o Thana, Smt. Goma widow of Thana, Smt Safedi W/o Horilal resident of Kachpura mauza of Bharkaul Kiraoli, Khilender (Mook-Badhir) S/o Kishansingh, Surendrasingh, Ravendrasingh, Indrajeetsingh, Eshandrakumar S/o Shri Mahendrasingh resident of Bharkaul tehsil Kiraoli Iaita W/o Madharsingh resident of Fatehpur Sikari Navabsingh S/o Shivcharan resident of Garhmukha tehsil Kheragath
				533	Private	Agricultural	0.127	Khilender (Mook-Badhir) S/o Kishansingh, Ishwariprasad, Nemichand S/o Bhagwansingh resident of Kachpura mazra of village, Ikbal Husain, Jakir Husain, Anwar Khan S/o Farman Husain resident of Bharati Gali, Fathepur Sikari
				529	Private	Agricultural	0.274	Pushpendrasingh, Jhamendrasingh S/o Sarnamsingh, Jaipalsingh, Jagvirsingh minor age 16 and 10 years respectively S/o Sarnamsingh guardian father himself Sarnamsingh S/o Tejpal Singh resident of village itself, Ishwari, Nemichand S/o Bhagwansingh, Chandansingh S/o Thakuri, Moolchand, Khillisingh S/o Hemraj resident of Kachpura mazra of village
				364	Private	Agricultural	0.077	Sanjayraj, Krishanraj S/o Ashok Kumar & Vishandai W/o late Ashok Kumar, Rajmal Agarwal S/o Vishambarnath resident of Mohhala Mutbaliyan town fathepur sikari
				532	Private	Agricultural	0.104	Jaswantsingh S/o Tursi resident of village itself
						Total	3.663	Hactares

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			12 Mandigur	564	Private	Agricultural	0.259	Banwarilal, Ganga Prasad Adult, Rajveer Singh minor age 14 years S/o Hukam Singh guardian Smt. Kanchan Devi mother herself, Kanchan Devi W/o late Hukamsingh, Amarsingh, Durgsingh S/o Shukhi Alias Sukhi resident of village itself
				563	Private	Agricultural	0.148	Amar Singh S/o Shukhiram Durgsingh S/o Shukheram resident of village itself
				562	Private	Agricultural	0.222	Banwarilal, Ganga Prasad Adult, Rajveer Singh minor age 14 years S/o Hukam Singh guardian Smt. Kanchan Devi mother herself, Kanchan Devi wife of late Hukam Singh resident of village itself
				557	Private	Abadi	0.218	Smt. Sushma Devi W/o Pursottam Das resident of Gali Halfjan Fathepur Sikari
				556	Private	Abadi	0.046	Smt. Mamta W/o Subash Chand, Smt. Nisha W/o Suresh Chand resident of M. G. Road Subash Park Agra
				555	Private	Agricultural	0.178	Nihalsingh S/o Teja, Ghure S/o Kalua resident of village itself, Kushal Singh, Ujjwal Singh S/o Sabal Singh resident of Undera, Jagdishsingh, Raghuveersingh S/o Shivlal resident of village itself
				552	Private	Agricultural	0.067	Rajeev S/o Omprakash resident of village itself
				553	Private	Agricultural	0.040	Pranveersingh, Ramveersingh S/o Jagdishprasad, Smt. Hardevi widow Successor W/o Rambabu, Sushilkumar, Girishkumar, Promodkumar S/o Rambabu resident of village itself
				551	Private	Agricultural	0.370	Smt. Anita W/o Ashok Khetarpal resident of 16, Gopal Kunj Bypass Road, Agra, Poonam W/o Sachin resident of Siddhartha Complex Agra
				546	Private	Agricultural / Abadi	0.275	Rajesh Agrawal, Govind Agrawal S/o Muralilal resident of Kazi Gali Fathepur Sikari, Jamidarsingh, Prithviraj, Laxmansingh S/o Deepa resident of village itself
				547	Private	Agricultural	0.166	Shri Thakur Saligram Ji Maharaj caretaker Sambhunath S/o Srinath resident of village itself, Sushil Kumar, Girish Kumar, Pramod Kumar S/o Rambabu resident of Mohhala Satpara, Mathura
				548	Private	Non Agricultural	0.133	Girirajsingh S/o Chattarsingh, Niranjan S/o Joraver resident of Bharkaul, Chandrasingh, Humamsingh, Vijendrasingh, Yadramsingh S/o Kamlasingh, Kalawati widow of Kamlasingh resident of Surothi Rajasthan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				134	Private	Abadi	0.154	Bahadursingh S/o Mansingh resident of village itself
				133	Private	Agricultural	0.206	Jagdhisingh, Raghuveersingh S/o Shivlal resident of village itself
				132	Private	Abadi	0.100	Smt Lalita Devi W/o Veerisingh resident of Jajau Fauransingh S/o Ramsharan resident of village itself
				127	Private	Abadi	0.172	Ravindra Singh S/o Veerisingh resident of Mohhala Mut Baliyan Fathepur Sikari
				125	Private	Agricultural	0.023	Mihilal S/o Sobharam resident of Sikari -2 Hissa
				126	Private	Abadi	0.854	Maheshchand S/o Bhagwat Prasad, Rajeev Kumar S/o Mahesh Chand Rajkumar S/o Daudayal resident of Fathepur Sikari
				93	Private	Agricultural	0.008	Maheshchand S/o Bhagwat Prasad, Rajeev Kumar S/o Mahesh Chand Rajkumar S/o Daudayal resident of Fathepur Sikari
				123	Private	Abadi	0.182	Gulla, Handu S/o Chiddha, Babulal S/o Panchiya Chairman of Patthar Truck Transport Association Board Fathepur Sikari resident of Gorapara Fatehpur Sikari itself
				118	Private	Agricultural	0.008	Gulla, Handu S/o Chiddha resident of village itself
				115	Private	Abadi	0.140	Kedarnath S/o Tuhiram, Smt Samanti W/o Natthi resident of village itself, Komalsingh, Sureshsingh alias Baniya, Shankerlal S/o Baburam, Smt Premwati W/o late Baburam resident of Chauraha Gur Ki Mandi
				114	Private	Agricultural	0.152	Smt. Asarfi widow of Sukkhi resident of village itself
								Smt Shila Devi W/o Ramesh Chand, resident of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				45/1	Private	Agricultural	0.208	Bhagwat Prasad, Daidayal S/o Badriprasad, Mukesh Kumar S/o Natthilal, Brijkishore S/o Kishanlal, Muralilal S/o Roshanlal, Sunil Kumar S/o Ramkishan resident of Fathepur Sikari, Manikchand, Khemchand S/o Dawrika Prasad resident of Jajau, Vijay Kumar S/o Ramcharan Lal, Birj Mohan S/o Vipatiram, Ashok Kumar S/o Govind Ram resident of Main Bazar Fathepur Sikari itself
				37/1	Private	Abadi	0.060	Gupal, Sallo, Ramesh S/o Bholeram, Viri S/o Matoli resident of Sikari -2 Hissa
				36	Private	Abadi	0.128	Ramdas S/o Bastiram, Saranlal S/o Dawrika Prasad, Omprakash S/o Moolchand, Shivshanker, Manish Kumar S/o Vijay Kumar resident of Fathepur Sikari
				33	Private	Abadi	0.029	Raghunath S/o Maherchand resident of Sikari -2 Hissa
				34	Private	Abadi	0.018	Banwari Lal, Vedprakash S/o Angoori, Smt Bhawani daughter of Late Angoori, Dauji, Devka, Sunder, Ramkishan S/o Tunda resident of Sikari -2 Hissa
				35	Private	Abadi	0.029	Raghunath S/o Maherchand resident of Sikari -2 Hissa
				25	Private	Agricultural / Abadi	0.521	Ghanshyam Sharma S/o Khubchand, Govind Prasad S/o Mangelal resident of Bypass Road, Fathepur Sikari
				7	Private	Abadi	0.092	Devika, Shivcharan, Bhopali S/o Dwasi, Chandan, Papoo, Gitam S/o Sukhran, Pooransingh, Premsingh S/o Parmoli Bhaggo widow of Parmoli Sasua, Munnalal, Hanumansingh, Baniya, Hotilal, Lakhansingh S/o Baula Angooridevi W/o Late Baula resident of Sikari-2 Hissa
				6	Private	Abadi	0.298	Rajesh Kumar, Jewan Kumar S/o Vjendra Prasad, Amit Kumar S/o Ajit Kuamr, Suman widow of Ajit Kumar resident of village itself
				131	Private	Agricultural	0.048	Jagdhisingsh, Raghuvuversingh S/o Shivilal resident of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				140	Private	Agricultural	0.22	Pawan minor age 16 years S/o Surajbhan guardian Smt Vijjo Devi mother herself , Jaiprakash, Sanjaykumar S/o Mitthantial resident of village itself Ashok, Mukesh, Rajababu, Dasrath, Bablu, Rajendra S/o Mangi resident of village itself Bramhlal S/o Vederya resident of village itself Ramsingh S/o Bhawani resident of Undera present resident of Mandigur tehsil Kiraoli
				141	Private	Agricultural	0.023	Vidha S/o Sunka resident of village itself
				143	Private	Abadi Agricultural	0.210	Harisingh S/o Hira Lal resident of Sikari-2 Hissa itself
				144	Private	Abadi	0.173	Lokansingh Minor 13 years, Nawal Kishore Minor age 11 years, Rajesh Kumar Minor age 10 years , Brijesh Kumar Minor age 6 years S/o.Hukamsingh guardian Chadrawati mother herself resident of village itself
				145	Private	Abadi	0.170	Badansingh S/o Birbal resident of Jajau , Murari Lal S/o Dataram resident of Fathepur Sikari
				148	Private	Abadi	0.360	Mawasi S/o Ramprasad resident of Sikari-2 Hissa , Shyam Sunder , Rakesh Kumar S/o Daudayal resident of Main Bazar Fathepur Sikari
				151	Private	Abadi	0.029	Ramakant , Umakant, Naresh Kumar, Yadvendra S/o Mahaveer resident of Sikari -2 Hissa
				157	Private	Abadi	0.120	Kailashchand, Hiralal S/o Babulal , Smt Shantidevi W/o Deviprasad, Mohansingh, Premilal S/o Natthi, Hirasial S/o Buddha, Smt Chameli W/o Buddha resident of Daulatabad Mohammad Husain S/o Hazi Vlayat Husain resident of 22/29, Kazi Gali , Chatta Bazar , Agra

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				158	Private	Abadi	0.124	Mohammad Husain S/o Hazi Vilayat Husain resident of 22/29, Kazi Gali, Chatta Bazar, Agra, Udalsingh S/o Nirbhaysingh resident of Pali Kiraoli
				161	Private	Abadi	0.064	Rajesh Kumar, Jewan Kumar S/o Vijendra Prasad, Amit Kumar S/o Ajit Kumar, Suman widow of Ajit Kumar resident of village itself
				94	Private	Girls Inter College	0.032	Vankhandi Mahadev Girls College Prabhand Samiti
				130	Private	Agricultural	0.048	Jagdhisingh, Raghuveersingh S/o Shivlal resident of village itself
				9	Private	Agricultural / Abadi	0.287	Vazid Ali Shah S/o Jumma, Mohammad Sharif, Mohammad Aslam, Ashraf Ali, Mohammad Ali, Azad Khan S/o Khalil Khan, Rameshchand S/o Manohar Lal, Smt Hemlata W/o Rameshchand resident of Kiraloi, Shivprasad S/o Ramprasad resident of Mandi Mirza Khan, Promod Kumar S/o Rajendra Kumar, Lakhansingh S/o Vishamber resident of Sikari - 4 Hissa, Laxman Prasad S/o Kahniya Lal resident of Jajau
				23	Private	Agricultural	0.102	Vazid Ali Shah S/o Jumma, Mohammad Sharif, Mohammad Aslam, Ashraf Ali, Mohammad Ali, Azad Khan S/o Khalil Khan, Rameshchand S/o Manohar Lal, Smt Hemlata W/o Rameshchand resident of Kiraloi, Shivprasad S/o Ramprasad resident of Mandi Mirza Khan, Promod Kumar S/o Rajendra Kumar, Lakhansingh S/o Vishamber resident of Sikari - 4 Hissa, Laxman Prasad S/o Kahniya Lal resident of Jajau
				31	Private	Agricultural	0.010	Kalika Prasad, Kalishi S/o Sukhhi, Hetram minor age 9 years S/o Nemichand guardian Mohar Shri resident of Sikari - 2 Hissa
				32	Private	Abadi	0.045	Raghunath Kharbanda S/o Maharchand resident to Bypass Mod Fathepur Sikari itself
				4	Private	Abadi	0.012	Kehari S/o Bhikhu resident of Sikari - 2 Hissa
						Total	7.584	Hactares

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			13. Sikari-2 Hissa	569	Private	Agricultural	0.109	Banwarilal, Vedprakash S/o Ramsingh, Smt. Bhawani Devi W/o Ramsingh, Smt Kalawati W/o Babulal Smt Nathodevi W/o Sitaram resident of village itself, Gopalsingh S/o Kamalsingh resident of Basari Kazi
				566	Private	Agricultural	0.090	Banwarilal, Vedprakash S/o Ramsingh, Smt. Bhawani Devi W/o Ramsingh, Smt Kalawati W/o Babulal Smt Nathodevi W/o Sitaram resident of village itself, Gopalsingh S/o Kamalsingh resident of Basari Kazi
				564	Private	Agricultural	0.012	Balkrishan S/o Brijbihari resident of Sikari -4 Hissa
				563	Private	Agricultural	0.012	Balkrishan S/o Brijbihari resident of Sikari -4 Hissa
				561	Private	Agricultural	0.371	Kishansawroop S/o Bastram resident of Saraipuktha, Ajaykumar S/o Shivram resident of Santoshnagar, Dineshkumar S/o Kailashchand, Himmatsingh S/o Shivsingh resident of Agragate, Devendrasingh, Dharmendrasingh S/o Rankunwar resident of Basari Kazi, Balkrishan S/o Brijbihari, Rahmathan S/o Jummakhan, resident of Sikari-4 Hissa
				698	Gram Sabha	Abadi	0.054	Abadi
				660	Private	Abadi	0.060	Shabberhusain, Hamidhusain, Shakilahamed, Kamilhusain, Zahidkhan, Abidali S/o Hazibundukhan resident of Sikari-4 Hissa, Bharatsingh, Patiram, Nawalsingh S/o Dauji resident of village itself
				672	Private	Agricultural	0.016	Shabberhusain, Hamidhusain, Shakilahamed, Kamilhusain, Zahidkhan, Abidali S/o Hazibundukhan resident of Sikari-4 Hissa, Patiram, Nawalsingh S/o Dauji resident of village itself
				673	Private	Agricultural	0.030	Shabberhusain, Hamidhusain, Shakilahamed, Kamilhusain, Zahidkhan, Abidali S/o Hazibundukhan resident of Sikari-4 Hissa, Tejsingh, Jawali S/o Summera resident of village itself
						Total	0.754	Hactares
			14. Sikari-4 Hissa	885	Private	Agricultural	0.032	Mohansingh S/o Bhanwar Singh resident of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				884	Private	Agricultural	0.035	Smt. Virma Devi W/o Nekram resident of village itself, Rajendra Prasad S/o Harishanker resident of Fathepur Sikari, Smt Resham Devi W/o Shyam Lal resident of village itself
				882	Private	Agricultural	0.016	Smt Virma Devi W/o Nekram resident of village itself
				880	Private	Agricultural / Abadi	0.002	Nekram S/o Sukhee resident of village itself
				714	Private	Agricultural	0.136	Smt. Bhagwande W/o Narayansingh resident of village itself
				754/2	Private	Agricultural	0.115	Siyaram S/o Sahab Singh, Ulfat S/o Mohan Singh, Amrudeen S/o Ismaile, Darab Singh S/o Lekraj, Veersingh S/o Tarachand, Sobaransingh S/o Sabalsingh, Atarsingh S/o Gangaram resident of village itself
				722	Private	Agricultural	0.320	Bhanwar Singh S/o Kesaria resident of village itself, Mohan Singh S/o Wala resident of Sikari-4 Hissa
				752	Private	Agricultural	0.088	Lehore S/o Khubi, Bhimchand S/o Hiralal, Urmiladevi W/o Govind Singh resident of village itself, Rajendra Singh, Malsingh S/o Tejsingh resident of Nazirpura, Lochan S/o Charansingh, Chandansingh S/o Parbhati, Mohammad Ilyas S/o Rehmattullah, Munnaber Husain S/o Anwar Khan, Bhoop Singh S/o Dayachand, Tularam S/o Horalal resident of village itself
				724	Private	Agricultural	0.240	Ranjilal S/o Bhoder resident of village itself
				732	Private	Agricultural	0.040	Babu S/o Megha resident of village itself
				733	Private	Agricultural	0.215	Lachho S/o Megha resident of village itself
								Shyam S/o Megha resident of village itself
								Mohammad Muvin, Mazar Makhdoom Shah S/o Mohammad Saddik resident of village itself
								Smt. Ramija Widow of Salim resident of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				694	Private	Bunker Centre / Non Agricultural Ambedkar Park	0.320	Bunker Centre Dr. Bhimrao Ambedkar Park
				1011	Private	Agricultural	0.369	Jugendra Singh S/o Vipitram resident of village itself
				1001	Private	Agricultural	0.501	Prem Singh, Hukam Singh, Sobran, Keshav Singh, Dhara Singh S/o Ramjilal resident of village itself Mohan Singh S/o Bhanwer Singh resident of village itself
						Total	2.429	Hactares
			15. Rasoolpur Kiraoli	128	Private	Agricultural	0.150	Bhagwan Singh, Kishun Singh S/o Ganpati, Vidyaram, Kalua, Nanigchand, Chandrabhan, Lahore S/o Natthi resident of Kukawar Tehsil Kheragarh Distt Agra, Srigopal, Ramsingh S/o Dhanpal, Ramcharan, Naharsingh S/o Ramsingh, Chironja W/o Ramsingh, Pintu, Balvir, minor age 4 and 1 years respectively guardian Srimati Devi Motir herself S/o Gulabsingh, Srimati Devi W/o Gulabsingh resident of village itself
				106	Private	Agricultural	0.310	Natthi S/o Jungli resident of village itself
				100	Private	Agricultural	0.176	Srigopal, Ramsingh S/o Dhanpal, Ramcharan, Naharsingh S/o Ramsingh, Pintu, Balvir, minor age 4 and 1 years respectively guardian Srimati Devi Motir herself S/o Gulabsingh, Srimati Devi W/o Gulabsingh resident of village itself
				101	Private	Temple	0.012	Temple
				99	Private	Agricultural	0.115	Ramsingh S/o Dhanpal resident of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				85	Private	Agricultural	0.357	Gulabsingh, Sahabsingh, Kamal Singh, Pooransingh S/o Patiram resident of village itself
				84	Private	Agricultural	0.432	Naharsingh S/o Bansi resident of village itself Gulabsingh, Sahabsingh, Kamal Singh, Pooransingh S/o Patiram resident of village itself
				83	Private	Agricultural / Abadi	0.490	Gopalsingh, Nekram S/o Karna, Bahadur Singh, Bhura minor age 17 and 15 respectively years S/o Mansingh guardian Batto Devi Mother herself, Pratapsingh, Lakhansingh, Diwansingh S/o Battu, Vasdev Adult, Bhudev minor age 10 years guardian Smt Virmati mother herself S/o Bhajanlal, Virmati W/o Bhajanlal, Ramjilal S/o Ghure resident of village itself
				45	Private	Agricultural	0.046	Madanlal, Mohansingh S/o Ramsingh resident of village itself
				47	Private	Agricultural	0.035	Vijay Pathak, Mukesh Sharma S/o Santram Sharma resident of Bhawanpura mauza of Puramana Devesh Pal Singh S/o Naunihalsingh resident of Teachers Colony Fathepur Sikari, Vedprakash S/o Chandrabhan resident of Kilikhana Fathepur Sikari, Tehsil Kiraoli Vijay Pathak, Mukesh Sharma S/o Santram Sharma resident of Bhawanpura mauza of Puramana
				44	Private	Agricultural	0.448	Yadram, Bachhusingh S/o Tikam Singh resident of village itself Tota S/o Dhaniram resident of village itself, Kailash Chand, Dinesh Chand, S/o Durilal, Smt Shantidevi W/o Durilal, Chatrapatisingh, Mukesh Kumar, Bhupendrasingh, Rajesh Kumar S/o Tejsingh and Smt Sawanti widow of Tejsingh resident of Mandi Mirza Khan

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				28	Private	Agricultural	0.420	Vijay Pathak , Mukesh Sharma S/o Santram Sharma resident of Vamanpura , Dhaniram S/o Durgpal Motiram, Baineeram S/o Late Kundana, Savitri W/o Late Kundana resident of village itself
				27	Private	Agricultural	0.576	Shivram S/o Ratna resident of village itself
				131	Private	Agricultural	0.092	Naharsingh, Laxman Singh, Ramveer, Jagmohan S/o Vanshi, Jugendra Singh S/o Faudha resident of village itself
				145	Private	Agricultural	0.238	Brij Kishore Sharma S/o Vuttanlal resident of By Pass Road Koshi Kalan, Rajveersingh S/o Bhagwansingh resident of Santosh Nagar , Herendra Singh Goyal Alias Bharat Goyal S/o Murari Lal resident of Muriya Khera, Mohamad Sharif S/o Khalil Khan resident of Sikari -2 Hissa, Amrudeen S/o Ismile resident of Sikari-4 Hissa , Ajay Kumar , Mohit Kumar , Nitin Kumar S/o Jagdish Prasad resident of Mohhala Masaya, Fathepur Sikari
				113	Private	Agricultural	0.074	Savir Alias Khunliya S/o Saikat, Amrudeen , Shajada, Nathua S/o Ismile resident of Sikari -4 Hissa
				134	Private	Agricultural	0.024	Naharsingh, Laxman, Jagmohan , Ramveer S/o Banshi resident of village itself Lila S/o Buddha resident of village itself Ramsingh S/o Dhanpal resident of village itself
				107	Private	Agricultural	0.137	Krishan Murari S/o Ratna resident of village itself
						Total	4.132	Hactares
			16. Nazirpura	208/1	Private	Agricultural	0.127	Murarilal S/o Dalu, Mahendrasingh, Kharagsingh, Harichand, Rameshwarprasad Minor age 12 years S/o Murarilal caretaker and Guardian father himself resident of Rasoolpur Kiraoli
						Total	0.127	Hactares
			17. Karahi	71	Private	Agricultural	0.200	Ramol Singh, Atar Singh, Dindayal S/o Jawahar Singh, Sohan Lal , Vinod Kumar , Gopal Prasad S/o Jamuna Prasad resident of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				44	Private	Agricultural	0.026	Mange Lal, Ompal, Ramkaran, Vasdev S/o Moharsingh, Bhagwan Devi Widow of Mohar Singh resident of village itself
				66	Private	Agricultural	0.179	Samanta S/o Panna resident of village itself Tara S/o Laxman resident of village itself Ranjeet S/o Natthi resident of village itself Bachhusingh S/o Kishansingh resident of village itself Girraj S/o Panna resident of village itself Bhagwansingh S/o Johri resident of village itself Phoolsingh S/o Panna resident of village itself Chetaria S/o Ramprasad resident of village itself
				40	Private	Agricultural	0.160	Nawla, Dulichand, Jhabbu, Tara, Nripal S/o Lachiman resident of village itself
				36	Private	Agricultural	0.150	Sirdar Singh S/o Madanlal resident of village itself
				37	Private	Agricultural	0.120	Kishansingh S/o Girdharsingh resident of village itself
				14	Private	Agricultural	0.560	Maresh Chand S/o Raman Lal resident of village itself, Haresh Chand S/o Raman Lal resident of Behron Nala, Agra, Satyam minor age 14 years S/o Shri Bhagwan guardian Sulekha monther her self Devi Prasad S/o Harishanker resident of Mod Mandigur, Fathepur Sikari, Pawan Garg, Hariom-Garg S/o Balmukand Garg resident of Mohalla Santosh Nagar, Fathepur Sikari
				96	Private	Agricultural	0.040	Chandrahans, Omprakash, Thansingh, Mansingh, Raghunath Singh S/o Mangal Singh, Sahab Singh S/o Nirrotam Singh resident of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				94	Private	Agricultural	0.040	Bhagwansingh, Ashok Kumar S/o Johari resident of village itself
								Mahesh Chandra S/o Ramanlal resident of village itself, Hareshchand S/o Ramanlal Satyam minor age 14 years S/o Shri Bhagwan guardian Sulekha mother herself resident of Bahronala Agra, Mohanlal, Sohanlal, Gopalprasad, Vinod Kumar S/o Jamuna Prasad resident of village itself
				81	Private	Agricultural	0.080	Ramswroop, Motiram S/o Shyamur resident of Ghiloy, Ratanlal, Rameshchand S/o Shyamur resident of village itself
						Total	1.555	Hactares
			18. Choma Shahpur	355	Private	Agricultural	0.024	Totaram, Jai Parakash, Ram Prakash S/o Kishori resident of village itself
				356	Private	Agricultural	0.029	Vadansingh S/o Kishan Lal resident of village itself
				357	Private	Agricultural	0.025	Deviram, Dhan Pal S/o Chote resident of village itself
				358	Private	Agricultural	0.020	Devicharan S/o Ramkhiladi, Atar Singh S/o Daroli, Jitendra Singh, Dharmendra Singh, Bhupendra, Ganga Singh all minor age 16, 13, 11, 9 years respectively S/o Rambahrosi, Guardian Smt. Jaldhara mother her self, Vishnu, Nawab minor age 5, 3 years respectively S/o late Rambahrosi Guardian Jaldhara mother her self, Smt Jaldhara W/o late Rambahrosi, Jaipal, Satyapal, Vinod Kumar S/o Padam Singh, Ganga Devi W/o Late Padam Singh resident of village itself
				360	Private	Agricultural	0.128	Mohammad Ali S/o Kallu Khan resident of Sikari -2 Hissa

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				365	Private	Agricultural	0.180	Devidass S/o Dodalli resident of village itself Jaidevi W/o Bhagwat daughter of Nanigdas resident of Bayana and Shanti W/o Bihari daughter of Nanigdas resident of Bharatpur, Smt Puniya W/o Shivcharan Lal Mohhala Patwar Ward No 2 Bharatpur Rajasthan, Devi Dass S/o Dodalli, Badan Singh S/o Kishan, Devicharan S/o Ramkhiladi, Atar Singh S/o Dorilal resident of village itself, Dharmendra minor, Bhupendra, Ganga Singh, Vishnu, Jitendra, Nawab all minor age 16, 13, 11, 9, 5, 3 years respectively S/o Late Rambahrosi guardian Jaidhara mother herself, Jaidhara W/o Late Rambahrosi, Jaipal, Satypal, Vinod Kumar S/o Padam Singh, Ganga Devi W/o Padam Singh, Deviram, Dhanpal S/o Chote resident of village itself
				368	Private	Agricultural	0.222	Girraj Singh, Roshan Singh S/o Rewati, Vadansingh S/o Nadam Singh, Smt Hariyari widow of Sukha resident of village itself, Bhim Singh, Rajansingh, Ashok Kumar resident of village itself
				383	Private	Agricultural	0.422	Omprakash, Sitaram, Nand Kishore S/o Jivaram resident of village itself
				393	Private	Agricultural	0.096	Kishan Singh, Ramveer Singh S/o Kironi resident of village itself
				404	Private	Agricultural	0.014	Ramkishan S/o Chiranji resident of village itself
				403	Private	Agricultural	0.252	Bhojpal, Netrapal Singh, Kapatansingh, Ramniwas, Parshuram, Chandrasen S/o Daryabsingh resident of village itself
				405	Private	Agricultural	0.046	Ravindra Kumar S/o Harvansial resident of Chilgarh Agra
				406	Private	Agricultural	0.048	Ramsaran, Ramkishan S/o Chiranji, Phool Singh, Shivganesh S/o Ramhet resident of village itself
				411	Private	Agricultural	0.023	Omprakash, Sitaram, Nand Kishore S/o Jivaram resident of village itself
				412	Private	Agricultural	0.012	Omprakash, Sitaram, Nand Kishore S/o Jivaram resident of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				426	Private	Abadi	0.022	Govinda, Shanker, Neko S/o Summra, Pooran S/o Sewa, Ram Dayal S/o Ramval resident of village itself
				430	Private	Abadi	0.080	Dhoop Singh, Bahadur Singh, Buddharan, Rambabu S/o Gangaram, Radheyshyam, Ramesh Chandra Lal Singh, Mukesh Chandra S/o Harheti, Kalyan Singh, Jagan Singh, Pappu S/o Rewati, Nahar Singh S/o Gutta, Govinda, Shanker, Neko S/o Summra Harisingh S/o Dauji, Khem Singh S/o Samre, Shivcharan, Kamal Singh, Kalyan Singh S/o Kahni resident of village itself
				437	Private	Agricultural	0.083	Khem Singh S/o Samre resident of village itself
								Govinda, Shanker, Neko S/o Summra resident of village itself
				439	Private	Agricultural	0.097	Raghuvar S/o Faguni resident of village itself
								Khem Singh S/o Samre resident of village itself
								Ragjivar S/o Faguni resident of village itself
								Harikishan S/o Dayogi resident of village itself
				440	Private	Agricultural	0.048	Bhojpal, Netrapal Singh, Kapatansingh, Ramniwas, Parshuram, Chandrasen S/o Daryabsingh resident of village itself
				441	Private	Agricultural	0.109	Bhojpal, Netrapal Singh, Kapatansingh, Ramniwas, Parshuram, Chandrasen S/o Daryabsingh resident of village itself
				442	Private	Agricultural	0.026	Bhojpal, Netrapal Singh, Kapatansingh, Ramniwas, Parshuram, Chandrasen S/o Daryabsingh resident of village itself
				446	Private	Agricultural	0.023	Bhojpal, Netrapal Singh, Kapatansingh, Ramniwas, Parshuram, Chandrasen S/o Daryabsingh resident of village itself
				448	Private	Agricultural	0.035	Govinda, Shanker Neko S/o Summra resident of village
				201	Private	Agricultural	0.242	Smt. Gayadevi W/o Suraj Mal resident of village itself

1	2	3	4	5	6	7	8	9
				174	Private	Agricultural	0.125	Smt. Premwati W/o Devisingh resident of village itself Cheetar adopted son of Bhoop Singh resident of village itself Hubbati S/o Jatsingh, Kamasingh, Kishansingh, Pratapsingh S/o Bhagwansingh resident of village itself Gopalsingh S/o Surajmal resident of village itself Srimati Shyamwati W/o Ramraj resident of village itself Srimati Sharda W/o Pooransingh resident of village itself Harinarayan S/o Gulabsingh resident of village itself Partapsingh S/o Bhagwansingh resident of Choma Shahpur Susil Kumar S/o Pitamsingh resident of Choma Shahpur
				176	Private	Agricultural	0.080	Rajveer Singh adopted son of Jawhar Singh, Komal Singh, Gopal Singh S/o Surajmal, Kishori S/o Hukma resident of village itself
				190	Private	Agricultural	0.240	Bhoopal, Netrapal Singh, Kapatansingh, Ramniwas, Parshuram, Chandrasen S/o Daryabsingh resident of village itself
				191	Private	Agricultural, Petrol Pump, Abadi	0.330	Ghurelal S/o Tikamsingh resident of Kiraoli
				196	Private	Agricultural	0.023	Ghurelal S/o Tikamsingh resident of Kiraoli
				197	Private	Agricultural	0.231	Ghurelal S/o Tikamsingh resident of Kiraoli
				198	Private	Agricultural	0.035	Ghurelal S/o Tikamsingh resident of Kiraoli
				199	Private	Agricultural	0.035	Ramniwas, Chandrahans S/o Daryabsingh, resident of village itself
						Total	3.405	Hactares
						Grand Total	62.874	Hactares

[F. No. NHA/BOT/11013/13/05/LA]

PRABHAKAR, Dy. Secy.